

वीर सेवा मन्दिर  
दिल्ली



क्रम संख्या

मिति

पृष्ठ



# SANKHYA-PHILOSOPHY

EDITED BY

MAHARSHI KAPIL

*Translated Into Hindi*

by

*KSHETRA PALL SARMA,*

and Published by

PANDIT LAKSHMAN PRASAD BAIDYA AND

*The Translator.*

---

**CALCUTTA.**

PRINTED AT THE NARAYANA PRESS.

*No. 75 Cotton Street Barabazar.*

---

1891.



# सांख्य-दर्शन

महर्षि-कपिल-मुनि-प्रणीत ।

---

जिसको

पण्डित क्षेत्रपाल शर्माने

अनुवाद किया ।

और

पण्डित श्रीलक्ष्मणप्रसाद चिकित्सक और अनुवादकने,

मुद्रित कराने प्रकाशित किया ।

---

कलकत्ता

७५ नं० तुलापट्टी नारायण यन्त्र में

रामनारायण पालने छापा ।

सन् १८९१ ई०

---

All Rights Reserved.

प्रथमवार १००० जिल्द

मूल्य २) डाकब्यय ४)



ओ३म्

## समर्पण ।

श्रीमान्महाराजाधिराज मर कर्नल प्रताप-  
सिंह के, सी, एम, आई, एडर्डीकेम्प टू हिज्  
रायल हाइनेम दी प्रिन्स आफ वेल्स मर्मीपेसु—

राजन् ! यह महर्षि कर्पिल मुनिका सर्वस्व-  
धन साङ्ख्य-दर्शन भाषानुवाद करके श्रीमान्  
का सिवामे समर्पित करता हूं क्योंकि साम्प्र-  
तिक नरन्ट्रीमे श्रीमान्हीको वैदिकमिदान्तोंका  
रक्तक और पृथ्वी कृपियोंका गौरव बढ़ानेमें  
उत्साह पाता हूं । यद्यपि यह अनुवाद ऐसा  
नहीं हुआ जो आपके अर्पण करनेके योग्य हो  
परन्तु अपने जनकी वस्तु किसे प्रिय नहीं  
होती ?

भवतामखण्डकीर्त्याकाक्षौ

क्षेत्रपाल शर्मा ।





प्रिण्टर—श्रीरामनारायण पाल

७५ नं० तुलापट्टी बडाबाजार कलकत्ता ।

प्रकाशक—श्रीलक्ष्मणप्रसाद सुकुल वैद्य श्रीर क्षेत्रपाल शर्मा

१५ नं० हंसपोखरलैन् बडाबाजार कलकत्ता ।

## सूचना ।

पाठकोंको ध्यान रहे कि इसकी द्वितीयाध्यायमें ७६ और ८४ पृष्ठके बीचमें एक फार्मके केवल अङ्क गड़बड़ हो गये हैं सूत्र और अनुवादमें कुछ विभेद नहीं पडा अतएव पृष्ठ त्रुटिके १ से लेकर ८ तकके अङ्को पर संदेह न करे ।

---

## उपोहात ।

प्रियं पाठकहृन्द । इससे अधिक मेरे लिये हृषेका समयकी-  
न आवेगा कि आज चिरनिद्रित भारतवासियोंकी उठकर  
समझते देखता हूँ और उन्हे उन रत्नोंकी खोजमें मग्नधाता हूँ  
जो कि उनके पूर्वजोंने अपनी सन्तानके लिये अनेक कष्टोंसे  
सञ्चित किये थे परन्तु यदि वह रत्न पत्थरके होते तो मैं समझता  
हूँ कि पहले तो अर्थ-लुब्धकोंके सन्मुख उनका बचनाही कठिन  
था और यदि दैवात् बचभी रहते तो वह आपसमें फूट और  
वैरका भूल ही बैठते किन्तु मेरा तात्पर्य यहाँ उन रत्नोंमें है  
जिन्हे वर्तमानमें शास्त्रोंके नामसे पुकारा जाता है और जिनके  
विचारसे ऋषियोंकी बहुदुर्गिताका पूरा परिचय मिलसकता है ।

जबमें वर्तमान को आभ्यन्तरिक दशा पर ध्यान देता हूँ तो  
शोककी घटाए चित्त-चन्द्रको आच्छादित करलेतो है कि जिस  
भारतवर्षमें किसी समय ऐसे ऐसे दर्शन शास्त्रोंके बनानेवाले थे  
उममें आज दिन इनके पठने और समझनेवालोंका अभाव  
साहो रहा है । नहीं तो हमारे यहाँके दर्शन शास्त्रोंकी इतनी  
अवनति क्यों हो जाती ? यद्यपि इन दर्शनों पर बहुतेरे टीका  
टिप्पणी भी है परन्तु वह भी समस्तमें हीनेके कारण सर्व-साधा-  
रणकी समझमें नहीं आसकते और समस्तमें भी कितने ही  
दर्शनों पर तो ऐसी व्याख्या है जिन्हे व्याख्याताअने मतवादके  
कारण ऋषियोंके सिद्धान्तोंसे प्रतिकूल निखमारा है जिसके  
उदाहरणमें इसी 'सांख्यदर्शन'की समझिये कि जिसे नास्तिकोंका  
दर्शन प्रसिद्ध करके पठन-पाठनहो बन्दकर रखा है तब कहिये  
कि जिस देशवासियोंकी यह दशा है उसके वासी यदि दूसरे  
देशकी विद्वानोंका गौरव करें तो क्या आश्चर्य ? यह वही

दर्शन है जिसके सहारेसे आज दिन अंगरेजोंने फिलासिफीके बीसों ग्रन्थ बनाडाले और अब तक बनाते चले जाते हैं; यह वही दर्शन है कि जिसमें सब शास्त्रोंके मुख्य प्रतिपाद्य मुक्तिका विषय पूर्णतया निरूपण किया गया है। यह वही दर्श है जिसके एकवार अच्छीतरह विचारलेनेसे मसारके सब पदार्थ हस्ता-मलककी भाति निर्भ्रम प्रतीत होने लगते है। बस इसी प्रकारके गौरवों पर ध्यान देकर मेरे एक मित्रने महर्षि-कपिल-मुनि-प्रणीत इस साख्यदर्शनका भाषानुवाद करनेके लिये मुझे प्रेरणा को; यद्यपि मैं अपने को इस कार्यके योग्य नहीं समझता था कि जिन सांसारिक और धार्मार्थिक तत्वोंको महर्षि-कपिलने इसके एक एक सूत्रमें गूँथ दिया है उसेम भाषामे व्यक्त करके सर्व साधारणके समुख निवेदन कर सकूँ परन्तु तोभी उनकी आज्ञा पालन तथा “अकरणात् करण श्रेयः” (न करनेसे करना अच्छा है) इस किम्बदन्ती को मूलमें रखकर मैं इसके भाषानुवाद करनेमें प्रवृत्त होता हूँ। निज पाण्डित्य-प्रदर्शन किम्बा और किसी प्रकारके दुराशयको मूलमें रखकर यह अनुवाद नहीं किया गया अतएव भारतर्षीय समस्त विद्वानोंसे प्रार्थना है कि यदि उन्हे इस अनुवादमें किसी प्रकारकी त्रुटि प्रतीत होवे तो उसे वह कृपापूर्वक सशोधन करले अथवा सुझें सूचित करें तो मैं उसे आगामीवार मुद्रित होते समय सुधार दूँगा क्योंकि सुझें किसी प्रकारका छठ, वा पक्षपात इस अपने लेख पर नहीं है और न मैं यह समझता हूँ कि जो मैंने लिखा है वही ठीक है क्योंकि भ्रम होना मनुष्यकी बुद्धिका सहज धर्म है।

अलमर्ति पल्लवितर्तन मुत्सु ॥

भवदीय

चेन्नपाल शर्मा ।

# सांख्यदर्शन-भाषानुवाद ।

अथ त्रिविधदुःखात्यन्तनिवृत्तिरत्यन्तपुरुषार्थः ॥ १ ॥

कोई अथशब्दसे अनन्तरका अर्थ करते हैं कि अथशब्द ऐसे ही स्थानपर कहा जाता है जहां पहिले किसी कार्यको करके दूसरे कार्यका आरम्भ किया जाता है तो उस पक्षमें अथशब्दके अनन्तर अर्थसे यह अभिप्राय जानना चाहिये कि कपिलजीने पहिले जो कुछ शास्त्रमें कहेंगे उसे मनमें विचार लिया उसके उपरान्त अन्य मनुष्योंको उपदेश करते हैं। परन्तु हमारी सम्प्रति से अथशब्दका “अव” यह अर्थ करना चाहिये। अध्यात्मिक\* आधिभौतिक, आधिदैविक, इन तीन प्रकारके दुःखोंकी अत्यन्त निवृत्ति अर्थात् फिर कभी उत्पन्न न होना इसीको अत्यन्त पुरुषार्थ ( मोक्ष ) कहते हैं क्योंकि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारोंमेंसे मोक्षही सर्वोत्तम पुरुषार्थ है इसी लिये आचार्योंने पुरुषार्थके साथ अत्यन्त शब्दका उच्चारण किया है अब यहां पर सन्देह होता कि उक्त तीन प्रकारके दुःखोंकी

\* अध्यात्मिक दुःख उसे कहते हैं जो शरीर वा मनको होता है जैसे बातपित्त कफादिकी न्यूनता, अधिकता, होना। मनका दुःख शोक आदि उत्पन्न होना, आधिभौतिक दुःख जो पशु वा वृक्षादिसे मिलता है जैसे अनेक पशुओंका मरजाना वा पशुके द्वारा शरीरमें चोट लगना इसी प्रकार वृक्ष आदिके गिरनेसे दुःख

निवृत्ति अति महज है जैसे शरीरके दुःखकी निवृत्ति औषध खानेमें होजाती है, और मानसिक दुःखकी निवृत्ति अभिलषित वस्तुके मिल जानेसे होजाती है, इसी प्रकार आधि-भौतिक दुःखकी निवृत्तिभी नीतिशास्त्रके उपदेशोंसे होजाती है और आधिदैविक क्लेश मणि वा महोषधीसे नष्टहोही जाते हैं, इनकी निवृत्तिको अत्यन्त पुरुषार्थ नहीं कह सकते इसका उत्तर यह है कि तत्वज्ञान केवल एक जन्महीमें प्राप्त नहीं होता किन्तु ज्ञानका संस्कार जब एक पुरुषको अनेक जन्मोंसे चला आता है तब शास्त्रमें प्रवृत्ति होकर तत्वज्ञान प्राप्त होता है तो ऐसे जन्मान्तर माध्य ज्ञानको कैसे महज कह सकते हैं इसके अतिरिक्त जो पूर्वोक्त, दुःखकी निवृत्तिके साधन कहे वह साधनभी ठीक नहीं हैं क्योंकि ॥ १ ॥

न दृष्टात् तस्मिद्धिनिवृत्तऽप्यनुवृत्तिदर्शनात् ॥ २ ॥

औषधादि पदार्थोंसे दुःखकी निवृत्तिही होती है किन्तु अत्यन्त निवृत्ति अर्थात् थोड़ेही समयमें उत्पत्ति न हो ऐसा नहीं होता तथा एक दुःखकी निवृत्ति होजाने पर दूसरे दुःख की उत्पत्ति लोकमें देखी जाती है और सूत्रकारका अभिप्राय यह है कि किसी प्रकारका दुःख उत्पन्न न हो इसीका नाम होना यह सब आधिभौतिक दुःख कहते हैं । इसी भाँति आधि-दैविक दुःख जो अकस्मात् आजाय जैसे अधिक दृष्टिमें हानि होना सूर्यकी अधिक उष्णता होनेके कारण ग्रौषकी उष्णवायु ( ल ) का लगजाना वा बिजलीका पडना इसी प्रकारके दुःख आधिदैविक कहते हैं ।

मोक्ष है, इस लिये पूर्वीक्त तीनप्रकारके दुःखोंकी निवृत्ति बिना तत्वज्ञानके कदापि नहीं हो सकती अतएव उसकी प्राप्तिका उपाय अवश्य करना चाहिये। अब यहां पर यह शङ्का होती है कि जिस प्रकार वर्तमानके दुःखोंकी निवृत्ति औषधादि खानेसे हो जाती है इसी प्रकार होनेवाले दुःखोंकी निवृत्तिभी पहिले-हीसे औषध खानेसे हो सकती है जैसे ॥ २ ॥

प्रात्यहिकक्षुत्प्रीकारवत् तत्प्रीकारचेष्टनात्  
पुरुषार्थत्वम् ॥ ३ ॥

\*नित्य प्रति क्षुधा उत्पन्न होती है उसको भोजनादिसे दूर कर देते हैं ऐसेही अन्य दुःखोंके दूर करनेकी चेष्टा करनाही पुरुषार्थ है इस सूत्रका भावार्थ यह है जब दुःख निवृत्तिकी पुरुषार्थ कहा है तो जिस प्रकार क्षुधा उत्पन्न होती है और भोजन करनेसे दूर हो जाती है इसी प्रकार अन्य दुःखभी अन्यान्य उपायोंसे नष्ट हो सकते हैं तो वही पुरुषार्थ क्यों न माना जाय ? तत्वज्ञानके प्राप्त करने वा खोजनेकी क्या आवश्यकता है ? इसके उत्तरमें यह सूत्र है कि ॥ ३ ॥

सर्वामम्भवात् सम्भवेऽपि सत्त्वासम्भवाद्द्वयः  
प्रमाण-कुशलैः ॥ ४ ॥

प्रथम तो सब देशमें वा प्रत्येक समयमें वैद्य वा औषध तयारही नहीं रहते और यदि मानभी लिया जाय कि बैद्यादि

\* यह सूत्र उपरंगत शङ्काकी पूर्ष्टिके लिये पूर्वपक्ष करनेका है इसका उत्तर अगले सूत्रमें है ।

दुःख दूर करनेवाले पदार्थ रहते हैं तो भी इन उपायोंसे दुःख की सत्ता कदापि नष्ट नहीं हो सकती जब सत्ताही बनी रहती तो दुःखसे कूटनाही क्या हुआ ? अतएव प्रमाण कुशल बुद्धि-मानोंको ऐसा पुरुषार्थ कदापि ग्रहण करने योग्य नहीं है किन्तु सर्वथा त्यागने योग्य है ॥ ४ ॥

उत्कर्षादपि मोक्षस्य सर्वोत्कर्षश्रुतेः ॥ ५ ॥

पूर्वोक्त उपायोंसे सुखकी प्राप्तिके लिये यत्न करना व्यर्थ है क्योंकि अन्य सुख क्षणस्थायी है और मोक्ष सुखको सब उत्कर्ष (ज'चे) सुखोंसेभी अधिक उत्कर्ष श्रुतियोंनेभी माना है जैसे "आत्म-लाभान्न परं लाभं विद्यते" आत्मलाभकी वराबर दूसरा कोईभी लाभ नहीं है । अब यहां पर यह शब्दा होती है कि मोक्ष-सुखही सबसे उत्तम है इसमें क्या प्रमाण है ॥ ५ ॥

अविशेषश्चोभयोः ॥ ६ ॥

यदि मोक्षको सबसे उत्तम न कहा जाय तो अन्य सुख और मोक्ष सुख दोनोंमें अविशेषता अर्थात् समानताही रहती अब रहा यह सन्देह कि मोक्ष (कूटना) कहनेसे यह प्रतीत होता है कि पहिले बड़था तो वह बन्धन स्वभावसे है वा किसी निमित्तसे ? यदि स्वभावसे है तो बन्धन कदापि नष्ट नहीं होगा, और जो किसी निमित्तसे है तो उस निमित्तके नाश होजाने पर बन्धन भी अवश्य कूट जावेगा, फिर मोक्षके लिये यत्न करना व्यर्थ होगा अतएव इस शब्दामें पहिले स्वभावसे बन्धन माननेमें दोष कहते हैं ॥ ६ ॥



न स्वभावतो बद्धस्य मोक्ष-साधनोपदेशविधिः ॥ ७ ॥

दुःख योग स्वभावसे कदापि नहीं हो सकता क्योंकि यदि स्वभावसे बन्ध होता तो मोक्षसाधनका श्रौतस्मार्त्त कर्मों द्वारा करना निष्फल होगा इसकी एक युक्ति यहभी है कि जैसे अग्नि स्वभावसे उष्ण है उसकी उष्णता जबतक अग्नि रहेगी कदापि नष्ट न होगी, इसी प्रकार जिस द्रव्यका जो स्वभाव है वह उस द्रव्यके रहने तक नष्ट नहीं हो सकता, यदि बन्धन स्वाभाविक ही माना जाय तब मोक्षका नामभी नहीं आसकता यही बात इस बख्यमाण सूत्रसे स्पष्ट करते हैं ॥ ७ ॥

स्वभावस्यानपायित्वाद्ननुष्ठानलक्षणमप्रामाण्यम् ॥८

अर्थात् स्वभाव किसीका नष्ट नहीं होता अतएव बन्धको स्वाभाविक कहनेसे न केवल श्रुति स्मृति विहित कर्मोंहीका अननुष्ठान ( न करना ) ही होगा किन्तु वेदादि शास्त्रोंका भी अप्रमाण होगा, क्योंकि वेदादि शास्त्रोंमें मोक्षका अनुष्ठान लिखा है और इस पक्षसे वास्तवमें मोक्ष कोईभी पदार्थ न रहा इससे स्वाभाविक बन्ध मानना ठीक नहीं है। अब यहां यह शङ्का हुई कि वेदकी आज्ञाको मान कर वेदोक्त कर्मोंका अनुष्ठान होता रहेगा किन्तु बन्ध स्वाभाविक मानो ऐसा करनेमें यह दोष है कि ॥ ८ ॥

नाशक्योपदेशविधिरूपदिष्टेऽप्यनुपदेशः ॥ ९ ॥

निष्फल कर्मके लिये ऋषि लोग कदापि उपदेश नहीं करते क्योंकि वह उपदेश कियाभी न कियेकी बराबर है कारण

यह कि स्वभाव बहको मोक्षसाधनोपदेश करने और न करनेमें कुछभी फल नहीं है और वेदभी निष्फल बातका साधन नहीं करता अतएव वह पक्ष युक्त नहीं ॥ अब जो स्वभावको नित्य नहीं मानते है उनके सिद्धान्तमें दूषण देते है कि ॥ ८ ॥

शुक्लपटवद्बीजवञ्चेत् ॥ १० ॥

लोकमें स्वाभाविक कार्यकाभी नाश देखनेमें आता है स्वभावसे श्वेतवस्त्रकी लालरंगमें रगनेसे उसका श्वेतत्व नष्ट हो जाता है और रक्तत्व आजाता है इसी प्रकार बीजसे अद्भुत उत्पन्न होना यह उसकी स्वाभाविक शक्ति अग्निमें भूजनेसे जाती रहती है यदि ऐसा हो तो इसका समाधान इस अगले सूत्रसे किया जाता है ॥ १० ॥

शक्त्यद्भवानुद्भवाभ्यां नाशक्योपदेशः ॥ ११ ॥

पूर्वोक्त दृष्टान्त स्वभाव के विनाशी होनेमें ठीक नहीं कहा जासकता कारण यह कि शुक्लपटका रक्त होजाना केवल उसकी श्वेतत्वशक्तिका तिरोभाव ( छिपना ) होना मात्र है वास्तवमें उसका श्वेतत्व नष्ट नहीं कहा जासकता क्योंकि रक्तवर्णविशिष्ट पटकी यदि रजकके व्यापसे ( धोनेसे ) भी श्वेतता प्राप्त न होती तो अवश्य स्वभाव नश्वर माना जाता, परन्तु ऐसा लोकमें नहीं देखता इससे श्वेतपटके रक्त होजानेके समय केवल श्वेतत्वशक्तिका तिरोभाव मात्रही कहा जासकता है इसी प्रकार भुने हुए बीजकी भी अद्भुतोत्पादिका शक्ति जब अनेक औषधोंके योगसे फिर आजाती है तब उस बीजमें भी अद्भुतोत्पादिका स्वाभाविका शक्तिका तिरोभाव ही ठीक कहा

जायगा एव पूर्वोक्त दृष्टान्तोंकी भांति जीवमें भी दुःखशक्तिका तिरोभाव हीजाना ही मोक्ष है क्योंकि यदि ऐसे माना जाय तो जिन दुःख शक्तिका तिरोभाव होगयाथा उसका फिर कभी आविर्भाव न ही कर शनैः शनैः सब जीव मुक्त होते चले जावे और नवीन जीव बननेसे रहें एव जो मुक्त हुए वह आनेसे रहें तब संसारकी व्यवस्था बिगड जाय, अतएव बन्ध स्वाभाविक नहीं माना जाता और मोक्ष भी स्वाभाविक नहीं है इस प्रकार स्वाभाविक बन्धका खण्डन करके अब नैमित्तिक बन्धका भी खण्डन करते हैं ॥ ११ ॥

न कालयोगतो व्यापिनो नित्यस्य सर्वसम्बन्धात् ॥ १२

बन्धनरूपी दुःख कालनिमित्तसे भी नहीं हो सकता क्योंकि काल नित्य और सर्वव्यापी है, अतएव उसका सबके साथ समान सम्बन्ध होनेसे मुक्त और अमुक्तको कुछ भी व्यवस्था नहीं हो सकती और जब कालही बन्धका हेतु माना जावे तो सबही पुरुष बड़ समझ जावेंगे यहा इन सब पर सामान्यसे इस हेतु विचार किया गया कि कोईभी मत कालादिकृत मुक्तिका पक्षपाती नहीं है ॥ १२ ॥

न देशयोगतोऽप्यस्मात् ॥ १३ ॥

देश ( दिशा ) के निमित्तसे भी बन्धन नहीं हो सकता क्योंकि दिशा भी सर्वत्र व्यापिका है इस लिये उसका सबके साथ सम्बन्ध रहेगा और इसके अतिरिक्त एक दोष और भी काल वा दिशा निमित्तक बन्धन माननेमें रहेगा कि सब शास्त्रोंकारोंके सिद्धान्तानुसार काल और दिशा सबके साधारण कारण है और

असाधारण कारण किसीका निमित्त कारण नहीं हो सकता  
अतएव काल दिशाकृत बन्धन करना ठीक नहीं है ॥ १३ ॥

नावस्थातो देहधर्मत्वात् तस्याः ॥ १४ ॥

जरा यौवनादि अवस्थाओंसे भी जीवका बन्धन नहीं है  
क्योंकि यह अवस्था शरीरका धर्म है यदि औरके धर्मसे औरका  
बन्धन माना जाय तो किसी अमुक्तजीवके धर्मसे मुक्तजीवका  
बन्धन हो जाना सम्भव है । यहां पर यह शङ्का होती है कि  
जरादि अवस्था जीवकी ही क्यों न मानी जाय ॥ १४ ॥

अमङ्गोऽयं पुरुष इति ॥ १५ ॥

यह जीव असंयोगी है अर्थात् इसका जरादि अवस्थाओंके  
माथ मेल नहीं है ॥ १५ ॥

न कर्मणान्यधर्मत्वाद् अतिप्रसक्तेश्च ॥ १६ ॥

श्रुति स्मृति द्वारा विहित और निषिद्ध कर्मोंसे भी जीवका  
बन्धन नहीं हो सकता क्योंकि कर्म करना भी शरीर वा  
चित्तका धर्म है यदि अन्यका कर्म अन्यके बन्धनका हेतु हो तो  
अमुक्तके कर्मसे मुक्तका बन्धन हो कर अतिप्रसक्ति दोष होगा ।  
अब यह शङ्का हो सकती है कि जब दुःखका योग चित्तको  
होता है तो चित्तहीका बन्धन क्यों न माना जाय जीवको  
बन्धन क्यों है ? तो इसमें यह दोष होगा कि ॥ १६ ॥

विचित्रभोगानुपपत्तिरन्यधर्मत्वे ॥ १७ ॥

यदि दुःखरूप बन्धन जीवको न माना जाय तो चित्तके  
अनित्य होनेसे तत्कृत कर्मभी अनित्य होंगे अर्थात् जैसे चित्त

की वृत्ति प्रतिक्षण बदलती रहती है इसी प्रकार सुख दुःखका भी परिवर्तन चित्तवृत्तिके साथही होता रहेगा इस लिये जिस क्षणमें चित्त सुखी होगा उस क्षणमें मोक्ष और जब चित्त दुखी हुआ तो बन्ध कहना पड़ेगा, तब बन्ध मोक्ष दोनोंही क्षणिक होंगे, यद्यपि चित्तपर भी दुःखका प्रतिविम्ब (छाया) पडता है परन्तु वह प्रतिविम्ब जीवके कारण है क्योंकि चित्तभी जीवका आदर्श मात्र है। अब इस वक्ष्यमाण सूत्रसे प्रकृतिकृत बन्धनका भी खण्डन करते हैं ॥ १७ ॥

प्रकृतिनिबन्धनाच्चेन्न तस्या अपि पारतन्त्र्याम् ॥ १८ ॥

प्रकृतिमे बन्ध इस कारण नहीं होसकता कि प्रकृतिको परतन्त्र माना है क्योंकि गुणोंके संयोगको प्रकृति माना है वह संयोग अवश्य किमीने किया होगा तो संयोगके नाश होते ही बन्धका भी नाश ही जावेगा और यदि प्रकृतिके संयोग कर्त्ताके बिना भी प्रकृतिको बन्धका कारण कहें तो प्रकृतिका नाश प्रलयपर्यन्त नहीं होता अतएव बन्धन भी नित्य होगा ॥ अब ब्रह्महीको जीवरूप मान कर जो उपाधिकृत बन्धन मानते हैं उनका सिद्धान्त इस वक्ष्यमाण सूत्रसे अयुक्त सिद्ध करते हैं ॥१८॥

न नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभावस्य तद्योगस्तद्योगादृते ॥१९॥

जो ईश्वर नित्यशुद्ध बुद्ध और मुक्त स्वभाव है उसको कदापि बन्धयोग नहीं हो सकता क्योंकि उसके पूर्वोक्त गुण प्रकृति सम्बन्ध होने न होने परभी समान ही रहते हैं और जो ब्रह्महीको जीव माननेवाले प्रकृति और पुरुषके संयोगको बन्धन मान कर उस संयोगके नाश करदेनेको ही मोक्ष कहते हैं

उनके सिद्धान्तमें एक दोष यह भी होगा कि पुरुष परिणामी और सद्गी हो जायगा और “अमंयोगोऽयं पुरुषः” ( यह पुरुष सगरहित है ) इस सिद्धान्तमें दूषण होगा तथा प्रकृति और पुरुष प्रलयपर्यन्त रहते हैं इससे प्रलयपर्यन्त मंयोग रहनेके कारण मोक्षका होना सर्वथा असम्भव होगा ॥ जिनका यह सिद्धान्त है कि माया वा अविद्याने जीवरूप ब्रह्मका बन्धन कर रखा है वह भी इस कारण ठीक नहीं हो सकता कि ॥ १८ ॥

नाविद्यातोऽप्यवस्तुना बन्धयोगात् ॥ २० ॥

जब वह लोग अविद्याको अवस्तु (नाचीज) मानते हैं तो अविद्या-रूपी अवस्तुमें पुरुषका बन्धन कदापि नहीं हो सकता क्योंकि जो स्वयं ही कुछ वस्तु नहीं है वह दूसरेका बन्धन क्या कर सकती है ? और जो अविद्याको कोई वस्तु माना जाय तो ॥ २० ॥

वस्तुत्वे सिद्धान्त-हानिः ॥२१॥

अविद्याके वस्तु होनेसे उनके “एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म” (ब्रह्म एकही है दूसरा कुछ नहीं) इस सिद्धान्तकी हानि होती है क्योंकि ब्रह्म एक वस्तु रहा और अविद्या एक वस्तु रही तब दो होनेसे अद्वैत न रहा किन्तु द्वैत होगया ॥ २१ ॥

विजातीय-द्वैतापत्तिश्च ॥२२॥

अद्वैतवादी ब्रह्मको सजातीय, विजातीय, स्वगत भेद शून्य मानते हैं परन्तु अविद्याको वस्तु माननेसे ब्रह्ममें विजातीय द्वैतापत्ति हो गई ॥ २२ ॥

विरुद्धोभयरूपा चेत् ॥ २३ ॥

और जो वस्तु तथा अवस्तु दोनोंसे ही पृथक् अविद्या कोई तीसरा पदार्थ माना जाय सो भी नहीं हो सकता क्योंकि ॥ २३ ॥

न तादृक् पदार्थाप्रतीतेः ॥ २४ ॥

पूर्वोक्त रीतिसे अविद्या वस्तु अवस्तुसे भिन्न तीसरा पदार्थ नहीं हो सकती क्योंकि ऐसा कोईभी पदार्थ देखनेमें नहीं आता जो वस्तु अवस्तुसे पृथक् हो, और जो अद्वैतवादी अपने ढः पदार्थोंको नित्य मान कर अपने सिद्धान्तको पुष्ट करते हैं उसमें भी आचार्य अनिच्छा प्रकाश करते हैं ॥ २४ ॥

न वयं षट्पदार्थवादिना वैशेषिकादिवत् ॥ २५ ॥

जिस प्रकार वैशेषिकादि शास्त्रोंमें द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, यह छः वा अन्यान्य शास्त्रोंमें इनसे न्यूनाधिक पदार्थोंको अनादि मान कर अपना सिद्धान्त साधन किया है उस प्रकार हम ( महर्षि कपिल ) नहीं मानते किन्तु असंख्य पदार्थोंको मानते हैं । अब इसमें यह सन्देह होता है कि यदि असंख्य पदार्थ हैं तो अविद्या वा अन्य जैसा मनमें आवे उसे भी एक पदार्थ क्यों न माना जाय इस सन्देह पर विशेष सम्प्रति यह है कि ॥ २५ ॥

अनियतत्वेऽपि नायौक्तिकस्य संग्रहोऽन्यथा बालो-  
न्मत्तादिममत्वम् ॥ २६ ॥

यद्यपि हम असंख्य पदार्थ मानते हैं परन्तु उन असंख्य

पदार्थोंमें जो पदार्थ युक्तिसे सिद्ध नहीं होता ( जैसे कि सद्व्यसद्व्य दोनोंसे रहित अविद्या है यह बात युक्तिसंगत नहीं अतएव ) उसे ( अविद्याको ) पदार्थ नहीं मानते यदि अर्थवैज्ञानिकको भी पदार्थ माने तो वह मानना बालक और उन्मत्तके माननेके समान ही जाय और जो कोईर नास्तिक बाह्य विषयोंकी दृष्टिक मान कर उन विषयोंकी वामनाहीसे जीवका बन्धन मानते हैं उन नास्तिकोंका बन्ध-कारणिक, सिद्धान्त ठीक नहीं हो सकता ॥ २६ ॥

नानादिविषयोपरागनिमित्तकोऽप्यस्य ॥ २७ ॥

क्योंकि इस जीवको प्रवाहरूपसे अनादि वामनाहृत बन्धन कहना इस वक्ष्यमाण दोषसे अयुक्त होगा ॥ २७ ॥

न बाह्याभ्यन्तरयोरुपरञ्जोपरञ्जकभावोऽपि देशव्यवधानात् सुप्तस्यपाटलिपुत्रस्ययोरिव ॥२८॥

कि नास्तिक लोग आत्मा ( जीव ) को देहमें परिच्छन्न मानते हैं अतएव उनके सिद्धान्तानुसार बाह्यविषयोंसे आभ्यन्तर आत्माका कुछ भी सम्बन्ध नहीं रह सकता, इसका कारण यह है कि बीचका व्यवधान हो जाना उस कार्यमें बाधा डाल देता है इसका दृष्टान्त यह है कि जैसे सुप्त (आगरे) के रहनेवालेका पाटलिपुत्र (पटने) के रहनेवालेके कर्मसे बन्धनादि नहीं हो सकता क्योंकि बीचमें अनेक देशोंका व्यवधान है इसी प्रकार बाह्य इन्द्रियोंसे उत्पन्न हुई वामना आभ्यन्तरस्य आत्माके बन्धनका हेतु नहीं हो सकती और लोकमें भी ऐमाही व्यवहार देखनेमें आता है कि जब रंग और ध्वनिदोनोंकी अव्यवधान ( जिसके बीचमें कुछ



न ही करके मिलाया जाय तबही वस्त्रपर रंग चढ़ सकता है एवं स्फटिकके समीप अव्यवधानसे जिस वर्णका पुष्प वा अन्य पदार्थ रखा जाय तबही उम स्फटिकमें पुष्पका वर्ण प्रतीत होने लगता है परन्तु जब नास्तिक लोग बाह्य इन्द्रिय और आत्माका व्यवधान मानते हैं तो इन्द्रियकृत बासनासे आत्माका बन्धन माननेमें दूषण होगा, यदि यह कहा जाय कि बाह्य इन्द्रियोंका आभ्यन्तर इन्द्रिय (बुद्ध्यादि) से सम्बन्ध है और आभ्यन्तर इन्द्रियोंका आत्माके साथ सम्बन्ध है इस परम्परा सम्बन्धसे आत्मा भी विषय बासनासे बद्ध हो सकता है सो भी अयुक्त है क्योंकि ॥ २८ ॥

द्वयोरिकदेशलब्धोपरागान्न व्यवस्था ॥ २९ ॥

जब आत्मा और बाह्य इन्द्रिय दोनोंही विषय बासना युक्त है तो बद्ध और मुक्तकी व्यवस्थाही न होसकेगी इसका आशय यह है कि यदि आत्मा और बाह्येन्द्रिय दोनोंही विषय बासनासे समान सम्बन्ध रखते हैं तो इन्द्रियोंका बन्धन न कहकर केवल आत्माहीके बन्धनकी व्यवस्था करना अयुक्त होगा ॥ २९ ॥

अदृष्टवशाच्चेत् ॥ ३० ॥

यदि अदृष्ट अर्थात् जन्मान्तरकृत कर्मसे बन्धन माना जाय तो ॥ ३० ॥

न द्वयोरिककालायोगादुपकार्योपकारकभावः ॥ ३१ ॥

जब नास्तिक लोग क्षणिक\*वादके कारण कर्त्ता और

\* क्षणिकवादी नास्तिकोंका यह सिद्धान्त है कि सब पदार्थ प्रतिक्षण बदलते रहते हैं इसी भाँति आत्माभी बदलता रहता है

भोक्ताको एकही नहीं मानते तब एक आत्माके पूर्वकालमें किये हुए कर्म कबों बन्धनका हेतु होसकते हैं ? अतएव अन्य कर्ताका अन्य भोक्ताके साथ उपकार्य ( जिसका उपकार किया जाय ) उपकारकभाव सम्बन्ध नहीं होसकता ॥ और यदि यह कहा जाय कि पुत्र कर्मकी भांति पिताका किया हुआ गर्भाधानादि संस्कार पुत्रके लिये उपकारी होता है इसी प्रकार अन्यका किया कर्म अन्यभी भोग सकता है इस शङ्काका पूर्वपक्ष करते हैं कि ॥ ३१ ॥

पुत्रकर्मवदिति चेत् ॥ ३२ ॥

यदि पुत्र कर्मका दृष्टान्त दिया जाय तो भी अयुक्त है  
श्लोकि ॥ ३२ ॥

नास्ति हि तत्र स्थिर एकात्मा यो गर्भाधानादिना  
संस्क्रियते ॥ ३३ ॥

जब क्षणिकवादियोंके मतमें एक आत्मा स्थिरही नहीं तो गर्भाधानादि संस्कारके समयभी एक आत्मा नहीं रहता जिससे पुत्रका उपकार कहा जाय और आस्तिकोंके मतमें तो आत्मा को स्थिर कहा है अतएव उपरोक्त दृष्टान्त आस्तिकोंके मतमें

अतएव पूर्वक्षणमें किये हुए आत्माके कर्मको परक्षणमें आत्मा नहीं भोगता इसी सिद्धान्तानुसार नास्तिक लोग कर्ता भोक्ताके भिन्न २ मानते हैं तब जन्मान्तरके आत्मकृत कर्म दूसरे आत्माका बन्धन नहीं कर सकते ।

तो ठीकभी होमकता है ॥ अब रहा यह कि यदि क्षणिक बन्ध को अनियतकारणवाला वा अभावकारणवाला यदा अकारणवालाही माना जाय तब क्या दोष होगा तो इसका उत्तर यह है ॥ ३३ ॥

स्थिरकार्य्यामिद्वेः क्षणिकत्वम् ॥ ३४ ॥

कि यदि बन्धको क्षणिक मानो तो स्थिर कार्य्यकी सिद्धि कदापि न होसकेगी इस सूत्रका विशेषभाव यह है कि क्षणिक बन्धन कार्य्यकी अमिद्धि का हेतु होगा क्योंकि यदि अकारणिक क्षणिक बन्ध स्वीकार करके “बन्धादिकं क्षणिकं सत्त्वाद् दीपशिखादिवत्” (बन्धादिक क्षणिक है क्योंकि होनेसे, दीपज्योति के समान) ऐसा लक्षण करे तो घटादिमें अतिव्याप्ति होजायगी अर्थात् जैसे दीपशिखामें कोई विशेष कारण नहीं है किन्तु वह अग्निका एक रूपान्तरही है और वह सदैव एकभावसे न रहनेके कारण क्षणिकभी है तथा दीपशिखा है इस व्यवहारसे उसकी सत्ताभी कही जाती है इसी प्रकार आत्माकाभी बन्ध किसी कारण विशेषसे नहीं है किन्तु वह उसका एक रूपान्तर है तथा वह रूपान्तर क्षणिक है परन्तु इस लक्षणसे घटादि पदार्थोंको भी कारण रहित नहीं कह सकते क्योंकि जैसे बन्ध वैसे घटादि दोनोंहीमें समान प्रमाण है ॥ अतएव यह लक्षण दूषित रहा और स्थिर कार्य्यकी क्या असिद्ध होगी वह इस अगले सूत्रसे स्पष्ट करते हैं\* ॥ ३४ ॥

\* इस सूत्रके आशयका विशेष निर्णय ३७ वें सूत्रके भाष्यमें होगा ।

### न प्रत्यभिज्ञाबाधात् \* ॥३५॥

लोकमें कोईभी पदार्थ क्षणिक नहीं है क्योंकि लौकिक पदार्थोंको क्षणिक माननेसे प्रत्यभिज्ञाज्ञानका बाध होगा जैसे “जो मैंने पूर्वकालमें पदार्थ देखा था उसीका इस समय स्पर्श करता हूँ” इस लोकके व्यवहारसे जाना जाता है कि कोईभी पदार्थ क्षणिक नहीं है किन्तु सब पदार्थ स्थिर हैं क्योंकि यदि क्षणिक मानें तो “जो पहिले देखा था उसीको स्पर्श करता हूँ” यह कहना नहीं बन सकता इससे बन्धाटिकोंका भी स्थिर मानना चाहिये अतएव बन्धाटि क्षणिक नहीं है और लक्षणभी ऐसा करना चाहिये कि “बन्धाटिकं स्थिरं सत्वाद् घटादिवत्” (बन्धाटिक स्थिर है होनेसे घटाटिकी भांति) ऐसे लक्षण करनेसे कोईभी दोष नहीं आता और बन्धका स्थिरत्वभी सिद्ध होता है ॥ ३५ ॥

### श्रुतिन्यायविरोधाच्च ॥ ३६ ॥

“सदेव सौम्येदमग्र आसीत्” “तम एवेदमग्र आस” (हे सौम्य । यह जगत् पहिलेभी सत्ही था) (यह जगत् पहिले तमही था) इन श्रुतियोंसे जगत्का सद् होना सिद्ध होता है और “कथमसतः सञ्जायेत” (असत्से सत्की उत्पत्ति कैसे होसकती है) इस युक्तिसेभी जगत्का पूर्वकालमें होना और क्षणिकवादकी

---

\* वा जो पदार्थ किसी इन्द्रिय द्वारा पहिले प्रत्यक्ष ही चुका है उसीको फिर किसी इन्द्रिय द्वारा प्रत्यक्ष करके पूर्वकालका स्मरण करनेका नाम प्रत्यभिज्ञा है ।

दोषापत्ति सिद्धि होती है अतएव बन्धनकी क्षणिक मानना श्रुति और न्याय दोनोंसे विरुद्ध है ॥ ३६ ॥

दृष्टान्तामिद्वेष्य ॥ ३७ ॥

क्षणिकमें जो दीपशिखाका दृष्टान्त दिया उसकी भी असिद्धि होती है क्योंकि क्षण ऐसा सूक्ष्मकाल है कि जिसकी इयत्ता(तादाद)कुछभी नहीं होसकती जैसे परमाणुओंकी इयत्ता नहीं है इसी प्रकार क्षणकीभी इयत्ता नहीं है तब दीपशिखा एक क्षण एकभावसे रहती है यह कथनभी सर्वथा अयुक्त है इसका कारण यह है कि दीपशिखाकी स्थिरता कितनेही क्षणतक अर्थात् दो वा एक मिनटतक समान देखनेमें आती है तो दीपशिखा प्रतिक्षण बदलती है यह कथन भी प्रत्यक्षसे विरुद्ध होगा और क्षणिकवादियोंके मतमें एक दोष यहभी होगा कि वह किसी वस्तुमें कार्य्य कारण भाव नहीं कह सकते जैसे घटका कारण मृत्तिका है यह कथन नहीं बन सकता क्योंकि जिस क्षणमें मृत्तिका घटका कारण रूपथी वह क्षण अब नष्ट होगया और यहभी नहीं कह सकते कि घट और मृत्तिकाका कार्य्य कारण भाव नहीं है क्योंकि बिनर कारण जाने घट बनानेमें कुलालकी प्रवृत्ति नहीं होती और यदि दोनोंकी अर्थात् मृत्तिका और घटकी उत्पत्ति एकक्षणहीमें माने तो ॥ ३७ ॥

युगपज्जायमानयोर्न कार्य्यकारणभावः ॥ ३८ ॥

जो पदार्थ एक साथ उत्पन्न होते हैं उनमें कार्य्य कारण भाव नहीं होता क्योंकि ऐसा कोईभी दृष्टान्त नहीं है जिसमें कार्य्य कारण दोनोंकी उत्पत्ति एक साथही हो और यदि

क्षणिकवादी यह कहें कि शक्तिका और घट क्रमसे हैं अर्थात् पहिले शक्तिका रूपी कारण पीछे घट रूपी कार्य ॥ ३८ ॥

पूर्वापाये उत्तरायोगात् ॥ ३९ ॥

तो पूर्वीक्त पक्षमें यह दोष होगा कि जब पूर्वक्षणमें शक्तिकारूपी कारणका नाश हो जाता है तब पीछे उससे कार्य घट क्यों कर उत्पन्न हो सकता है ? क्योंकि जबतक उपादान कारण न माना जाय तब तक कार्यकी उत्पत्ति नहीं हो सकती वह कार्य कारण भाव क्षणिकवादियोंके मतसे सिद्ध नहीं हो सकता ॥ ३९ ॥

तन्नावे तदयोगादुभयव्यभिचारादपि न ॥ ४० ॥

पूर्व ( कारण ) को विद्यमानतामें उत्तर ( कार्य ) का अयोग ( अभाव ) होनेसे और कार्यकारणका व्यभिचार होनेसे भी पूर्वक्त सिद्धान्त ठीक नहीं हो सकता यह अन्वय व्यतिरेक भाव तभी हो सकता है जब कि कार्यकारणकी स्थिरता स्वीकार कीजाय वह स्थिरता क्षणिक बादसे नहीं हो सकती अतएव उक्त मत दूषित रहा । यहां पर यह सन्देह होता है कि जिस प्रकार निमित्त कारणका पूर्वभाव ( पहिले होना ) माना जाता है इसी प्रकार उपादान कारणका भी पूर्वभाव माना जाय तो क्या दोष है इसका उत्तर यह है ॥ ४० ॥

पूर्वभावमात्रे न नियमः ॥ ४१ ॥

यदि कारणको नियत न मान कर पूर्वभाव मात्रही मानें तो यह नियम न रहेगा कि शक्तिकाहीसे घट बनता है वा

कज्जलसे, क्योंकि क्षणिकवादी किसी विशेष कारणको नियत भावसे तो मानेगही नहीं किन्तु भावही मानेंगे अतएव उपरोक्त दोष रहा ॥ इस सूत्रका यह भी अर्थ हो सकता है कि निमित्त कारण और उपादान कारण इन दोनोंमें कुछ भी भेद पूर्वभाव मात्र माननेसे न रहेगा क्योंकि कुलाल घटका निमित्त कारण है और मृत्तिका उपादान कारण है यह नियम क्षणिकवादी कदापि न कर सकेगे अतएव उनके कथनानुसार आत्माका बन्ध मानना भी सर्वथा अयुक्त है ॥ अब विज्ञानवादियोंका मतभी अयुक्त सिद्ध करते हैं विज्ञानवादी कहते हैं कि जो कुछ वस्तु मसारमें है वह मिथ्याही है अतएव बन्ध नाश हो जानेके लिये कारण खोजनेकी कोई आवश्यकता नहीं इसका उत्तर यह है कि ॥ ४१ ॥

न विज्ञानमात्रं बाह्यप्रतीतेः ॥ ४२ ॥

इस जगत्को विज्ञान मात्र नहीं कह सकते क्योंकि विज्ञान आन्तरिक ( भीतर ) होता है और इस जगत्में बाह्य प्रतीति भी होती है ॥ ४२ ॥

तदभावे तदभावाच्छून्यं तर्हि ॥ ४३ ॥

यदि बाह्य न माने तो वह ( दीखते हुए जगत्में ) विज्ञानकाभी अभाव मानना होगा अतएव जगत्को शून्य कहना पड़ेगा इसका कारण यह है कि प्रतीति विषयका साधन करनेवाली होती है इस लिये यदि बाह्य प्रतीति जगत्का साधन न करे तो विज्ञानप्रतीति भी विज्ञानको नहीं सिद्ध कर सकती इस हेतुसे विज्ञानवादमें शून्यवाद हो जायगा ॥ अब

शून्यवादी नास्तिक कहता है कि तत्वमात्र सब शून्य रहो इससे क्या हानि है परन्तु बन्धको अबस्तु मान कर उसके नाशके लिये कारण खोजना तो अशुक्तही है इसी अभिप्रायसे यह वक्ष्यमाण सूत्र शून्यवादीके पूर्वपक्षका कहते हैं ॥ ४३ ॥

शून्यं तच्च भावो विनश्यति वस्तुधर्मत्वाद्दिनाशस्य ॥४४॥

जितने पदार्थ हैं सब शून्य हैं और जो कुछ भाव (विद्यमान) है वह सब नाशवान् है और जो बिनाशी है वह स्वप्नकी भांति मिथ्या है इससे संपूर्ण वस्तुओंके आदि और अन्तका तो अभाव (न होना) मिट्टही हो गया अब रहा केवल मध्यभाग उसमें कुछ सत्व रहा सो भी पारमार्थिक न रहा किन्तु व्यावहारिक रहा तब कौन किसको बांध सकता है ? और कौन किसको छोड़ सकता है ? इस हेतुसे बन्ध मिथ्याही प्रतीत होता है ॥ जो जो भाव वस्तु (विद्यमान) है वह नाशवान् इस लिये है कि नाश होना वस्तुमात्रका धर्म अर्थात् स्वभाव है इस शून्यवादीके पूर्व-पक्षका खण्डन करते हैं ॥ ४४ ॥

अपवादमात्रमवुद्धानाम् ॥ ४५ ॥

जो कुछ भाव पदार्थ है वह सब नाशवान् है यह कथन मूर्खोंका अपवाद मात्र है क्योंकि नाशमात्र वस्तुका स्वभाव कह कर नाशमें कुछ कारण न बतानेसे जिन पदार्थोंका कुछ अवयव (आकृति) नहीं है उनका नाश नहीं कह सकत इसका हेतु यह है कि कारणमें लय हो जानिकोही नाश कहते हैं और जब निरवयव वस्तुओंका कुछ कारण न माना तो उनका लयभी किसीसे न होनेसे उनका नाश न हो सकेगा



इसके अतिरिक्त एक दोष यह भी रहेगा कि लोकमें कार्य मातृकी अभाव सिद्धि नहीं कह सकते जैसे “घट फूट गया” इस कथनसे यह ज्ञान होगा कि घटकी दूसरी अवस्था हो गयी किन्तु घटरूपी कार्य तो बनाही रहा क्योंकि आकृतिकी नित्य इस लिये माना है कि वह एक घटके नाश होने पर दूसरे घटमें तो विद्यमान रहती है ॥ ४५ ॥

उभयपक्षसमानक्षमत्वादयमपि ॥ ४६ ॥

दोनों पक्षों ( ज्ञानिकवादी और विज्ञानवादी ) का खण्डन एक गौनिसे कर दिया जाता है इसी प्रकार शून्यवादभी खण्डन ही जाता है जिस प्रकार ज्ञानिक पक्षके खण्डनमें प्रत्यभिज्ञादि दोष है और विज्ञानपक्षमें वाद्यप्रतीति (वाहरकी वस्तु दीखना) आदि खण्डन हेतु है इसी भांति यह शून्यवाद भी है, यदि यह कहो कि शून्यवाद करने पर भी पुरुषार्थत्व ( मुक्ति ) तो स्वीकार करते है तो वह भी मानना अयुक्त होगा ॥४६॥

अपुरुषार्थत्वमुभयथा ॥ ४७ ॥

दोनोंही प्रकारसे पुरुषार्थत्व नहीं कहा जासकता अर्थात् दुःख निवृत्ति भी शून्य है और दुःख निवृत्तिके साधन भी शून्य हैं तथा पुरुषार्थ भी शून्यही है तब शून्यवादी सबको शून्य कह कर पुरुषार्थको किस प्रमाणसे उत्तम कह सकते है ? अब सामान्य प्रकारके सन्देहोंका खण्डन करते है ॥ ४७ ॥

न गतिविशेषात् ॥ ४८ ॥

गति विशेष अर्थात् दूसरे २ शरीरों में प्रविष्ट होना इसी

कार्यसे जीवका बन्धन यदि माना जाय तो वह ठीक नहीं क्योंकि गति जीवका स्वाभाविक धर्म है और यदि स्वाभाविक धर्मही बन्धका हेतु हो तो फिर मोक्ष कदापि नहीं हो सकेगा क्योंकि किसी का स्वाभाविक धर्म बन्धका हेतु नहीं हो सकता यदि यह कहो कि गति आदि प्रकृतिके धर्म हैं अतएव उनसे बन्धन होना चाहिये सो भी ठीक नहीं क्योंकि ॥ ४८ ॥

निष्क्रियस्य तदसम्भवात् ॥ ४९ ॥

निष्क्रिय अर्थात् जड़ प्रधान (प्रकृति) में गति होना असम्भव बात है अतएव गति आदिसे बन्धन नहीं होसकता यदि जीव को शरीर रूप मानकर उस शरीरके नष्ट होतेही मुक्ति मानी जाय सो भी ठीक नहीं क्योंकि ॥ ४९ ॥

मूर्तत्वाद्घटादिवत् समानधर्मापत्तावपसिद्धान्तः ॥ ५० ॥

घटादिकाकी भांति जो जीवकी मूर्त्तमान् माना जाय तो एक देशीयत्व होगा और घटादिकाके समान धर्म सावयत्व (टुकड़ावाला) और विनाशित्व दोनोंही जीवमें स्वीकार करने पड़ेगे अतएव आस्तिकाका सिद्धान्त (जीवका अनादि अनन्त मानना) न रहेगा । आत्माकी अपरिच्छिन्न (सर्वव्यापक) होनेमें हेतु कहते हैं ॥ ५० ॥

गतिश्रुतिरप्युपाधियोगादाकाशवत् ॥ ५१ ॥

“नित्य सर्वगत.” नित्य है सर्वगत है अर्थात् शरीरके सब अवयवोंमें प्रविष्ट है इत्यादि बचनोंसे आत्माका सर्वगत होना

सिद्ध होता है और जो आत्मामें गति (लौकिक व्यवहार) श्रुति (अध्वयनादि) हैं भी वह वास्तविक नहीं है किन्तु औपाधिक (उपाधिसे हुए) जैसे घटमें जो आकाश है वह घटका जहां लेजाओ वहीं चला जाता है परन्तु आकाश सर्वव्यापी और क्रिया रहित है इसी भांति देहादिकके कृत कर्म यद्यपि जीवके योगसे होते हैं परन्तु वास्तवमें जीवके यह सब कर्म उपाधि कृत हैं इसका सारांश यह है कि विहित और निषिद्ध दोनों प्रकारके कर्मोंसे जीवका बन्धन मानना ठीक नहीं है अब कर्मकृत बन्धन-काभी खण्डन करत है ॥ ५१ ॥

न कर्मणाप्यतद्धर्मत्वात् ॥ ५२ ॥

कर्मसे भी बन्धन नहीं हो सकता क्योंकि कर्म करना जीव काही धर्म नहीं है यदि गुण (सत्व, रज, तम) से बन्धन माने वह भी ठीक नहीं हो सकता क्योंकि ॥ ५२ ॥

अति प्रसक्तिरन्यधर्मत्वं ॥ ५३ ॥

इसमें अति प्रसक्ति दोष होगा अर्थात् तीनों गुण एकही कालमें बन्धन नहीं कर सकत और जब एकही कालमें बन्धन नहीं कर सकत तो यहभी निश्चय नहीं होगा कि कौनसे गुणसे बन्धन हुआ है और निश्चय न होनेपर बन्धन छुड़ानेकाभी उपाय नहीं होसकता ॥ यदि यह कहा जाय कि निर्गुणत्वही एक पदार्थ है वही जीवके बन्धनका हेतु है वहभी अयुक्त है क्योंकि ॥ ५३ ॥

निर्गुणादिश्रुतिविरोधश्चेति ॥ ५४ ॥

“साक्षी चेत्ता केवलो निर्गुणश्च” (साक्षी है चैतन्य है केवल

है निर्गुण है) इत्यादिक श्रुतियां केवल ईश्वर ही की निर्गुणत्व प्रतिपादन करती है यदि जीवमें भी निर्गुणत्वादि माना जाय तो ईश्वर और जीवमें भेद ही क्या रहेगा ? और अन्यका स्वभाव अन्यमें आरोपित करना पड़ेगा अतएव ईश्वर प्रतिपादिका श्रुतियोंसे विरोध होगा इस सूत्रमें "इति" शब्दमें यह प्रयोजन है अब बन्धके हेतुओंका विचार इसी सूत्रतक समाप्त हुआ अब इससे आगे अन्य विचार मूर्तिके विषयमें आरम्भ करते हैं ॥ कि जब प्रकृति और पुरुषका संयोग स्वाभाविक वा काल आदि निमित्तोंसे हो तो क्या मृत पुरुष बद्ध नहीं हो सकता इसका उत्तर लिखते हैं कि ॥ ५४ ॥

तद्योगोऽप्यविवेकान्न समानत्वम् ॥ ५५ ॥

प्रकृति संयोग अविवेकमें होता है और मृत जीवमें अविवेक नहीं रहता अतएव वह बद्ध नहीं कहा जा सकता यदि मृत जीवमें अविवेककी विशेषता पाई जावे तो मृत और अमृत दोनों ही समान है अब रहा यह कि जीवकी वासना जो जन्मादिमें हेतु है वह जन्म कौन २ कारणोंसे होता है तो इसका उत्तर यह है कि एक तो भान्नात् (वह कर्म जिनका तत्काल फल मिलता है) दूसरा धर्माधर्म (जिन कर्मोंसे धर्माधर्म उत्पन्न हो कर वह धर्म अधर्मही जन्ममें हेतु होता है) तीसरा राग द्वेषादि इन तीन प्रकारके जन्मकारक कर्मों का हेतु (त्यागने योग्य) कहा है इनका नाश किस प्रकार हो सकता है वही कहते हैं ॥ ५५ ॥

नियतकारणात् तदुच्छित्तिर्ध्वान्तवत् ॥ ५६ ॥

उनका नाशभी नियमित कारणोंसे हो जाता है जिसप्रकार

शक्ति (सौष) में चांदीको भ्रान्ति होती है वह शक्तिका विवेक होतेही नष्ट होजाती है और वही विवेक उस भ्रान्तिके नाशमें नियत कारण है इसी प्रकार जन्मकारिणी वासना जो बुद्धिसे सम्बन्ध रखती है उसका जांवकी विवेक हो जानाही मुक्त होना है। अब यहां पर यह सन्देह होता है कि जब प्रकृति और पुरुषका अविवेकही प्रकृति मयोग द्वारा बन्धका हेतु है और प्रकृति पुरुषका विवेकही मोक्षका हेतु है तो देह (शरीर) के अभिमान होते भी वह विवेक उत्पन्न होजायतो मुक्ति होसकती है वा नहीं यदि हो तो ऐसी मुक्ति श्रुत्यादिकोंसे विरुद्ध है ॥ ५६ ॥

प्रधानाविवेकादन्याविवेकस्य तद्धाने हानम् ॥ ५७ ॥

पुरुषमें प्रधान \* अविवेक होनेसे बुद्ध्यादिकोंका अविवेक गौण (अप्रधान) है और पुरुषका प्रधान अविवेक बुद्ध्यादिकोंके अविवेकका कारण है अतएव बुद्ध्यादिकोंका अविवेक कार्य्य रूप होनेसे अनित्य है और पुरुषका अविवेक कारण होनेसे अनादि है अब यहांपर यह शङ्का होती है कि पुरुषके प्रधान अविवेक में क्या प्रमाण है ? क्योंकि "मै मूर्ख हूँ" "मै पण्डित हूँ" इत्यादिक कथन सब बुद्धिविषयक होनेसे बुद्धिहीमें अविवेक सिद्ध होता है इसका उत्तर यह है कि "मै" बार बार शरीर त्यागकर जब पृथ्वीपर जन्म धारण करूँ तब मुझे स्वर्गसुख मिले नरकके

\* अविवेक दो प्रकारका है एक तो प्रधान अर्थात् मुख्य और दूसरा अप्रधान अर्थात् गौण, अप्रधान अविवेकका प्रधान अविवेक कारण है, प्रधान अविवेक जीवमें है, अप्रधान बुद्ध्यादिकोंमें है।

दुःख आदि न मिलें' इस प्रकारके लौकिक अनुभवोंसे पुरुषमें ही प्रधान अविवेकका निश्चय होता है क्योंकि बार बार मरना और जन्म लेना यह कार्य्य बुद्धिका नहीं है किन्तु जीवका है इसका हेतु यह है कि जीव प्रलय होनेके अनन्तरभी जन्म लेता है और जब जब जन्म लेता है तब तब संयोग वशात् अन्यान्य बुद्धियोंके परिणामको प्राप्त होता है बुद्धि आदिक जन्मान्तरीमें एकही नहीं बने रहते अतएव उनके अविवेकको अनादिभी नहीं कह सकते और अब इसमें यदि यह मन्देह हो कि यदि बुद्धि आदिका अविवेक कार्य्यरूप होनेसे अनादि नहीं, इसका कारण क्या है क्योंकि कारण बिना कार्य्य नहीं होता यह नियम है तब इससे पुरुषका प्रधान अविवेकही कारण कहा जायगा लोकमेंभी यही देखा जाता कि जिसकी सुवर्णमें स्वत्वाभिमान होता है उसका सुवर्णसे बने हुए परिणामी आभूषणोंमें भी स्वत्वाभिमान होताही है इसी भांति जीवमें जब अविवेक है तो उसके परिणामी बुद्धि आदिमें भी अविवेक उसीका कहा जावेगा अब रहा यह कि प्रधान अविवेक और उसकी वासना में कौन अनादि है तो इसकी कोईभी आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह दोनों बीजाङ्गुरके समान है इनमेंसे किसीकीभी पहले पीके नहीं कह सकते ॥ इस सब सूत्रका आशय यह हुआ कि पूर्व सूत्रके अन्तमें जो शङ्का कीथी कि यदि प्रकृति पुरुषका विवेक इसी शरीरसे हो जाय तो मनुष्य इसी शरीरमें मुक्त हो सकता है उसके उत्तर पक्षमें यह सूत्र है कि पुरुषके प्रधान अविवेकसे अतिरिक्त जो बुद्धि आदिकोंका अविवेक है जब तक वह नष्ट न होगा तब तक कदापि मुक्ति न होगी और

बुद्धि आदिका अविवेक इस शरीरके रहते नष्ट नहीं हो सकता जब तक बुद्धि रहेगी तब तक उसका अविवेक भी बना रहूँगा अतएव इसी शरीरमें मुक्त कहना नहीं हो सकता ॥ अब कोई शका करता है कि ॥ ५७ ॥

वाङ्मात्रं न तु तत्त्वं चित्तस्थितः ॥ ५८ ॥

बन्धादिक सब चित्तहीको होते हैं अतएव पुरुषमें बन्धादि कहना केवल कथन मात्र है वास्तिक नहीं है जैसे जवाका पुष्प स्फटिकके समीप रखनेसे स्फटिकमें भी कुछ ललाई आजाती है परन्तु वह ललाई औपाधिक है वास्तविक नहीं इसी भांति पुरुषमें भी बन्ध वास्तविक नहीं है । अब यहां पर यह सन्देह होता है कि यदि पुरुषमें बन्धन कथन मात्र है तो उसका नष्ट होना अत्यन्त पुरुषार्थ क्यों है और विवेकाविवेक अन्य (चित्तादि) के स्वभाव है उनसे द्रमरे ( जीव ) का बन्ध मानने पर \* कर्मादिकोंकी भांति अव्यवस्था होगी तो द्रमका वही (पूर्व पक्ष कर्त्ता) समाधान करता है कि यद्यपि विवेक और अविवेक चित्तके धर्म है तथापि पुरुषमें यदि बन्धको वाङ्मात्र (कथन मात्र) ही माना जाय तो वह केवल युक्तिसे ही दूर हो सकता है विवेककी क्या आवश्यकता है इसका समाधान यह है कि ॥ ५८ ॥

\* जैसे कर्मोंमें अव्यवस्था पूर्व सूत्रोंमें दिखा आये हैं अर्थात् देहादि कृतकर्मा से जीवका बन्धन खोकार करने पर अन्यके किये कर्मोंसे अन्यका बन्धन यह अव्यवस्था हांगी ।

युक्तितोऽपि न बाध्यते दिङ्मृद्वदपरोच्चादृते ॥ ५६ ॥

युक्तिसे भी उसका नाश नहीं हो सकता किन्तु बाध्यात् होने परभी प्रयत्न अवश्य करना पड़ेगा जैसे कोई पुरुष दिशाओंको भूल कर पूर्वको उत्तर मानता है तो यद्यपि यह दिशाको उलटा मानना केवल कथन मात्र है तथापि उसको बिना बताये कदापि दिशाका ठीक ज्ञान नहीं हो सकता इसी भांति पुरुषमें भी बन्ध निवृत्ति के लिये विवेककी आवश्यकता होती है क्योंकि “अपरोच्चादृते” प्रत्यक्ष प्रमाणके बिना उसे दिशाका ठीक ज्ञान नहीं हो सकता, जब तक दिशाके भूलें हुएको सूर्य चन्द्रमा आदि अपनी नियत दिशाओंमें उदय होनेवाले पदार्थों द्वारा उसे प्रत्यक्ष न कराया जाय तब तक पूर्वको उत्तर माननेवाला कदापि उस भ्रमसे नहीं कूट सकता इसी भांति प्रकृति और पुरुषका विवेक जब तक प्रत्यक्ष साधन शास्त्रावलोकन श्रुत्यादि विहित कर्मोंके बिना नहीं हो सकता ॥ ५६ ॥

अचाक्षुषाणामनुमानेन बोधो धृमादिभिरिव वक्त्रैः ॥६७॥

जो विषय प्रत्यक्ष नहीं है किन्तु परोक्ष है उनकाभी अनुमानसे ज्ञान होता है जिस प्रकार अति दूरसे धूम देखकर यद्यपि अग्नि नहीं देखी तोभी अग्निका बोध होजाता है ॥६७॥

सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृतिः प्रकृतेर्महान्,  
महतोऽहङ्कारोऽहङ्कारात् पञ्च तन्मात्राण्युभयमिन्द्रियं  
तन्मात्रेभ्यः स्थूलभूतानि पुरुष इति पञ्चविंशतिर्गुणाः ६१

सत्व, रज, तम इन तीनों गुणोंकी जो साम्यावस्था अर्थात्



स्थूल अधिक न रहकर समानभावसे रहना इसीका नाम प्रकृति है उक्त तीन गुणोंकी सांख्यवस्थाही प्रकृति है अर्थात् इनसे (तीनों गुणोंसे) भिन्न किसी अन्य पदार्थका नाम प्रकृति है और वह सत्त्वादिक प्रकृतिके धर्म नहीं है किन्तु सत्त्वादिका रूपही प्रकृति है ॥ इस उपरोक्त लक्षणका आशय यह हुआ कि “कार्यकी प्राप्ति न हुए हों ऐसे इन्हीं तीन गुणोंका नाम प्रकृति है” यही मूल प्रकृतिका लक्षण यह है कि जो और तत्वोंका उपादान कारणही उसका नाम प्रकृति है ॥ उस प्रकृतिमें महत्त्व उत्पन्न होता है महत्त्वे अहङ्कार और अहङ्कारमें पाच तन्मात्रा अर्थात् इन्द्रियोंका विषय और दोनोः इन्द्रिय (ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रिय) और तन्मात्राओंमें स्थूलभूत उत्पन्न होते हैं और एक पुरुष एवं समस्त \* मिल कर यही उपरोक्त पञ्चविंशति (पच्चीस) गुण है ॥ ६१ ॥

स्थूलात् पञ्चतन्मात्रस्य ॥ ६२ ॥

स्थूल जो पृथिवी आदिक है उनमें तन्मात्रा अर्थात् रूपरसादि इनका अनुमानसे ज्ञान होता है क्योंकि स्थूल पदार्थही अपनी अन्तिम दशाकी प्राप्ति होकर तन्मात्रा रूप हीं गये हैं अतएव स्थूल पदार्थके दूसरा तन्मात्राओंका अनुमान होता है लौकिक नियमभी एसाही देखा जाता है कि स्थूल पदार्थमें

\* १ प्रकृति २ महत् ३ अहङ्कार ४ रूप ५ रस ६ गन्ध ७ स्पर्श ८ शब्द ९ वाक् १० पाणि ११ पाद १२ गुदा १३ उपस्थ १४ नेत्र १५ जिह्वा १६ नाक १७ त्वचा १८ कान १९ मन २० पृथिवी २१ जल २२ तेज २३ वायु २४ आकाश २५ पुरुष अथोत् जोव । वा ईश्वर ।

जैसा विशेष गुण होता है वैसाही गुणवाला द्रव्यभी उनके द्वारा उत्पन्न होता है जैसे तन्तुका गुण पटमें देखा जाता है ॥ ६२ ॥

वाचाभ्यान्तराभ्यां तैश्चाहङ्कारस्य ॥ ६३ ॥

वाच्य और अभ्यन्तर दोनों प्रकारके इन्द्रिय तथा उनकी तन्मात्रा इनमें अहङ्कारका बोध होता है क्योंकि अहङ्कारके इन्द्रिय तन्मात्राएँ कार्य हैं अतएव अभिमानका यह इन्द्रियादि कार्य है यदि यह सब अहङ्कारके कार्य नहोते \* तो इन्द्रियादिमें इसके गुणभी दृष्टिगत नहोते जैसे यह सब पुरुषके कार्य नहीं है और न पुरुष इनका कारण है अतएव इनमें पुरुषके गुणभी दृष्टिगत नहीं होते ॥ ६३ ॥

तेनान्तःकरणस्य ॥ ६४ ॥

अहङ्कार रूपी कारणसे अन्तःकरणका बोध होता है अहङ्कार अन्तःकरणका कारण है क्योंकि अहङ्कार जो द्रव्य है वह निश्चय वृत्तिवाले द्रव्य (अन्तःकरण) का उपादान कारण होता है इसका हेतु यह है कि अन्तःकरण (जिसमें निश्चय होता है) वहभी द्रव्य है और अहङ्कारभी द्रव्य है यदि अहङ्कार नहीतो अन्तःकरणभी नहीं ही सकता जैसे अन्तःकरण पुरुषका कार्य नहीं है उसमें पुरुषका गुणभी नहीं दृष्टिगत होता और लौकिक व्यवहारभी यही है कि पहिले पदार्थके स्वरूपका निश्चय करके

\* इस प्रकारके दृष्टान्तकी व्यतिरेक दृष्टान्त कहते हैं जिसका लक्षण पहिले भी लिख आये हैं कि कारणके न होनेसे कार्यका न होना ।

पीछे उसे स्वीकार करता है “मैंने यह किया” “मुझे यह करना है” इत्यादिक सब विचार अन्तःकरणसे होते हैं और जहां २ “मैं” शब्द आता है वही अहङ्कारका कार्य है और इसी भांति जिस २ कार्यमें जैसा २ गुण जिस २ द्रव्यका देखा जावे उसी द्रव्यको परम्परा सम्बन्धसे उसका कारण मानना चाहिये ॥ ६४ ॥

ततः प्रकृतेः ॥ ६५ ॥

प्रकृतिका कार्यं महत्तत्त्व है अतएव महत्तत्त्व कार्यसे प्रकृति कारणका अनुमान द्वारा बोध होता है और कार्य कारण भाव शून्य जो पुरुष है उसका अनुमानभी इन वक्ष्यमाण कारणोंसे होता है ॥ ६५ ॥

महतपरार्थत्वात् पुरुषस्य ॥ ६६ ॥

महदादिक जितने कारण हैं वह सब परार्थ अर्थात् अपने अनिरिक्त किसी अन्यके लिये विकार वा परिणाम द्वारा फल-साधक है इसीसे पुरुषका बोध होता है क्योंकि जब यह सब कारण, परार्थ है तो किसके लिये है ? इस प्रश्नके उत्तरमें यही कहा जावेगा कि पुरुषके लिये, तब इसीसे पुरुषका अनुमान द्वारा बोध होता है इसमें दृष्टान्त यह है कि जिस प्रकार उज्ज्वल शय्या विछी हुई है तो उससे यह बोध होगी कि यह किसी मनुष्यके लिये शयन करनेके है ॥ अब यहांपर यह मन्तेह होता है कि प्रकृतिही सबका कारण है और प्रकृतिका कोईभी कारण नहीं इसमें क्या प्रमाण है इसका उत्तर यह है कि ॥ ६६ ॥

### मूलं मूलाभावाद्मूलं मूलम् ॥ ६७ ॥

कारणका कारण नहीं होता अतएव कारणकी अमूल अर्थात् कारण रहित कहना चाहिये और इस सूत्रका यहभी अर्थ होमकता है कि जो शका प्रकृतिके कारणमें की वह पुरुष के कारणमें की जावे और उसके समाधानमें यह सूत्र कहा जावे कि पुरुष अमूल (कारण रहित है) है इस प्रकारका अर्थ महादेव वेदान्तोनि किया है वह इस कारणसे युक्त नहीं हो सकता कि अगले सूत्रोंमें प्रकृतिके ही कारणत्व में पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष किये हैं पुरुष कारणमें नहीं डूमरा हेतु यहभी है कि सांख्यके आचार्य कपिलजी पुरुषको उपादान कारण नहीं मानते अतएव उसके विषयमें एसी शङ्काभी नहीं होमकती ॥ पुरुष उपादान कारण क्यों नहीं हो सकता इसका वर्णन आगे किया जावेगा ॥ अब एक शङ्का इस सूत्रमें होती है कि कारणका कारणभी लोकमें देखा जाता है जैसे घटका कारण मृत्तिका और मृत्तिकाका कारण परमाणु, तो इसका उत्तर यह है कि ॥ ६७ ॥

### पारम्पर्येऽप्येकत्र परिनिष्ठति संज्ञामात्रम् ॥ ६८ ॥

कारणोंकी परम्परामें एकत्र अर्थात् मृत्तिका आदिमें कारणत्व मानना केवल संज्ञा मात्र है वास्तवमें तो परमाणुही सब के कारण है ॥ ६८ ॥

### समानः प्रकृतेर्हयोः ॥ ६९ ॥

हयोः अर्थात् घटादिक कार्य और मृत्तिकादि निमित्त कारण इन दोने के विषयमें प्रकृतिका समान सम्बन्ध है इसका आशय यह हुआ कि परम्परा सम्बन्धसे प्रकृतिही को कारण

कह सकते हैं वह प्रकृति नित्य है अतएव उसका कोईभी कारण नहीं हो सकता ॥ ६८ ॥

**अधिकारिद्वैविध्यान्न नियमः ॥ ७० ॥**

यद्यपि प्रकृति सबका उपादान कारण है परन्तु प्रत्येक कार्यमें जो तीन प्रकारके कारण माने हैं अर्थात् १ उपादान २ निमित्त और ३ असाधारण, इनकीभी व्यवस्था न रहेगी क्योंकि सृत्तिका, कुलाल, दण्डादिकोंका कारण प्रकृतिही ठहरी तो इन तीन कारणीकी अनावश्यकता होनेसे बहुत गोलमाल होगा इसका हेतु यह है कि फिर कोई भी किसीका निमित्त वा असाधारण कारण न रहेगा अतएव जहा २ कारणत्व कहा जाय वहा २ प्रकृतिको छोड कर कहना चाहिये क्योंकि प्रकृति तो सबका कारण है ही उसके कहनेकी कोई भी आवश्यकता नहीं है जैसे कुलालके पिताको घटका कारण कहना अनावश्यक है क्योंकि वह तो अन्यथामिद्व है ही यदि वही न होता तो कुलाल कहाँसे आता ? परन्तु घटके बननेमें कुलालके पिता को कोई भी आवश्यकता नहीं है एसाही नवीन नैयायिकभी मानते हैं कि कारणत्व प्रकृतिको छोड कर कहना चाहिये ॥७०॥

**महदास्यमाद्यं कार्यं तन्मनः ॥ ७१ ॥**

प्रकृतिका पहला कार्य महत् है और उस महत्मे मनकी उत्पत्ति होती है जैसा कि ६१के सूत्रमें कह चुके हैं ॥७१॥

१ उपादान कारण जैसे घटका सृत्तिका । २ निमित्त कारण जैसे घटका कुलाल । ३ असाधारण जैसे घटके दण्ड आदि ।

### चरमोऽहङ्कारः ॥ ७२ ॥

श्रीर प्रकृतिका पिछला कार्य अहङ्कार है ॥ इम दोनो सूत्रों का तात्पर्य यह है कि यदि प्रकृतिको कारणत्व कहा जावे तो केवल इनही दो कार्योंका कहना उचित है अन्य कार्यों का कारण महदादिकों कहना चाहिये इसी बातको अगले सूत्रोंसे स्पष्ट करते हैं ॥ ७२ ॥

### तत्कार्यत्वमुत्तरेषाम् ॥ ७३ ॥

श्रीरोंकी महदादिकोंका कार्यत्व कहना चाहिये ॥ अब यहां यह सन्देह होता है कि पहिले प्रकृतिका सबका कारण कह चुके अब महदादिकोंका क्यों कारण कहते हैं तो इसका उत्तर यह है कि ॥ ७३ ॥

### आद्यहेतुता तद्द्वारा पारम्पर्येऽप्यगुवत् ॥ ७४ ॥

जिस प्रकार परंपरा सम्बन्धमे घटादिके कारण अणु मानेथे उमी भांति परम्परा सम्बन्धमे महदादिकोंका कारणभी प्रकृतिही है अतएव कुछ दोष न रहेगा ॥ ७४ ॥

### पूर्वभावित्वे द्वयोरेकतरस्य हानेऽन्यतरयोगः ॥ ७५ ॥

प्रकृतिके पूर्व भावमें एक युक्ति यह भी कि कार्य श्रीर कारण इन दोनोंमेंसे कार्यका नाश होने पर वह अपने उत्तरोत्तर कारणोंमें मिलता जाता है अतएव अन्यमें कार्य मात्रका लय प्रकृतिहीमें होता है श्रीर कोई कोई इस सूत्रका यहभी

अर्थ करते हैं कि जब प्रकृति और पुरुष दोनोंही अनादि हैं तो पुरुषको कारण न मानकर प्रकृतिहीको क्यों कारण माना जाता है इस पूर्व पक्षके उत्तरमें यह सूत्र है कि यद्यपि दोनों का पूर्वत्व है परन्तु पुरुषको परिणामी नहीं माना अतएव वह कारण नहीं हो सकता किन्तु प्रकृतिही परिणामशीला है इस कारण उसीको कारण मानना चाहिये और पुरुषके अपरिणामित्वमें ६६ का सूत्रही प्रमाण है, यदि यह कहा जाय कि पुरुषको प्रकृति द्वारा परिणामी मानकर (अर्थात् पुरुष प्रकृति द्वारा समस्त कार्योंका कारण है) उसमें कारणत्व कहै तो दो कारण कल्पना करनेमें गौरव होगा अतएव प्रकृतिको ही परिणामी कहना चाहिये और पुरुषमें तो केवल इतनाही प्रतीत होता है कि जिस प्रकार मैजिकीकी करी हुई जयपरा जय राजांमं सङ्घटित होती है इमी भाति प्रकृति कृत दुःखादिकीका आभास पुरुष पर पडता है अब यहा पर यह सन्देह होता है कि प्रकृति नित्यक्यों है ? तो इसका उत्तर यह है कि ७५ ॥

परिच्छिन्नं न सर्वोपादानम् ॥ ७६ ॥

अनित्य पदार्थ सबका उपादान कारण नहीं हो सकता ॥७६॥

तदुत्पत्तिश्रुतेश्च ॥ ७७ ॥

और अनित्य पदार्थकी उत्पत्ति भी सुनी जाती है एव जब उत्पत्ति है तो मरण अर्थात् नाश भी अवश्य स्वीकार करना होगा । अब रहा यह कि नवीन वेदान्ती अविद्या द्वारा ममारकी

उत्पत्ति मानते हैं वही क्यों स्वीकारकीजाय ? तो इसमें यह दोष होगा कि ॥ ७७ ॥

नावस्तुनो वस्तुमिद्विः ॥ ७८ ॥

अविद्या आदि जो अबस्तु है उनसे वस्तु जो ससार उसकी सिद्धि अर्थात् उत्पत्ति नहीं हो सकती जैसे मनुष्यके सींगोमि धनुष् नहीं बनसकता । अब यहाँ पर यह सन्देह होता है कि अविद्यादिका अबस्तु न कह कर संसार ही को अबस्तु क्यों कहा जाय तो इसका उत्तर यह है कि ॥ ७८ ॥

अबाधाददुष्टकारण जन्यत्वाच्च नावस्तुत्वम् ॥ ७९ ॥

जैसे स्वप्नके पदार्थोंका जाग्रत् अवस्थामें बाध हो जाता है और शङ्खको पीलाई जो नेत्रोंके दोषसे प्रतीत होती है एवं उस रोगके नष्ट होने पर वह पीतिमाभी नष्ट हो जाती है इस भांति ससार की उत्पत्ति किसी दुष्ट अर्थात् अनित्य कारणसे नहीं है अतएव इस संसारको अबस्तु कदापि नहीं कह सकते ॥ जो ७२ वें सूत्रमें अबस्तुसे वस्तु सिद्धिका निषेध कियाथा उसमें हेतु कहते हैं कि ॥ ७९ ॥

भावे तद्योगिन तन्मिद्विरभावे तदभावात्

कुतस्तसंतन्मिद्विः ॥ ८० ॥

जब कारण भावरूप हीगातो उससे कार्यभी सत् उत्पन्न हीगा और जब कारण अभाव हीगा तो उसका कार्य कुछभी न हीगा और नियमभी यही है कि जैसा गुण कारणमें हीगा वैसाही उसके कार्यमें भी हीगा ॥ इस प्रकारकी उत्पत्ति में जैसे



प्रधानकी कारण मानते हैं इसी भांति कर्मही को कारण माना जायतो क्या दोष है ? तो यहभी अयुक्त है क्योंकि ॥ ८० ॥

न कर्मण उपादानत्वायोगात् ॥ ८१ ॥

प्रारब्ध कर्मोंसे वस्तु सिद्धि नहीं हो सकती क्योंकि प्रारब्ध कर्मम उपादानका अयोग है अर्थात् उसका उपादानके साथ कुछभी सम्बन्ध नहीं है और जब उपादानसे उनका कुछभी सम्बन्ध नहींतो वह वस्तुसिद्धिके कारण क्या होसकते हैं ? और दूसरा कारण यहभी है कि प्रकृति द्वारा वस्तुको उत्पत्ति द्रव्य पदार्थही कर सकता है परन्तु कर्म द्रव्य नहीं है अतएव कर्मको कारण मानना ठीक नहीं है। अब पांच सूत्रोंमें इस बातको सिद्ध करते हैं कि किसी प्रकारका भी कर्म मोक्षका हेतु नहीं होसकता ॥ ८१ ॥

नानुश्रविकादपि तत्सिद्धिः साध्यत्वेनावृत्तियोगाद्-  
पुरुषार्थत्वम् ॥ ८२ ॥

आनुश्राविक अर्थात् वेद विहित कर्म जो यज्ञादि उनसेभी मोक्ष नहीं होसकता क्योंकि जब मोक्ष कर्म साध्य रहतातो उन कर्मोंकी वासना रहनेसे फिरभी दुःखमें आना पड़ेगा तो एसी मोक्षकी अपुरुषार्थ कहना चाहिये इसका कारण यह है कि दुःखोंकी अत्यन्त निवृत्तिकी मोक्ष आचार्यने शास्त्रकं आदिमें माना है और इस प्रकार यागादि कर्म यदि किसीने थोड़े यागादि कियेतो थोड़ी मुक्ति होगी, और बहुत यज्ञकियेतो बहुत मुक्ति होगी, तथा मुक्ति अवस्थामें उसकी वासना यही बनी रहेगी कि अबकी

बार और भी उत्तम कार्य करूं जिससे अच्छी मोक्षही भतएव मोक्षमें छोड़ी और बहुतकी व्यवस्था माननी पड़ेगी इस कारण कर्मकृत मोक्ष मानना ठीक नहीं ॥ ८२ ॥

तत्र प्राप्तविवेकस्यानावृत्तिश्रुतिः ॥ ८३ ॥

( तत्र ) तिस हेतुसे प्राप्त विवेक प्रधान को अर्थात् जिसको ज्ञान होगया है ऐसे आत्माको कर्मकी वामना नहीं रहती अब यहां पर यह सन्देह होता है कि तो वह कर्म यज्ञादिक कैसे हैं तथा उनका कैसा फल है इसका उत्तर यह है ॥ ८३ ॥

दुःखाद्दुःख जलाभिषेकवन्न जाड्याविमोक्तः ॥ ८४ ॥

इन वेद विहित कर्मोंसे जन्मान्तर की वामना रहने के कारण दुःखसे दुःखहो जाता है किन्तु जडताका नाश नहीं होता, जैसे किसी शीतज्वर पीडित पुरुषको जलसे स्नान कराया जायतो उमका दुःख अधिक बढेगा न्यून नहोगा अब रहा यह सन्देह कि यदि कामना रहित कर्म किये जायतो क्या उनका फल मोक्ष न होगा ? इसका उत्तर यह है कि ॥ ८४ ॥

काम्येऽकाम्येऽपि साध्यत्वाविशेषात् ॥ ८५ ॥

काम्य वा अकाम्य दोनो प्रकारके कर्मोंही से मोक्ष नहीं होती क्योंकि दोनो प्रकारके कर्मोंके साध्यत्वमे अविशेषता है इस सूत्रका आशय यह है कि यदि काम्य वा अकाम्य किसी प्रकारके भी कर्मसे मोक्ष होता दोनो प्रकारके कर्म समान हैं क्योंकि अकाम्य और काम्य इनके साधनमे कुछभी विशेषता

नहीं है उन्हीं वैदिक आज्ञाओंसे काश्य और अकाश्य दोनोंही समान विहित हैं और “ऋतज्ञानान्नमुक्तिः” (विना ज्ञानके नहीं होगा) इस श्रुतिसे विरोध होगा \* ॥ ८५ ॥

निजमुक्तस्य बन्धध्वंममात्रं परं न समानत्वम् ॥ ८६ ॥

जो जीव अपने ज्ञानसे मुक्त हो सकता है उसका उक्त दोनों प्रकारके कर्मोंमें बन्धध्वंस करना उत्तम नहीं हो सकता क्योंकि कर्म सब नाशवान् है काश्य हो ; वा अकाश्य हो ; उनका नाश और वासनाओंके कारण पुनर्दुःखमें आवृत्त होना यह बात कर्ममें है अतएव कर्म और ज्ञान समान नहीं है ॥ अब मुक्तिके उपायोंको प्रमाणा द्वारा निश्चय करना आवश्यक है अतएव अब प्रमाणा का निरूपण करते हैं ॥ ८६ ॥

\* इसमें यह न समझना चाहिये कि वैदिक कर्म करना निष्फल है किन्तु यहाँ पर मुक्ति विषयमें कर्महेतु नहीं है इस बातकी पुष्टिके लियेही वैदिक कर्मोंको अमोक्षदायी लिखा है और वास्तवमें वेदके मन्त्रोंके अर्थोंको बिना जाने और उनके अर्थानुसार आचरणोंको बिना सुधार वैदिक कर्म भी निष्फल हो जाते हैं वैदिक कर्मोंके करनेका प्रयोजन ही यही है कि चित्तशुद्ध हो और उसमें ज्ञानादर्श अति सरलतासे हो सकता है यह सब बात अनेक श्रुतियोंसे सिद्ध है यथा “स्याणुरयं किल भारहृार योऽधीत्य-वेदान्नविजानात्यर्थम्” (जो वेदोंके पढ़कर उनके अर्थोंको नहीं जानता वह केवल इनके पठनका भार मात्र उठाता है ।

द्वयोरैकतरस्य वाप्यसन्निकृष्टार्थपरिच्छिन्तिः प्रमा  
तत्माधकतमं यत् तत् त्रिविध प्रमाणम् ॥ ८७ ॥

बुद्धि और पुरुष इन दोनो को अथवा इनमें से किसी \*  
एकको बिना जाने हुए पदार्थका जान लेनेका नाम प्रमा है  
अर्थात् यथार्थ ज्ञानका नाम प्रमा है उस प्रमाका जो साधकतम  
(जिससे यथार्थ ज्ञान प्राप्त होता है) उसका नाम प्रमाण है वह  
प्रमाण तीन प्रकारका है अर्थात् प्रत्यक्ष, अनुमान, और शब्द ॥ ८७ ॥

तस्मिन्मिदौ सर्वमिद्वेर्नाधिक्यमिद्धिः ॥ ८८ ॥

इन तीन प्रकारके प्रमाणासेही सब बातकी सिद्धि हाजाती  
है अतएव अधिक प्रमाण माननेकी कोईभी आवश्यकता नहीं  
है और मनुनेभी तीनही प्रमाण ठीक माने हैं कि “प्रत्यक्षं

\* यदि “बिना जाने हुए पदार्थका जानलेना” एसा प्रमाका  
लक्षण न करके केवल इतनाही लक्षण करते कि “पदार्थका जान-  
लेनाही प्रमा कहाता है” तो स्मृतिमें अतिव्याप्ति होती क्योंकि  
स्मृतिमें भी स्मरण द्वारा पदार्थका ज्ञान हो जाता है अतएव स्मृति  
का नाम प्रमा न होजाय इसीसे “बिना जाने हुएका” यह विशेषण  
दिया है और स्मृतिमें पदार्थ जाना हुआ होता है और यदि “पदार्थ”  
न कह कर “बिना जाने हुएका जान लेनाही प्रमा कहाता है” ऐसा  
कहते तो भ्रममें अतिव्याप्ति होगी क्योंकि भ्रम अबस्तुमें होता है  
जैसे रज्जुको सर्प जान लेना अर्थात् बिना जाने हुए सर्पके  
विशेष अवयवोंका रज्जुमें उसको ठीक जान लेनाही भ्रम है वह भ्रम  
वास्तवमें अबस्तुमेंही में होता है इसीसे पदार्थका विशेषण दिया है ।

चानुमानञ्च शास्त्रञ्च विविधागमं ॥ तयं सुविदितं कार्यं धर्मं  
शुद्धिमभीप्सता” उपमान और ऐतीह (इतिहास) इन प्रमाणां  
को अनुमान और शास्त्रके अन्तर्गत मान लेना चाहिये, जो वस्तु  
प्रत्यक्ष नहीं दीखती उसका अभाव कह देनेकोही अभाव कहते  
है इसके लिये अभाव को जुदा प्रमाण माननेकी कोईभी आवश्यकता  
नहीं है, इन्हीं तीन प्रमाणां द्वारा सब जगत्के प्रमेय  
पदार्थों की सिद्ध होजाती है अधिक प्रमाण मानना व्यर्थ है ।  
अब प्रत्यक्षका लक्षण करते हैं ॥ ८८ ॥

यत् सम्बद्धं मत् तदाकारोऽस्त्विव विज्ञान तत् प्रत्यक्षम् ८८

जिसका सम्बन्ध मत् ( विद्यमान ) पदार्थसे हो और बुद्धिकी  
वृत्तियोंमें तदाकारका विज्ञान हो जाय उसका नाम प्रत्यक्ष है  
इस सूत्रका आशय यह है कि चक्षु आदि इन्द्रियोंका जिस  
पदार्थके साथ सम्बन्ध होता है उसी पदार्थके आकारके समान  
बुद्धि वृत्तिभी हो जाती है इसी वृत्तिका नाम प्रत्यक्ष प्रमाण है ।  
अब इसमें यह मन्देह होता है कि योगी जनोको जो प्रत्यक्ष  
होता है वह चक्षु आदि इन्द्रियोंका पदार्थके साथ सम्बन्ध न  
होने पर भी तैकालिक वस्तुओंका प्रत्यक्ष रहता है तो इस  
लक्षणके करनेसे उस प्रत्यक्षमें अव्याप्ति होगी इसका उत्तर यह  
है कि ॥ ८९ ॥

योगिनामबाह्यप्रत्यक्षत्वान्न दोषः ॥ ८९ ॥

वह लक्षण केवल बाह्य प्रत्यक्षका है और योगियोंका  
प्रत्यक्ष बाह्य नहीं है किन्तु आन्तरिक है अतएव अव्याप्ति नहीं  
हो सकती । अथवा ॥ ९० ॥

लीनबस्तुलञ्चातिशयसम्बन्धाद्दोषः ॥ ६१ ॥

जो बन्ध सबिच्छेद नहीं है किन्तु दूसरेके अभिप्रायमें विद्यमान है उसके साथ भी योगीजनाके प्रत्यक्षका अतिशय सम्बन्ध है अर्थात् उसे भी योगीजन जानलेंत है अतएव योगियोंके प्रत्यक्षमें दोष नहीं आसकता ॥ अब कोई नास्तिक यह पूर्व पक्ष करता है कि जब चक्षु आदि इन्द्रियाका सत्पदार्थके साथ सम्बन्ध होकर तदाकार बुद्धि वृत्तिको प्रत्यक्ष माने तो यह दोष होगाकि ॥ ६१ ॥

ईश्वरामिदं ॥ ६२ ॥

ईश्वरकी अमिद होगी अर्थात् ईश्वरका प्रत्यक्ष फिर किसी प्रकारसे हो ही नहीं सकता ॥ यद्यपि ईश्वर आस्तिकोंके सिद्धान्तानुसार मत् है परन्तु न तो उसके साथ किसी इन्द्रियका सम्बन्ध है और न तदाकार बुद्धिकी वृत्ति ही मकती है अतएव ईश्वरकी अमिद्वि होगी इस पूर्व पक्षका उत्तर और ईश्वरकी सिद्धि इस अगले सूत्रमें करते हैं ॥ ६२ ॥

मुक्तबद्धयोरन्यतराभावात् तत्सिद्धिः ? ॥ ६३ ॥

ईश्वर बद्ध और मुक्त दोनोंसे भिन्न है इसी हेतुसे क्या उसकी सिद्धि न होगी ? अर्थात् अवश्य होगी, इस सूत्रमें नकारको काकुन्यायके अनुसार लगाना चाँहिये इस कथनका भाव यह हुआ कि जितने जीव है वह दो प्रकारकी श्रेणियोंमें विभक्त है एक बद्ध, दूसरे मुक्त, परन्तु ईश्वर इन दोनोंसे अलग नित्यमुक्तस्वभाव है अतएव जीवोंके प्रत्यक्षकी भाँति ईश्वरका भी प्रत्यक्ष

नहीं होता क्योंकि इसके सब कार्य जीवोंकी अपेक्षा विचित्र है, यदि ईश्वरकी बड़ और मुक्त दोनोसे पृथक्, नित्य मुक्त न माने तो यह दोष होगा कि ॥ ८३ ॥

उभयथाप्यमत्करत्वम् ॥ ॥ ८४ ॥

जो मुक्त होगा वह सृष्टि करेगाही क्यों ? और जो बड़ होगा वह मूर्खताके कारण सृष्टि करही नहीं सकता अतएव उक्त दोनों (बड़मुक्त) में से किसी बातकी ईश्वरमें स्वीकार करने पर इस जगत् में अमत्करत्व (अनित्यका बनाया हुआ पन) आता है और यह जगत् नित्य ढीखता है इसी कारण ईश्वरकी बड़मुक्त दोनोसे भिन्न, नित्यमुक्त कहना चाहिये ॥ ८४ ॥

मुक्तात्मनः प्रशंसा उपासा सिद्धस्य वा ॥ ८५ ॥

अथवा जो मुक्तात्मा योगी जनोंकी प्रशंसा और उपासनासे सिद्ध है उसको क्या सिद्धि न हाँगी ? अर्थात् अवश्य होगी, क्योंकि जब ईश्वरको मुक्तात्मालोग प्रशंसा और मुक्ति करते हैं तब उसमें (ईश्वरमें) कुछ तो अपनेसे अधिक अवश्य मानते हाँगे, वह अधिकत्व ईश्वरमें क्या है कि केवल नित्यमुक्तत्व ॥ अन्य जीवोंकी मुक्ति अनित्य है अतएव मुक्त जीव ईश्वरकी उपासना और प्रशंसा करते हैं इसीसे उस (ईश्वर) की सिद्धि ही सकती है ॥ ८५ ॥

तत्सन्निधानादाधिष्ठातृत्वं मणिवत् ॥ ८६ ॥

प्रकृतिके समीप होनेसे ईश्वरमें अधिष्ठातृत्व है इस कथनका भावार्थ यह हुआ कि प्रकृति जड़पदार्थ है उसको ईश्वरके सन्निधान होनेके कारण चैतन्यत्व है यदि प्रकृति और ईश्वरका

सन्निधान न हो तो कदापि प्रकृतिसे महत्वादिकोंकी उत्पत्ति नहीं हो सकती जिस प्रकार अयस्कान्तमणि ( चुम्बक ) के पास रखनेसे लोहेमें गमनरूपी क्रिया उत्पन्न हो जाती है परन्तु बास्तवमें लोहा गमन क्रिया रहित है इसी भांति ईश्वर की समीपतासे प्रकृतिमें भी अन्यान्य कार्य करनेकी शक्ति उत्पन्न हो जाती है परन्तु बास्तवमें प्रकृति भी अनेक प्रकारकी क्रिया करनेमें असमर्थ है अतएव प्रकृतिकी क्रियाओंका हेतु होनेमें ईश्वरमें अधिष्ठातृत्व है ॥ ८६ ॥

विशेषकार्येष्वपि जीवाणाम् ॥ ८७ ॥

नित्य और चैतन्य होनेके कारण कतिपय विशेष कार्य शरीरेन्द्रियादिकोंका अधिष्ठातृत्व जीवोंकी भी है ॥ अब यहां पर यह सन्देह होता है कि उक्त प्रमाणां द्वारा ईश्वरकी सिद्धि हो परन्तु वेदकी भी प्रमाण क्यों मानना चाहिये इसका उत्तर उत्तर यह है कि ॥ ८७ ॥

सिद्धरूपबोधत्वाद्वाक्यार्थोपदेशः ॥ ८८ ॥

वेदके वाक्य और अर्थोंका उपदेश, ईश्वरके सिद्धरूप नित्य-मूर्तत्वादिका बोधक है अतएव उसका प्रमाण अवश्य मानना चाहिये क्योंकि यदि वेदोंका ईश्वरके साथ किसी प्रकार सम्बन्ध न होता तो उसके रूपका वर्णन वेद कदापि न कर सकते ॥ ८८ ॥

अन्तःकरणस्य तदुज्ज्वलितत्वाल्लोहवटधिष्ठातृत्वम् ॥ ८९ ॥

अन्तःकरण भी चैतन्यके संयोगसे उज्ज्वलित ( प्रकाशित ) है अतएव सङ्गत्या विकल्पादि कार्योंका अधिष्ठातृत्व अन्तः-



करणको है जैसे अग्निसे तपाये हुये लोहेमें यद्यपि दाहशक्ति अग्निसंयोगके कारण है तथापि अन्य पदार्थोंके दाह करनेको वह लोहशक्ति भी हेतु हो सकती है ॥ ८८ ॥

प्रतिबन्धदृशः प्रतिबन्धज्ञानमनुमानम् ॥ १०० ॥

जो पदार्थ नहीं दीखता उसके ज्ञान हो जानेको अनुमान कहते हैं, जैसे अग्नि प्रत्यक्ष नहीं दीखती किन्तु धूमको देख कर उसका ज्ञान हो जाना इसीका नाम अनुमान है। यह अनुमान व्याप्ति और साहचर्य नियमके ज्ञान बिना नहीं होता, जैसे जबतक कोई पुरुष पाकशाला आदिमें धूम और अग्निकी व्याप्ति न ममभू लीगा कि जहाँ २ धूम होता है वहाँ २ अग्नि अवश्य होती है तबतक धूमको देख कर अग्निका अनुमान कदापि नहीं कर सकता। यह अनुमान कितने प्रकारका है है इसका निर्णय आगे करेंगे किन्तु प्रथम शब्दप्रमाणका लक्षण करते हैं ॥ १०० ॥

आप्तोपदेशः शब्दः ॥ १०१ ॥

यह सूत्र सब शास्त्रोंमें ऐसा ही है जैसे चारों विद्वानों गायत्री मन्त्र एकसाही है इसी भाँति इस सूत्रको भी जानना चाहिये ॥ जो पुरुष धमनिष्ठ और अपने हृदयके भावको बारह भी यथार्थ ही प्रकाशित करते हैं तथा शुद्ध आचरणवान् हैं उनका नाम आप्त है उनके उपदेशका नाम शब्द है वह लोग जो कहें उसको शब्द प्रमाण मानना चाहिये ॥ अब अगले सूत्रसे प्रमाण माननेकी आवश्यकताकी प्रकट करते हैं ॥ १०१ ॥

उभयसिद्धिः प्रमाणात् तदुपदेशः ॥ १०२ ॥

प्रमाणमे आत्म, अनात्म, मद, असद् दीनों प्रकारकी सिद्धि होती है इसी कारण प्रमाणात्का उपदेश किया है ॥ १०२ ॥

सामान्यतोद्दृष्टादुभयसिद्धिः ॥ १०३ ॥

तीन प्रकारके अनुमान चेत हैं पूर्ववत्, शेषवत्, और सामान्यतोद्दृष्ट, पूर्ववत् अनुमान उसे कहते हैं जैसे धूमको देखकर अग्निका अनुमान किया जाता है क्योंकि पहले पाक-शालामें धूम और अग्नि दोनों देखेथे वैसेही अन्यत्र हागें दम प्रकारका अनुमान पूर्ववत् कहना है। जो विषय कभी प्रत्यक्ष नहीं किया उसका कारण हागें अनुमान करना शेषवत् अनुमान कहता है, जैसे स्त्री और पुरुष दोनोंको नीरोग और हृष्ट पुष्ट देखकर इनके पुत्रोत्पत्ति हागी यह अनुमान करना वा मीघको देखकर जल बर्षेगा यह अनुमान करना शेषवत्का उदाहरण है। जिस जातीय विषयको प्रत्यक्ष कर लिया है उसके हागें समस्त जाति मात्रके कार्यका अनुमान करना सामान्यतोद्दृष्ट कहता है जैसे दो एक मनुष्यको देखकर यह बात निश्चय करली कि मनुष्यके सींग नहीं होते तो अन्य मनुष्य मात्रके सींग न हागे यह सामान्यतोद्दृष्टका उदाहरण है। इसी भांति सामान्यतोद्दृष्ट अनुमानमें यह बातभी आसकती है कि जैसे बिना कारणके कार्यकी अनुत्पत्ति सामान्यतोद्दृष्ट है इससे यह निश्चय करलेना चाहिये कि जहां २ कार्य हागा वहा २ कारण भी अवश्य हागा यथा रूपका ज्ञान हीनमें नेत्र कारण है ॥ जिस प्रकार इस सामान्य

तोदृष्ट अनुमानसे लौकिक प्रत्यक्ष विषयोंकी सिद्धि होती है उसी भांति जो विषय प्रत्यक्ष नहीं है उनका भी साधन ज्ञातीयपक्ष बलसे करना चाहिये इसी प्रकार प्रकृति और पुरुषका भी सामान्यतोदृष्ट अनुमानसे ही बोध होता है क्योंकि सुख दुःख आदि कार्य्य महत्त्वसे उत्पन्न हुए हैं, महत्त्व भी कार्य्य है अतएव उसका भी कारण प्रकृति अवश्य माननी चाहिये, प्रकृति जड है अतएव वह बिना किसी चैतन्यकी शक्ति के कदापि चैतन्य कार्य्योंका कारण नहीं हो सकती इसीसे सामान्यतोदृष्टानुमानसे प्रकृति पुरुषकी सिद्धि स्पष्ट है और जो कोई २ टीकाकार इस सूत्रका यह अर्थ करते हैं कि “सामान्यतोदृष्ट अनुमानसे शेष दो प्रकारके अनुमानोंकी सिद्धि होजाती है” यह अर्थ सर्वथा अयुक्त है क्योंकि प्रथमतो मृतकारण कहींभी ‘तीन प्रकारके अनुमान है’ ऐसा नहीं कहा और न उसकी जुटी २ सज्ञा बाधी है तो सूत्रस्थ उभय शब्दसे यहा शेष दो अनुमानोंका बोध कदापि नहीं होसकता, दूसरा यह कि जो गीतमादि आचार्योंने पूर्ववत् और शेषवत् अनुमानोंके भेद माने हैं उनकी कोई भी आवश्यकता प्रतीतही नहीं होती क्योंकि केवल सामान्यतोदृष्ट अनुमानही से समस्त कार्य्योंका ज्ञान अर्च्छ प्रकारसे होसकता है और जो २ उदाहरण पूर्ववत् और शेषवत्के दिये वह सामान्यतोदृष्टहीमें अन्तर्गत होसकते हैं यथा जहां २ धूम है वहां २ अग्नि अवश्य होती है यह बात सामान्यसे देखी गई है उसी भांति यदि पर्वत पर धूम है तो वहाभी अग्नि अवश्यही होगी अतएव पूर्ववत् अनुमान कहने की कोईभी आवश्यकता नहीं, एवं शेषवत्भी

है कि निरोग और हृष्ट पुष्ट स्त्री पुरुषोंके सन्तानोत्पत्ति लोकमें अनेक स्थलोंपर देखी गई है तो जो उक्त गुणयुक्त होंगे उनकेभी अवश्य सन्तान उत्पन्न होगी यह बात सामान्य होनेके कारण इसका अनुमानभी सामान्यतो दृष्ट नामसे व्यवहार किया जासकता है. इसी प्रकार कारणसे कार्योत्पत्ति, कार्यमें कारणकाररचना जो गुण कारणमें ही उसका कार्यमें भी रहना, इत्यादि सब बातें सामान्यतोदृष्ट है अतएव इस मूलमें उभय शब्दमें प्रकृति और पुरुषका ग्रहण करके एसा अर्थ करना चाहिये कि सामान्यतो दृष्ट अनुमानमें प्रकृति और पुरुषकी मिद्धि होती है ॥१०३॥

चिद्वचमानो भोगः ॥ १०३ ॥

जो पदार्थ वृत्तियोंके साथ होकर पुरुषमें प्रतिबिम्बित होता है उसको भोग कहते हैं इस मूलमें “चिद्वचमान” शब्दमें “चिदि अवसान” (जीवमें जिनका अवसान हो) एसा समास करना चाहिये क्योंकि अन्य समास करनेसे जीवकी परिणामित्व और अनित्यत्व दोष होगा इसमें यह शंका होती है कि जो अन्येन्द्रिय कृत स्पर्शादि कार्योंका अन्तःकरण चतुष्टय द्वारा पुरुषमें अवसान माना, वह प्रतिबिम्ब रूपमें माना, तो वास्तव में धर्माधर्मका फलभोग आत्मामें क्या होता है ? इसका उत्तर यह है कि ॥ १०४ ॥

अकर्तुरपि फलोपभोगोऽन्नाद्यवत् ॥ १०५ ॥

जैसे किसानके किये हुए अन्नादिका फलभोग राजाको होता है इसी प्रकार अन्येन्द्रियकृत धर्माधर्मकाभी फलभोग आत्माको होसकता है इस से यह सिद्ध हुआ कि अन्तःकरण

चतुष्टय के किये हुए फल पुरुषको भी होते हैं परन्तु अपना वास्तविक सिद्धान्त इस अगलेमें सूत्र कहते हैं ॥ १०५ ॥

अविवेकाद्वा तत्सिद्धेः कर्तुः फलावगमः ॥ १०६ ॥

कर्म फलोंके भोग की सिद्धि अविवेकसे ही होती है उसमें पुरुषको भोग मानने की कोई क्या आवश्यकता है और अविवेक की विद्यमानतामें ही पुरुषका बन्धन माना जाता है विवेक होने पर मुक्ति होजाती है उस समय कर्म और फल दोनोंही नहीं रहते अतएव कर्म फलका कर्त्ता भोक्ता अविवेक हीको मानना चाहिये क्योंकि कर्मका फलभी कर्त्ताहीको होता है अतएव अविवेकही को फलभोगादिकोंका कारण मानना चाहिये ॥ १०६ ॥

नाभयं च तच्चाख्याति ॥ १०७ ॥

वास्तविक तत्वके विचारमें अविवेक और उसका फल दुःखादि दोनोंही नहीं हैं किन्तु वह सब पुरुषमें है अब यह सचेह होता है कि यदि प्रकृति कांडे पटार्य है तो उसका प्रत्यक्ष क्यों नहीं होता इससे (प्रत्यक्ष न होनेसे) विदित होता है कि प्रकृति कुछ नहीं इसका उत्तर यह है कि ॥ १०७ ॥

विषयोऽविषयोऽप्यतिदृग्दर्शनोपादानाभ्या

मिन्द्रियस्य ॥ १०८ ॥

ज्ञानेन्द्रियके सम्बन्ध और असम्बन्धसे जो प्रत्यक्षका विषय है वह भी अविषय अर्थात् परीक्ष्य हीजाता है प्रत्यक्ष विषय

भी अविषय होजाता है इसमें हेतु यह है कि पदार्थका बहुत दूर होना उस पदार्थ ज्ञानकारक इन्द्रियमें किसी रोगादिका दांष होना पदार्थ सूक्ष्म होनेसे या बीचमें किसी दूसरी वस्तुका व्यवधान होनेसे इनहीं उपरोक्त हेतुओंसे जब प्रत्यक्ष विषयभी अविषय होजाता है तब जो पदार्थ न प्रत्यक्ष हो उसका अभाव कह देना ठीक नहीं है । अब रहा यह संदेह कि इन उपरोक्त हेतुओंसे प्रकृतिकी प्रत्यक्षताका बाधककी न हेतु है तो इसका उत्तर यह है कि ॥ १०८ ॥

सौक्ष्मात् तदनुपलब्धिः ॥ १०९ ॥

प्रकृतिकी प्रत्यक्षता सूक्ष्मताके कारण नहीं होती अर्थात् प्रकृति एसा सूक्ष्म पदार्थ है कि वह इन इन्द्रियोंसे प्रत्यक्ष नहीं होसकता किन्तु प्रकृतिका प्रत्यक्ष योगिया हीका होता है । अब यह संदेह होता है कि प्रकृतिकी अप्रत्यक्षतामें सूक्ष्मताको हेतु न कह कर यही क्या न कहाजाय कि प्रकृतिका अभाव है इसीसे प्रत्यक्ष नहीं होता इसका समाधान यह है कि ॥ १०९ ॥

कार्यदर्शनात् तदुपलब्धिः ॥ ११० ॥

प्रकृतिके कार्यमहत्त्वत्वादि और तज्जन्य अन्तःकरण चतुष्टय आदि दिखाई देते हैं इससे प्रकृतिका होना सिद्ध होता है अभाव सिद्ध नहीं होता ॥ ११० ॥

बादिविप्रतिपत्तेस्तदसिद्धिरिति चेत् ॥ १११ ॥

यदि कोई बादी यह कहे कि कोई कोई तो जगत्का कारण ब्रह्मको बताते हैं, कोई कोई परमाणुओंको ससारका हेतु

कहते हैं, इस कथनसे प्रकृतिही जगत्का कारण है इसमें क्या प्रमाण है ? इससूत्र का आशय यह है कि बादियोंके विरोध होनेसे प्रकृतिमें कारणत्व न रहेगा यदि ऐसा मानाजाय तो इसका उत्तर यह है कि ॥ १११ ॥

तथाप्येकतरदृष्ट्याणकतरमिद्वैर्नापलापः ॥ ११२ ॥

जब कार्य और कारण इन दोनोंमेंसे एकको देखकर दूसरे का अनुमान होज ता है तब प्रकृतिको कारण कहनेमें कुछभी दोष नहीं क्योंकि जो जो कार्य प्रकृतिके संसारमें दिखाई पड़ते हैं वह अपने कारणरूप प्रकृतिका स्वतः अनुमान करादेगी इसलिये प्रकृतिको जगत्का कारण कहना उचितही है । अब प्रकृतिके कारणत्वमें और भी श्नि कहते हैं ॥ ११२ ॥

द्विविधविशेषापत्तयः ॥ ११३ ॥

यदि प्रकृतिको कारण न कहें तो संसारमें सुखदुःख मोह आदि पदार्थों की उत्पत्तिमें विरोध होगा क्योंकि ब्रह्म तो दुःखादिकासे पृथक् है और परमाणु जड़ होनेके कारण उससे यह पदार्थ उत्पन्न नहीं हो सकते हैं । अब कार्यसे प्रथम कारण को सत्ता माननी चाहिये बिना कारणकी सत्ताके कार्य नहीं हो सकता है इसी बातको इस अगले सूत्रसे प्रकट करते हैं ॥ ११४ ॥

नामदुत्यादौ नृशृङ्गवत्\* ॥ ११४ ॥

असदु पदार्थ किसीकी उत्पत्तिका हेतु नहीं हो सकता जैसे

\*उत्पद्यन्ते अग्निनेत्युत्पादःकरणं घञ् ( जिससे कार्य उत्पन्न होता है उसको उत्पाद कहते हैं यहाँ कारणमें घञ् प्रत्यय है )

मनुष्यके सींगीका धनुष नहीं हो सकता क्योंकि जब मनुष्यके सींगही कोई पदार्थ नहीं तो उससे धनुष कब उत्पन्न हो सकता है ॥ ११४ ॥

### उपादाननियमात् ॥ ११५ ॥

उपादानका नियमही ऐसा है कि जब सद् उपादान है तो उसका कार्यभी सत् होगा अन्यथा न हां सजंगा दूसरा उपादान नियम यह भी है कि मिट्टीसे घटही उत्पन्न होगा पट कदापि उत्पन्न नहीं हो सकेगा और जो असत् कार्यवादी यह कहते हैं कि 'असत् सज्जायते' (असत्से सत्को उत्पत्ति होती है) अथवा विवर्तवादी जो यह कहता है कि 'एक सत्पदार्थसे सब कार्य उ पन्न हुए हैं वह सब दृश्यमानमात्र और असत् है; और अभावात्पत्तिवादी जो यह कहता है कि "सतोऽसज्जायते" अर्थात् सद् जो परमाणु आदि उनसे वह पदार्थ उत्पन्न होते हैं जो कि पहले नहीं थे इन पूर्वाक्तमतोंका उत्तर यह अगला सूत्र है ॥ ११५ ॥

### सर्वत्रसर्वदामर्वासम्भवात् ॥ ११६ ॥

यह मतवाद जो कि उस सूत्रकी अबतरणिकामें कहा वह सब जगह सब कालमें सब प्रकारसे असम्भव है क्योंकि लोकमें ऐसे मतों का साधक कोईभी दृष्टान्त नहीं मिलता इसलिये "सत्.सज्जायते" सत्पदार्थसे सत् ही उत्पन्न होता है अर्थात् जो कार्य इस समय उत्पन्न होता है उसका कारण उत्पत्तिके पूर्व था ऐसा ही मानना चाहिये ॥ ११६ ॥



शक्तस्य शक्यकरणात् ॥ ११७ ॥

कारणका शक्तिमत्त्व ज्ञानाही कार्यकी उत्पत्तिका हेतु है क्योंकि जिस कारण द्रव्यमें जिस कार्यशक्तिका अभाव है उससे कार्य कदापि नहीं हो सकता सैकड़ों बुद्धिमान् मिलकर भी नीलसे पीतवर्णकी उत्पत्ति नहीं कर सकते, लाखों उपाय करने परभी बालूसे तैल नहीं निकल सकता, इससे यह सिद्ध हुआ कि जैसे नील वा बालूकामें पीतरंग वा तैल उत्पन्न करने की शक्तिका अभाव है, उसी भांति अमत् कारणमें सत्की उत्पत्ति काभी अभाव है ॥ ११७ ॥

कारणभावाच्च ॥ ११८ ॥

कार्य सदैव कारणात्मक होता है कार्यकारणके प्रभेदमें भी यह कथन नहीं बन सकता कि कारण सत् ही और कार्य अमत् ही। अब यहाँ पर सन्देह होता है कि यदि कार्य उत्पत्ति से भी पूर्व अपने कारण द्रव्यमें क्रिया हुआथा तो अमुक कार्य उत्पन्न हुआ यह कथन नहीं बन सकता और जब कार्य है ही तब उसकी उत्पत्तिका उपाय करना भी व्यर्थ है तो इसका उत्तर यह है कि यद्यपि कार्य अपने कारणमें छिपा रहता है तथापि उसका प्रकट कर देना ही सर्वोपयोगी होगा नहीं प्रयत्न करने का फल समझना चाहिये, क्योंकि यदि सृत्तिकासे घटकी प्रकट न करें तो जल आदि भरना सम्पन्न वहीं हो सकता यदि यह कहा जावे कि कारणसे कार्योत्पत्ति पूर्वोक्त प्रकारानुसार माननेमें अपनेमें आप क्रिया होनेका विरोध होगा तो

इसका दृष्टान्त यह है कि जैसे कूर्म (ककुआ) अपने आप अग्नी की सकोड लेता है और वाहरभी निकाल देता है तो उसमें न तो क्रिया दोष ही कहा जा सकता है और न कार्यकारणके अभावका भगडा रह सकता है अत्र रहा यह कि एक कारणसे एक ही कार्यकी उत्पत्ति होनी चाहिये, यह भी ठीक नहीं हो सकता क्योंकि एक ही अग्नि जैसे जलानकी भी शक्ति रखती है और अन्न आदि पकानेकी शक्ति भी रखता है यदि यह शङ्काकी जावे कि यदि पटका कारण तन्तु है तो एक तन्तुसे पटकी उत्पत्तिक्या नहीं होती तो इसका उत्तर यह है कि जैसे एक कहार पालकी नहीं उठा सकता किन्तु जलका भरा घट ही उठा सकता है और बहुतसे कहार पालकी उठा सकते हैं इसी भाँति एक पटसे तन्तु उत्पन्न नहीं हो सकता किन्तु बहुत से तन्तुओंसे पट उत्पन्न होता है अतएव इससे यह सिद्ध हुआ कि कार्यका भाव कारणमें रहता है । अत्र यहा पर यह शङ्का होती है कि जिम बातकी इतने हेरफेरसे कहा उसकी याही क्या न कह दिया कि कार्य पहले नहीं था किन्तु उपायान्तरोंसे कारणही से उत्पन्न हुआ अतएव असत्से सद् की उत्पत्ति ही ठीक है इसका उत्तर यह है कि ॥ ११८ ॥

न भावे भावयोगश्चेत् ॥ ११९ ॥

जो पदार्थ भाव (सत्) है उनहीं में भाव योग अर्थात् सद् पदार्थोंकी उत्पत्तिका योग हो सकता है “अन्यथा चेन्न” और प्रकारसे कदापि नहीं होता । सत्से असत् वा असत्से सत् ये

विपरीत भाव नहीं हो सकते । अब इस विषयमें सांख्यकार अपना मत प्रकाशित करते हैं ॥ ११६ ॥ \*

**नाभिव्यक्तिनिवन्धनौ व्यवहाराव्यवहारौ ॥ १२० ॥**

अब यह परमाशय होता है कि यद्यपि उत्पत्तिमें पूर्व मत्-कार्यकी किसी प्रकार उत्पत्ति हो परन्तु अवकार्यमत्ता अनादि है तो उसका नाश क्यों हो मर्क इसका उत्तर यह है कि कार्यकी उत्पत्तिका व्यवहार और अव्यवहार अभिव्यक्ति निमित्तक है अर्थात् अभिव्यक्तिके भावसे कार्यकी उत्पत्ति होती है अभिव्यक्तिके अभावसे उत्पत्तिका अभाव है जो पूर्व यह शङ्का की थी कि यदि कारणमें कार्य रहता है तो असुक कार्य उत्पन्न हुआ यह कहना नहीं बन सकता उसीके उत्तरमें यह सूत्र है कि अभिव्यज्यमान कार्यकी उत्पत्तिका व्यवहार और अव्यवहार अभिव्यक्ति निमित्तक है पूर्व जो कार्य अमत् ( नहीं ) था उसकी अब उत्पत्ति हुई यह कथन ठीक नहीं है ॥१२०॥

**नाशः कारणलयः ॥ १२१ ॥**

लोड् श्लेषणे धातुसे लय शब्द वनता है अति सूक्ष्मताके साथ कार्यका कारणमें मिल जाना इसीका नाम नाश है कार्य

\* सांख्यके मतानुसार कार्य दो प्रकारके है एक तो अभिव्यज्यमान दूसरा उत्पद्यमान, अभिव्यज्यमान उसे कहते हैं जैसे धानोंमें से चावलों का निकालना गौमें दूध इत्यादि और उत्पद्यमान वह है जैसे बीजसे अङ्गुरकी उत्पत्ति आहार करनेसे शारीरिक धातुओंकी उत्पत्ति इत्यादि ।

की अतीत अवस्था अर्थात् जो अवस्था कार्यकी उत्पत्तिसे पूर्व थी उसीको धारण कर लेना और जो नाश भविष्यत्में होने वाला है उसीका नाम प्रागभाव नामक नाश है कोई-यह कहते हैं कि जो वस्तु नाश हो जाती है उसकी पुनरुत्पत्ति नहीं होती परन्तु यह कथन सर्वथा अयुक्त है क्योंकि इस कथन से प्रत्यभिज्ञामि दोष होगा अर्थात् जिस पदार्थकी दो वर्ष पूर्व देखाया उसीको इस समय देखनेसे यह ज्ञान होता है कि जो पदार्थ पूर्व देखाया उसीको इस समय देखताहूँ इस ज्ञानमें यह दोष होगा कि जो ज्ञान पूर्व हुआ था वह इतने दिन तक नष्ट रहा और फिर भी समयानुसार उत्पन्न हो गया यदि नष्ट हुए कार्यकी पुनर्वाप अनुत्पत्तिही ठीक होंती तो इसमें भी अनुत्पत्तिका लक्षण पाया जाता अतएव यही कहना ठीक है कि नाशको प्राप्तकार्य फिर भी उत्पन्न हो सकता है अब यह सन्देह होता है कि यदि पूर्वोक्त पक्षही ठीक है तो अपने कारणमें कार्यका नाश होता क्या नहीं देखता, जैसे तन्तु कपाससे उत्पन्न होते हैं परन्तु नाशके समयमें वह मटीमें मिल जाते हैं “इसका उत्तर यह है कि कार्यका कारणमें लय हो जाना विवेकी पुरुषोंको देखता है और अविवेकियोंको नहीं देखता, जैसे तन्तु सृत्तिकारूप हो जाते हैं और सृत्तिका कपासके वृक्षरूप हो जाती है और वह वृक्ष फूल फल कपास आदि रूपसे परिणामको प्राप्त होता है और जब कार्यका नाम और तदाकार रूपान्तर लोकमें विद्यमान है तब नाशभी कहना नहीं बन सकता यही सिद्धान्त महाभाष्यकार महर्षि पातञ्जलिजीका भी है कि आकृति नित्य है अब यहां पर यह

सन्देह होता है कि अभिव्यक्ति कार्यकी उत्पत्तिके पूर्वभी थी, या नहीं थी यदि थी, तो कारणके यत्नसे पूर्व अभिव्यक्तिको स्वकार्यजनकताका दोष होगा और उत्पत्तिके लिये जो कारण द्वारा यत्न किया जाता है वह व्यर्थ होगा, यदि कार्य की उत्पत्तिसे पूर्व अभिव्यक्ति नहीं थी तो सत्कार्य नाशमें हानि होगी, क्योंकि जब यह पूर्व कह चुके हैं कि जो कार्य पूर्व था उसीकी इस समय उत्पत्ति होती है किन्तु अमत्को उत्पत्ति नहीं होती तो अब अभिव्यक्तिका पूर्वमें अभाव कहने से दोष होगा और यदि यह कहा जाय कि अभिव्यक्ति तो पूर्वभी थी किन्तु एक अभिव्यक्ति से दूसरी अभिव्यक्ति कारण द्वारा होती जाती है उसी लिये कारण व्यापार है, तो अनवस्था दोष होगा क्योंकि एकसे दूसरी, दूसरीसे तीसरी, इसी प्रकार कहते जाओ कहीं ठिकना न लगेगा, अतएव यह अनवस्था दोष होगया इन पूर्वोक्त दोषोंका उत्तर यह है कि प्रथमतो कारण व्यापारसे सब कार्योंकी उत्पत्ति होती है इस नियमानुसार पूर्वोक्त शंकाही नहीं होसकती, दूसरे यदि यहभी मानलिया जावेकि अभिव्यक्ति पूर्व नहीं थी तोभी कारण व्यापार द्वारा उसकी सत्ता प्रकटकरने कि लिये सदैव आवश्यक है तब कोई दोष नहीं हो सक्ता तीसरे यह कि जब कार्यकी अनागतअवस्थामें (जब तक कार्य उत्पन्न नहीं हुआ) सत्कार्य बाटकी कोई हानि नहीं समझी जाती तब दोषही क्यों होसकता है ? क्योंकि घट जब तक उत्पन्न नहीं हुआ उससे पहलेभी सत्कार्यबाटो सृत्तिकामे घट मानते है इसी भांति अभिव्यक्ति कोभी जानना चाहिये और यदि कोई यह सन्देह करे कि कार्यका प्रागभाव (पहले

न होना) ही नहीं मानते तो 'घट पूर्व नहीं था अब उत्पन्न हुआ' यह कथन नहीं बन सकता इसका उत्तर यह है कि कार्य की अवस्थाओंकाही भाव, अभाव कह सकते हैं न कि कार्य का, और जो अनवस्था दोष दिया उसका उत्तर यह है कि ॥ १२१ ॥

पारम्पर्यतोऽन्वेषणा बीजाङ्गवत् ॥ १२२ ॥

बीज और अङ्ग (वृत्त) के समान अर्थात् जब विचार करते हैं कि बीज प्रथम था, या वृत्त प्रथम था, इसमें परम्परा मानी जाती है इसी भांति अभिव्यक्ति भी समझनी चाहिये भेद केवल इतनाही है कि उसमें क्रमिक परम्परा (कौन पहले था) दोष है और इसमें एककालिक (एक ही समयमें एकका दूसरेसे उत्पन्न होना) यह दोष होगा परन्तु यह दोष इस कारण गिना जाता है कि पातञ्जल भाष्यमें भी व्यासजीने कार्यों की स्वरूपमें नित्य और अवस्थाओंमें विनाशो कहा है वहां अनवस्था दोषको प्रामाणिक कहा है, यह बीजाङ्गका दृष्टान्त केवल लौकिक है वास्तवमें यहा जन्म और कर्मका दृष्टान्त दिया जाता तो ठीक होता 'यथा जन्मसे कर्म होता है वा कर्मसे जन्म' क्योंकि बीजाङ्गके भगडेमें कोई कोई आदि मर्गमें विना वृत्तही बीजकी उत्पत्ति मानते हैं। वास्तवमें अनवस्था कोई बस्तु नहीं है इसे कहते हैं ॥ १२२ ॥

उत्पत्तिवद्वादोषः ॥ १२३ ॥

जैसे घटकी उत्पत्तिका स्वरूपही वैशेषिकादि असत्कार्य-वादी लाघव (कमी) के कारण स्वीकार करते हैं अर्थात् यह

उत्पत्ति किससे उत्पन्न हुई ऐसा भगडा न करके केवल एकही उत्पत्तिकी स्वीकार करते हैं इसी भांति अभिव्यक्तिकी उत्पत्ति किससे हुई यह विवाद न करके केवल अभिव्यक्तिकीही स्वीकार करना चाहिये, मत्कार्य<sup>१</sup>बादी और असत्कार्य<sup>२</sup>बादी इनमें इतना ही अन्तर है कि असत्कार्य<sup>२</sup>बादी कार्य<sup>१</sup> उत्पत्तिकी पूर्वदशाको प्रागभाव और कार्य<sup>१</sup>के कारणमें लय हाजान को ध्वंस कहते हैं और इन दोनों अवस्थाओंमें कार्यका अभाव मानते हैं। एवं सत्कार्य<sup>१</sup>बादी उक्त दोनों अवस्थाओंको अनागत और अतीत कहते हैं तथा उन अवस्थाओंमें कार्यका भाव (हाना) स्वीकार करते हैं ॥ कार्य<sup>१</sup>से कारणका अनुमान कर लेना चाहिये यहा पर सन्देह होता है कि किस क्रम को कार्य कह सकते हैं अतएव कार्यकी परीक्षा के लिये यह सूत्र लिखते हैं कि ॥ १२३ ॥

हेतुमदनित्यमव्याप्ति सक्रियमनकमाश्रितं

लिङ्गम् ॥ १२४ ॥

हेतुमत् (कारणवाला) अनित्य (जो सदैव एकसा न रहे) अव्याप्ति ( एक देशी ) सक्रिय ( जिसमें क्रियाकी अपेक्षा रहे) अनेक ( जिसके जुटे जुटे भेद प्रतीत हों ) आश्रित (कारणके आधीन) उसे लिङ्ग अर्थात् कार्यके पहचाननेका चिह्न कहना चाहिये इस सूत्रका अर्थ महादेव वृत्तिकारने ऐसा किया है कि "हेतुमत्वादि जिसमें पाये जायें वह प्रधानके लिङ्ग हैं" यह अर्थ इस कारण अयुक्त है कि प्रथमतो इस सूत्रमें वा पूर्वसूत्रमें प्रधानका नाम नहीं है दूसरे सांख्यकारने प्रधान शब्दको रूढ़ी

नहीं माना अतएव इसको पुरुष वाचक भी नहीं कहसकते, किन्तु प्रकृति वाचक है, तीसरे यदि उनके तात्पर्यानुसार यह लिङ्ग पुरुषके ही मानलेवे तो भी ठीक नहीं होसकता क्योंकि सांख्यकारके मतमें कार्यमात्रकी उत्पत्ति प्रकृतिसे है एव प्रकृति और पुरुषका भेदभी माना है एव परस्पर अनपेक्षाभी कपिलाचार्यका मिडान्त है तो प्रकृतिहीसे पुरुषका अनुमान नहीं हो सकता हेतुमत्वादि विशेषण देनेसे कार्यकारणका भेद प्रतीत होता है अतएव उस भेदकी सिद्धिमें प्रमाण देते हैं ॥ १२४ ॥

आञ्जस्यादभेदतो वा गुणसामान्यादेस्तत्प्रतिदिः

प्रधानव्यपदेशाद्वा ॥ १२५ ॥

आंजम्यसे (प्रत्यक्षसे) वा “कारणके सामान्य गुण कार्यमें पार्यजाते हैं विशेष गुणोंमें भेद रहता है” इससे और \* प्रधान व्यपदेशसे अर्थात् ‘यह कारण’ है ‘यह कार्य है’ इस लौकिक व्यवहारसे कार्यकारणके भेदकी सिद्धि होती है ॥ १२५ ॥

द्विगुणाचेतनत्वादि द्वयाः ॥ १२६ ॥

कार्यकारणका भेद कहकर कार्यकारणका माधर्म्य (बरा-बरी) कहते हैं कि सत्व, रज, तम, तीनों गुण और अचेतनत्वादि

५ प्रधोयते यन्मिन्निति प्रधानम्—अर्थात् जिसमें कार्य रहै वह प्रधान है और यह प्रसिद्ध है कि कारणमें ही कार्य रहता है तो कारणका नामही प्रधान है वह प्रधान प्रकृति ही है ।



धर्म दोनोके समान ही है आदि शब्दसे परिणामित्वादिका ग्रहण होता है ॥ १२६ ॥

प्रीत्यप्रीतिविषादाद्यैर्गुणानामन्योऽन्यं वैधर्म्यम् ॥ १२७ ॥

अब कार्यकारणका परस्पर वैधर्म्य कहते हैं सत्व, रज, तम, इन गुणोका सुख, दुःख, मोह इनमें अन्योऽन्य वैधर्म्य (एकही कारणसे भांतिभातिके कार्यकी उत्पत्ति होना) दिखाई पड़ता इस सूत्रमें आदि शब्दसे जिनका ग्रहण होता है उनका वर्णन पञ्चशिखाचार्यने यों किया है कि सत्वगुणसे प्रीति, तित्तिचा, सन्तोष आदि सुखात्मक अनन्त अनेक धर्मवाले कार्य उत्पन्न होते हैं। एव रजोगुणसे अप्रीति शोकआदि दुःखात्मक अनन्त अनेक धर्मवाले कार्य उत्पन्न होते हैं। एव तमसे विषाद निद्रा आदि मोहात्मक अनन्त अनेक धर्मवाले कार्य उत्पन्न होते हैं घटरूप कार्यमें सृत्तिकासे केवल रूपमात्रका वैधर्म्य है ॥ १२७ ॥

लघ्वादिधर्मैः साधर्म्यं वैधर्म्यं च गुणानाम् ॥ १२८ ॥

लघुत्वादि (छुटाई आदिसे) धर्मोंमें सत्वादि गुणोंका साधर्म्य वैधर्म्य है यथा लघुत्वके साथ सर्वसत्व व्यक्तियोंका (सतोऽगुणके पदार्थोंका) साधर्म्य है, रज और तमका वैधर्म्य है। एव चञ्चलत्वादिके साथ रजोव्यक्तियोंका ( रजोऽगुणके पदार्थोंका ) साधर्म्य और सत्व तमका वैधर्म्य है। एवं गुरुत्वादिके साथ तमोव्यक्तियोंका (तमोऽगुणके पदार्थोंका) साधर्म्य और सत्व रजमें वैधर्म्य है अब यह सन्देह होता है कि यद्यपि महदादि स्वरूपसे सिद्ध है तथापि प्रत्यक्षमें उनकी उत्पत्ति नहीं दीखती है अतएव

महदादिकोंके कार्य होनेमें कोई भी प्रमाण नहीं, इसका उत्तर यह है कि ॥ १२८ ॥

उभयान्यत्वात् कार्यत्वं महदादिघटादिवत् ॥ १२९ ॥

प्रकृति और पुरुष इन दोनोंमें महदादिक अन्य हैं अतएव उन्हें कार्य मानना चाहिये जैसे घट सृत्तिकासे घृथक् है अतएव कार्य है क्योंकि सृत्तिका कहनेमें न तो घटका बोध होता है और न घट कहनेमें सृत्तिकाका बोध होता है इसी भाँति प्रकृति और पुरुष कहनेमें महदादिकोंका बोध नहीं होता अतएव महदादिकों का प्रकृति और पुरुषमें भिन्न कार्य मानना चाहिये क्योंकि प्रकृति और पुरुष कारण है कार्य नहीं ॥ १२९ ॥

परिमाणात् ॥ १३० ॥

प्रकृति, और पुरुष परिमित भावसे रहते हैं कभी घटते बढ़ते नहीं अतएव उन्हें कार्य नहीं कह सकते क्योंकि ॥ १३० ॥

समन्वयात् ॥ १३१ ॥

बुद्धि आदि तत्व जो कि महदादिकोंका अवान्तर भेद हैं सो मन्नादिके समन्वयसे ( मिलनेमें ) बढ़ते रहते हैं और उपवाम करनेसे क्षीण होते हैं इस पूर्वोक्त समन्वयसे भी महदादिकों का कार्यत्व विदित होता है क्योंकि जो नित्य पदार्थ होता है

वह निरवयव होता है अतएव उसका घटना, वा बटना, नहीं हो सकता \* ॥ १३१ ॥

### शक्तित्त्विति ॥ १३२ ॥

महदादिक पुरुषके ँ कारण है इसीमें महादिकोंको कार्यत्व है क्योंकि इनके बिना पुरुष कृच्छ्रभी नहीं कर सकता जैसे बिना नेत्रके पुरुष देख नहीं सकता, और बिना पुरुषके नेत्रमें देखनेकी शक्ति नहीं (क्योंकि वह जड़ है) अतएव पुरुष दर्शन-रूप क्रियाको बिना नेत्ररूपी कारणके नहीं कर सकता इसीसे चक्षुआदिकोंको कार्यत्व है। इस सूत्रमें इतिशब्दसे यह जानना चाहिये कि प्रत्येक कार्यकी सिद्धिमें इतने ही प्रमाण होते हैं ॥ १३२ ॥

### तद्धाने प्रकृतिः पुरुषो वा ॥ १३३ ॥

जो महदादिकी कार्य न करे तो महत्त्वको प्रकृति वा पुरुष दोनोंसे एक जरूर माननाही पड़ेगा क्योंकि जो महदादि परिणामी है तो प्रकृति, और महदादि अपरिणामी हैतो पुरुष,

\* इसका आशय यह हुआ कि घटना बटना आदि कार्यमें होसकता है कारणमें नहीं होसकता बुद्धि आदिभी महत् आदिके ही भेद है वह अन्नके मिलनेमें बटते हैं और न मिलनेसे घटते हैं इसीसे महदादिकोंका कार्यत्व सिद्ध होता है।

ँ कारण शब्दका अर्थ "महारा" है इसकी ठेठभाषा सिवाय इसके और कोई नहीं मिलती।

मानना पड़ेगा और जो महदादिकोंको नित्य तथा इन दोनोंसे भिन्न दूसरा पदार्थ माना जाय तो ॥ १३३ ॥

तयोरन्यत्वं तुच्छत्वम् ॥ १६४ ॥

प्रकृति और पुरुषसे महदादिको अन्य माने तो तुच्छत्व ( अवस्तुत्व ) होता है क्योंकि मसारमें प्रकृति और पुरुषसे अन्य कोई वस्तु नहीं है अतएव इसको प्रकृतिका कार्य मानना चाहिये यदि अन्य माने तो इसके कारण भी अन्य ही मानने पड़ेगे इस प्रकार महदादिकोंको कार्यत्व सिद्ध करके उनहीके द्वारा प्रकृतिका अनुमान सिद्ध करते हैं ॥ १३४ ॥

कार्यात् कारणानुमानं तत्साहित्यात् ॥ १३५ ॥

कार्यसे कारणका अनुमान होता है क्योंकि जहां जहां कार्य होता है वहां कारण भी होता है इस अनुमानको गौतम मुनिने "सामान्यतोदृष्ट" कहा है और महदादिकभी अपने कार्योंके उपादान कारण हैं जैसे पाषाण रूप कार्य स्वगतप्रतिमादि का उपादान कारण है इस कथनसे महदादिकोंके कार्यत्वमें कुछ हानि नहीं है ॥ १३५ ॥

अव्यक्तं त्रिगुणास्त्रिजात् ॥ १३६ ॥

महत्तत्त्वादिकोंकी अपेक्षा भी मूल कारण प्रकृति अव्यक्त ( सूक्ष्म ) है क्योंकि महत्तत्त्वके कार्य; सुखादिकोंका प्रत्यक्ष होता है और सूक्ष्मताके कारण प्रकृतिका कोई गुण प्रत्यक्ष नहीं होता, यदि यह कही कि प्रकृति परम सूक्ष्म है तो है ही नहीं तब इसका उत्तर यह है कि ॥ १३६ ॥

तत्कार्यतस्तत्त्वित्त्वेर्नापलापः ॥ १३७ ॥

प्रकृतिके कार्योंसे प्रकृतिकी सिद्धि है इससे प्रकृतिका अभाव नहीं कहा जा सकता क्योंकि उस के कार्य महदादिक उसे सिद्ध करते हैं। यहां तक प्रकृतिका अनुमान ही चुका अब अध्याय समाप्ति पर्यन्त पुरुषका अनुमान कहेंगे ॥ १३७ ॥

सामान्येन विवादाभावाद्धर्मवज्र माधनम् ॥ १३८ ॥

जिस वस्तुमें सामान्यपे ही विवाद नहीं है उसकी सिद्धिमें साधनोंकी कोई अपेक्षा नहीं जैसे प्रकृतिमें सामान्यसे ही विवाद है उसकी सिद्धिके लिये साधनोंकी अपेक्षा है वैसे पुरुषमें नहीं क्योंकि चेतनके विना संसारमें अन्धेरा प्रतीत होगा यद्वा तक कि बौद्धजी सामान्यतः कर्मभोक्ता अहंपदार्थ को पुरुष मानते हैं तब उसमें विवादही क्या है ? धर्मवत् (धर्म की तरह) जैसे धर्मको सभी, बौद्ध, नास्तिक आदि मानते हैं वैसे ही एक चेतनको सभी स्वीकार करते हैं ॥ १३८ ॥

शरीरादिव्यतिरिक्तः पुमान् ॥ १३९ ॥

शरीरसे लेकर प्रकृति तक जो २४ पदार्थ हैं उनसे पुरुष पृथक् है। अब पुरुष शरीरादिसे भिन्न है इसमें हेतु कहते हैं कि ॥ १३९ ॥

संहतपरार्थत्वात् ॥ १४० ॥

प्रकृत्यादिक शय्या आदिके समान पदार्थ दूसरेके वास्ते होते हैं अर्थात् \* संहत देहादिसे भिन्न का नाम पुरुष है

\* इसका आशय यह है कि प्रकृति आदि संहत जितने पदार्थ

यह हेतु पूर्व भी कह चुके परन्तु फिर यहां कहना हेतुभीकी संख्या बढ़ानेके वास्ते है ॥ १४० ॥

त्रिगुणाद्विपर्ययात् ॥ १४१ ॥

त्रिगुण अर्थात् सुख, दुःख, मोह, आदि शब्दसे अविवेकादि इनसे विपरीत होनेसे पुरुष प्रकृति नहीं हो सकता अर्थात् वह प्रकृतिसे भिन्न है ॥ १४१ ॥

अधिष्ठानाच्च ति ॥ १४२ ॥

पुरुष अधिष्ठान ( अधिष्ठाता होनेसे ) प्रकृतिसे अतिरिक्त ( जुदा ) ही है । अधिष्ठान ( आधार ) अधिष्ठेय ( आधेय ) के संयोगसे मालूम होता है कि टोके बिना संयोग ही नहीं सकता इससे सिद्ध हुआ कि पुरुष प्रकृतिसे पृथक् वस्तु है \* ॥ १४२ ॥

भोक्तृभावात् ॥ १४३ ॥

यदि कही कि शरीरादिक ही भोक्ता हैं तो कर्ता और कर्मका विरोध होता है क्योंकि आपही अपनेको भोग नहीं सकता अर्थात् शरीरादिक प्रकृतिके धर्म है और सृक् चन्दनादिक भी प्रकृति हीके धर्म हैं इससे आपही आपका भोग नहीं कर सकता है ॥ १४३ ॥

है वह किसी दूसरे के लिये है और जो वह दूसरा है उसीका नाम पुरुष है ।

\* आशय यह कि जब प्रकृतिकी आधार ( रखनेकी जगह ) कहते हैं तब उस में आधेय ( रखनेकी चीज ) भी जरूर होनी चाहिये वह रखनेको चीज ही पुरुष है ।

कैवल्यार्थं प्रवृत्तेश्च ॥ १४४ ॥

यदि शरीरादिको ही को भोक्तामाना जायगा तो दूसरा दोष यह होगा कि मोक्षके उपाय करनेमें किसीकी प्रवृत्ति न होगी क्योंकि शरीरादिके विनाश होनेसे स्वत एव मोक्ष होना सम्भव है, तीसरा दोष यह होगा कि सुख दुःखादिक प्रकृतिके स्वाभाविक धर्म है और स्वभाव किमीका नष्ट नहीं हो सकता अतएव कैवल्य ( मोक्ष ) असम्भव है इसमें पुरुषका ही भोक्ता मानना ठीक है । उक्त प्रमाणसे पुरुषको चतुर्विंशति तत्त्वोंमें अतिरिक्त ( भिन्न ) कहचुके अब पुरुष क्या वस्तु है यह निरूपण करते हैं ॥ १४४ ॥

जडप्रकाशायागात् प्रकाशः ॥ १४५ ॥

अब यहा वैशेषिक कहते हैं कि अप्रकाश स्वरूप जड आत्माको मनके मयोगसे प्रकाश होता है इनका कथन सर्वथा अयुक्त है क्योंकि लोकमें जड ( प्रकाश रहित ) काष्ठलोठादिक है उनमें प्रकाश कदापि नहीं देखा जाता है अतएव सूर्यादिवत् प्रकाशरूप ही पुरुष जानना चाहिये ॥ १४५ ॥

निर्गुणत्वान्न चिद्धर्मा ॥ १४६ ॥

यहा पर यह शंका होती है कि प्रकाश स्वरूप आत्मामें धर्मधर्मी भाव है या नहीं है (अर्थात् पुरुष प्रकाश धर्मवाला और प्रकाश कुछ अन्य) इसका उत्तर यह है कि पुरुष निर्गुण होनेसे चित् धर्मवाला नहीं हो सकता क्योंकि गुण प्रकृतिके धर्म हैं यहां पर यह शंका होता है कि "मै जानता हूं" इत्यादिक

अनुभवांसे पुरुषमें धर्मधर्मी भाव कल्पना किया जाता है इस उत्तर यह है कि ॥ १४६ ॥

श्रुत्या सिद्धस्य नापत्तापस्तत्प्रत्यक्षत्वाधात् ॥ १४७ ॥

यद्यपि उक्त अनुभवांसे पुरुषांमें धर्मी भाव कल्पना किया जाता है परन्तु वह न केवल युक्तियोंमें ही विरुद्ध है किन्तु श्रुतियोंमें भी विरुद्ध है क्योंकि श्रुतियोंमें भी "साक्षीचेता केवलो निर्गुणश्च" इत्यादि विशेषणोंमें पुरुषको निर्गुण ही प्रतिपादन किया है एव उस अनुभव प्रत्यक्षमें दोषभी हो सकता है क्योंकि वह अनुभव किसकी होगा यदि पुरुषको होगा तो ज्ञानको पुरुषमें पृथक् अस्मान् मानना पड़ेगा इसमें पुरुष निर्गुण है \* रहा यह सन्देह कि जो पुरुष प्रकाश स्वरूप ही है तो सुषुप्ति आदि अवस्थाओंकी कल्पना नहीं होसकती क्योंकि उन अवस्थाओंमें प्रकाश स्वरूपता नहीं रहती है उसका उत्तर यह है कि ॥ १४७ ॥

सुषुप्ताद्यमात्रित्वम् ॥ १४८ ॥

पुरुष सुषुप्तिका आद्य साक्षी च । अर्थात् जिन बुद्धिकी वृत्तिश्रीका नाम सुषुप्ति है वह बुद्धि पुरुषादद्या है अतएव उस सुषुप्तिका आदि साक्षी पुरुष है और सुषुप्ति बुद्धि का धर्म है ) अब यह सन्देह होता है कि यदि पुरुष

\* यहाँ पर भी महर्षि कपिलने कुछ अगम पुरुष शब्दमें ईश्वर का तात्पर्य निकाला है और कुछ अगमों जीवमें तात्पर्य रखा है, अतएव निर्गुण आदिमें ईश्वरका सम्बन्ध समझना चाहिये ।



प्रकाश स्वरूप है और बुद्धिवृत्तिओंका पुरुष, आश्रय है तो वह पुरुष एक है वा अनेक, इसका उत्तर यह है कि ॥१४८॥

जन्मादिव्यवस्थातः पुरुषबहुत्वम् ॥ १४८ ॥

लोकमें जन्मादि व्यवस्था अनेक दिग्वाड़े पडती है इसहीसे सिद्ध होता है कि पुरुष बहुत है क्योंकि यदि सब बुद्धिवृत्तिओंका आकार एक ही पुरुष होता तो “वह घट है इस घटका मैं जानता हूँ” इस प्रकारका अनुभव जिस ज्ञानमें एक बुद्धिको होता है उभी ज्ञानमें सब बुद्धिओंका होना चाहिये क्योंकि सबका वह आश्रयी एकही है परन्तु ऐसा लोकमें नहीं दिग्वाड़े पडता है अतएव पुरुष अनेक है। जो कोई कोई टीकाकार इस सूत्रका यह अर्थ करते है कि “जन्मादि व्यवस्था ही से पुरुष बहुतसे प्रतीत होते है वस्तुतः नहीं” उनका कथन तो इस कारण अयुक्त है कि “पुण्यवान् स्वर्गं जायते” “पापी नरके” “अज्ञो बध्यते ज्ञानी मुच्यते” (पुण्यात्मा स्वर्गमें उत्पन्न होता है ज्ञानी मुक्त होता है) इत्यादिक श्रुतियों बहुत्वके प्रतिपादन करती है उनसे विरुद्ध होगा। अब रहा यह सन्देह कि एकही पुरुषकी अनेक जन्मादि व्यवस्था हो सकती हैं वा एक पुरुषकी एकही जन्मादि व्यवस्था है ? इसका उत्तर यह है कि ॥ १४८ ॥

उपाधिभेदेऽप्येकस्य नानायोग आकाशत्वे

घटादिभिः ॥ १५० ॥

उपाधि भेद (शरीरादि) होने पर भी एक पुरुषका अनेक जन्ममें अनेक शरीरासे योग है घटादिकींके साथ आकाशके समान इस सूत्रका अर्थ यह है कि एक पुरुष जन्मान्तरमें

अनेक उपाधि धारण करके अनेक योगवाला कहा जा सकता है जैसे एक ही आकाश घटको उपाधि होनेसे घटाकाश और मठकी उपाधि होनेसे मठाकाश कहाता है परन्तु वह उपाधि आकाशको एक ही देश कालमें नहीं हो सकती अर्थात् जितने स्थानके आकाशका नाम मठाकाश है उसी क्षणमें उस आकाशका नाम घटाकाश नहीं हो सकता है किन्तु मठकी उपाधि नष्ट करके दूसरे कालमें घट स्थापित होने पर घटाकाश कहा जा सकता है इसी भाँति पुरुषभी एक ही देश कालमें अनेक उपाधियों (शरीरादि) को धारण नहीं करता किन्तु अनेक कालमें अनेक उपाधि धारण करके नाना योगवाला कहाता है अर्थात् एक ही जीव कभी मनुष्य कभी पशु आदि नाना शरीर धारण करके एक ही रहता है एव अनेक जीव अनेक उपाधिओंकी धारण करते हैं यह ज्ञानियोंको ही प्रतीत होता है ॥ १५० ॥

उपाधिभिद्यते न तु तद्धान् ॥१५१॥

(उसी पूर्वोक्त सूत्रकी पुष्टिमें यह सूत्र है) बहुतसे रूप उपाधियोंके होते हैं और उपाधि ही नानारूपोंमें कही जाती है किन्तु उपाधिवाला पुरुष एक ही है यद्यपि अनेक नवीन बँदान्ती यह कहते हैं कि एक ही आत्माका कार्यकारण उपाधि में प्रतिबिम्ब पडनेमें जीव ईश्वरका भेद है और प्रतिबिम्ब आपसमें जुड़े होनेमें जन्मादि व्यवस्था भी हो सकती है यह उनका मिहान्त इस कारण अयुक्त है कि इसमें भेदाभेद कल्पना नहीं हो सकती क्योंकि बिम्ब (भाईवाला) प्रतिबिम्ब

(भाई) इन दोनोंकी बिना पृथक्ता स्वीकार किये बिम्ब प्रति-  
बिम्ब भाव हो ही नहीं सकता और जीवको ब्रह्म प्रतिबिम्ब  
मानते हैं तो प्रतिबिम्ब जल होता है अतएव पुरुषको भोक्ता,  
बद्ध, मुक्त, कभी न कह सकी और जीव ब्रह्मको एकताके  
सिद्धान्तमें हानि होगा अतएव सास्यामतानुसार जीव ब्रह्मको  
एक मानना नहीं बन सकता एकही ब्रह्म जीव रूप हो गया है  
इस पक्षका खण्डनकारक यह सूत्र है कि ॥ १५१ ॥

एवमेकत्वेन परिवर्त्तमानस्य न विरुद्धधर्माध्यामः ॥१५२॥

यदि ब्रह्म एक ही सम्पूर्ण उपाधिओंमें अनुगत और जीव  
रूप हो गया है तो उसमें विरुद्ध धर्म दुःख बन्धनादिका अध्यास  
न हो यह नहीं हो सकता किन्तु अध्यास अवश्य होगा, अतएव  
जीव ब्रह्मको एक मानना युक्त नहीं इस सूत्रका दूसरा अर्थ  
यह भी हो सकता है कि अनेक उपाधियोंमें एकत्वमें वर्त्तमान  
जो पुरुष उसमें विरुद्ध धर्म ( उपाधिओंकी भांति विनशित्वादि  
धर्म ) का अध्यास नहीं हो सकता, अब इसमें यह शङ्का होती  
है कि जब पुरुषको निर्धर्म कहा है तो जन्ममरण बन्ध मोक्ष  
आदि धर्म क्यों कर उसमें माने जाते हैं इसका उत्तर यह है कि  
यह धर्म परिणामी नहीं है जैसे स्फटिक मणिके पास नीला  
वा पीला रङ्ग रखने से वह मणि भी नीली वा पीली दीख  
पडती है परन्तु वास्तवमें मणि श्वेत है इसी भांति पुरुषमें  
भी बुद्धिके धर्म सुखदुःखादि शरीरके धर्म पितापुत्रादि प्रतीत  
होते हैं \* ॥ १५२ ॥

\* इस सूत्रके दो अर्थ यों हुए कि 'एकत्वेन' यहां द्वितीया भी

अन्यधर्मत्वऽपि नारोपात् तत्त्वद्विरेकत्वात् ॥ १५३ ॥

बुद्धि आदिकांका धर्म जो सुख दुःखादि उस धर्मका पुरुषमे आरोप करने पर भी पुरुषके परिणामित्वकी सिद्धि नहीं हो सकती क्योंकि सुख दुःखादि पुरुषके धर्म नहीं किन्तु बुद्धिके धर्म हैं पुरुष जन्मान्तरमें भी एक ही बना रहता है—अब यहाँ शंका होती है कि जब प्रति शरीरमें एक एक पुरुष है तो नानापुरुष सिद्ध हूये “एकमेव द्वितीय ब्रह्म” इत्यादि अद्वैत प्रतिपादक श्रुतियोंमें विरोध होगा—इसका उत्तर यह है कि ॥ १५३ ॥

नाद्वैतश्रुतिविरोधो जातिपरत्वात् ॥ १५४ ॥

अद्वैत कहनेवाली श्रुतियोंमें विरोध नहीं होगा क्योंकि वहाँ पर अद्वैत शब्द जाति पर है जैसे एक पुरुषके समान अनेक पुरुष हैं ऐसे ईश्वरके समान कोई नहीं है जैसे लोकमें भी देखा जाता है कि ‘अमुक पण्डित अद्वितीय है’ इसका आशय यह ही समझा जाता है कि उसके समान कोई दूसरा नहीं इसही तरहसे ईश्वरकी अद्वैत वा अद्वितीय कहते हैं अब रक्षा यह सन्देह कि जिस प्रकार अद्वैत श्रुतियोंका विरोध बचानेके लिये ईश्वरमें अद्वैत शब्द जातिपरक कहा उसी भांति पुरुष कोभी ईश्वरकाही रूपान्तर क्यों न माने’ इसका उत्तर यह है कि ॥ १५४ ॥

समझ सकते हैं और नकारकी पृथक् करके एकत्वको समझी भी कह सकते हैं सिद्धान्त की चति दोनों अर्थोंमें नहीं होगी ।

विदितबन्धकारणस्य दृष्ट्यातद्रूपम् ॥ १५५ ॥

जिसका (पुरुषका) बन्ध कारण विदित हो चुका है तसका। विचारभी लोक दृष्टिमें ही ईश्वरका रूपान्तर नहीं हो सकता आशय यह है कि पुरुष बन्ध आदि धर्मवाला होनेसे ईश्वरका रूप नहीं। अब यह शङ्का होती है कि यदि जीव ईश्वरका रूपान्तर नहीं है तो अनेक शरीर धारण करने पर भी एकही पुरुष रहता है इसमें क्या प्रमाण है इसका उत्तर यह है कि ॥ १५५ ॥

नाम्नादृष्ट्या चक्षुष्मतामनुपलभ्यः ॥ १५६ ॥

जो पदार्थ अन्धाको न देख पड़े उसका अभाव नैखवान्भी कह देवे यह युक्त नहीं-- इस सूत्रका आशय यह है कि एक ही पुरुष अनेक शरीरों में जन्मान्तर धारण करता है यह बात पूर्वही सिद्धकर आये फिर ऐसी तच्छ शङ्का करना ही व्यर्थ है यदि अद्वैतवादी यह कहें कि पुरुष मुक्त होते ही अद्वैत ब्रह्मरूप होजाता है सो भी अयुक्त है क्योंकि ॥ १५६ ॥

वामदेवादिमुक्तो नाद्वैतम् ॥ १५७ ॥

यद्यपि वामदेवादिक मुक्त होगये तौभी अद्वैत स्वरूप नहीं हुये क्योंकि यदि मुक्त जीव सब अद्वैत स्वरूप ही होजाते तो आज तक धीरे धीरे सब पुरुष अद्वैत होकर पुरुषाभाव हो जाता। यदि कहोकि धीरे धीरे ही पुरुष मुक्त होकर अद्वैत रूप होजाते हैं, तो यह भी असम्भव है क्योंकि ॥ १५७ ॥

अनादावद्य यावद्भावाद्भविष्यदप्येवम् ॥ १५८ ॥

अनादिकाल से लेकर जो बात अब तक नहीं हुई तो भविष्यतमें भी न होगी यही नियम है इससे यह सिद्ध हुआ कि अनादिकाल से लेकर अब तक जो कोई भी मुक्त पुरुष ब्रह्म नहीं हुआ क्योंकि पुरुष सव्या न्यून नहीं हुई और नवीन पुरुषोत्पत्ति मानी नहीं जाती तो भविष्यतमें भी ऐसाही होगा । अब सांख्यकार मोक्ष त्रिपयमें अपना मिथ्यान्त कहते हैं ॥१५८॥

द्रुदानीमिव सर्वत्र नात्यन्तोच्छेदः ॥ १५९ ॥

इस वर्तमान कालके दृष्टान्तमें यह समझना चाहिये कि पुरुषके बन्धका किमी कालमें भी अत्यन्त उच्छेद नहीं हो सकता, आशय यह है कि कोई भी पुरुष ऐसा मुक्त नहीं है कि फिर उसका बन्धकभी न हो सके इससे यह भी विदित हुआ कि मुक्त पुरुषका पुनर्जन्म होता है ॥ मोक्ष कैसा होता है इसका निर्णय करते हैं ॥ १५९ ॥

व्यावृत्तोभयरूपः ॥ १६० ॥

वह मुक्ति ऐहिक ( यहाँके ) सुख, दुःख दोनोंसे ही विलक्षण है अर्थात् मुक्तिमें पुरुषको शान्तसुख प्राप्त होता है अब यहाँ पर यह शङ्का होती है कि जब पुरुषको साक्षी कह चुके वह साक्षित्व मोक्षकालमें नहीं रह सकता क्योंकि वहाँ बुध्यादिका अभाव है तो “पुरुष सदा एकरूप रहता है” यह कथन असंगत हुआ इसका उत्तर यह है कि ॥ १६० ॥

मात्तात्मस्वभ्यात् सात्त्वित्वम् ॥ १६१ ॥

पुरुषको जो सात्त्वित्व कहा है वह बुद्ध्यादिके साथ मात्तात् स्वस्वभमें कहा है—किन्तु वास्तवमें पुरुष सात्ती नहीं है क्योंकि पाणनि मुनिने सात्तीशब्दक। अर्थ ऐसा किया है कि “सात्तादृष्टरिसंज्ञायाम्” ५।२।६१ इम सूत्रमें सात्तीशब्द निपातन किया है कि जितने कानर्म निरन्तर देखता रहता है उतनेही कालमें सात्ती संज्ञा है। इससे यह सिद्ध हुआ कि जितने काल तक पुरुषका बुद्धिके साथ सम्बन्ध रहता है उतने ही काल तक पुरुषको सात्तीसंज्ञा रहती है। यदि बुद्धिके सम्बन्धमें पुरुषमें दुःखादिकी कल्पना है तो पुरुष वास्तवमें दुःखादिमें मुक्त होने से यह दोष होगा कि ॥ १६१ ॥

नित्यमुक्तत्वम् ॥ १६२ ॥

पुरुष नित्य मुक्त माना जायगा फिर मुक्तिका उपाय करना निष्फल होगा इस सूत्रके अर्थमें विज्ञान भिद्यने जो “नित्य मुक्तत्वम्” यह पुरुषका विशेषण ( पुरुषको वास्तवमें नित्य मुक्त) माना है और साथहीमें नवीन वेदान्ति महादेव वृत्तिकारने भी वैसाही लिख कर पुरुषका ब्रह्मका रूपान्तर सिद्ध किया है यह दोनोंही कथन इस कारणसे अयुक्त हैं कि “इदानीमिव सर्वत्र नात्यन्तोच्छेदः” इस सूत्रमें पुरुषको अनित्य मुक्ति कपिलाचार्यने की है उससे यहां विरोध होगा। उन टीकाकारोंने यह न सोचा कि क्या उन ऋषियोंकीभी बुद्धि मनुष्योंकी भांति क्षणिक होती है ? कि कभी कुछ कहे और कभी कुछ कहे। जब उक्त सूत्र (इदानीं इत्यादि) में पुरुषको अनित्य मुक्त कह चुके फिर नित्य-

मुक्त क्या कह सकते हैं ? उक्त टीकाकारोंके कथनमें इस कारण भी अयुक्तता है कि जो दोष कपिल आचार्यकी अपने कहे हुये विशेषणोंमें दीखे उनके मङ्गलानेके वास्ते “मात्तात्सम्बन्धात् सात्त्वित्वं” यह सूत्र कहा एव “नित्यमुक्तत्व” और “श्रीदासीन्य” यह ही प्रकारके दोष आवेग उनका समाधान इस अध्यायके अन्तिम सूत्रमें सिद्ध कर दिया है अतएव “नित्यमुक्तत्व” यह सूत्र और अगला सूत्र श्रीदासीन्य चेति यह दोनों दोषदर्शक हैं ॥१६२॥

श्रीदासीन्यं चेति ॥ १६३ ॥

और पुरुषकी वास्तवमें मुक्त माननेसे श्रीदासीन्य दोष होगा क्योंकि पुरुषकी किसीसे सम्बन्धही नहीं तो वह किसी कर्मका कर्त्ताकी होगा जब किसीका कर्त्ताही न रहा तो बन्धन आदि में क्या पड़ेगा ? तब उसमें श्रीदासीन्य दोष होगा इस मूलका भाव और पुरुषमें कर्त्तृत्व अगले सूत्रमें कहेंगे । ‘इति’ यह इस लिये है कि पुरुषकी भिन्नमें दोषादिका खण्डन कर चुके ॥१६३॥

उपरागात् कर्त्तृत्वं चित्तमानिध्यात्

चित्तमानिध्यात् ॥ १६४ ॥

पुरुषमें जो कर्त्तृत्व है सो बुद्धिके उपरागसे है बुद्धिमें जो चित्तशक्ति है वह पुरुषके मानिध्यसे है यहां पर जो चित्तमानिध्यात् यह दो वार उच्चारण है वह अध्याय समाप्तिका सूचक है । इस अध्यायमें शास्त्रके मुख्य चार अर्थ कथन किये गये हैं, (त्यागने योग्य) ज्ञान, (त्यागना) हेय, और ज्ञान इन दोनोंके हेतु ॥१६४॥

इति माङ्क्यदर्शने प्रथमोऽध्यायः ।



## द्वितीयोऽध्यायः ।

— — — — —

विमुक्तमोक्षार्थं\* स्वार्थं वा प्रधानस्य ॥ १ ॥

शास्त्रका विषय निरूपण कर चुके । अब पुरुषका अपरिणामित्व ( परिणामको प्राप्त नहीं होना ) यह प्रतिपादन करनेके लिये प्रकृतिसे सृष्टिका होना यह द्वितीयाध्यायमें विस्तारसे कहेंगे इस ही अध्यायमें प्रधानके जो कार्य है उनका स्वरूप विस्तारसे कहना है प्रकृतिके कार्योंसे पुरुषका अच्छी तरह ज्ञान होता है क्योंकि बिना उसके कार्यों का ज्ञान हुये मुक्ति कदापि नहीं हो सकती । इसका आशय यह है कि जबतक पुरुष, प्रकृति, और प्रकृतिके कार्य, इनका सम्यक् (भलीभांति) ज्ञान नहीं होगा तबतक मुक्ति भी न होगी । अर्थात् उनके जाननेसेही मुक्त होता है यदि अचेतन प्रकृति निष्प्रयोजन सृष्टिको उत्पन्न करती है तो मुक्तका भी बन्ध होगा इस आशयको विचारके सृष्टि उत्पत्तिका प्रयोजन इस सूत्रमें कहते हैं ॥ कि पुरुषमें जो प्रतिबिम्ब सम्बन्धसे दुःख प्रतीत होता है उसकी मुक्तिके लिये अथवा स्वार्थ अर्थात् पुरुषके सम्बन्धसे जो बुद्ध्यादि को दुःखः होते हैं उनके दूर करनेके वास्ते प्रधान अर्थात् प्रकृतिको कर्तृत्व है । इस सूत्रमें कर्तृत्व पूर्व सूत्रसे अनुवर्तन किया जाता है । अब यह शका होती है कि मोक्षके वास्ते

\* विगत दूरीभूत मुक्त मोक्षेन यस्य स विमुक्तो बहस्तस्य मोक्षार्थम् ।

ही जो सृष्टि होती है तो एकही बारकी सृष्टिमें सब पुरुषों का मोक्ष होजाता पुनः पुनः सृष्टि होनेका क्या प्रयोजन है ? इसका उत्तर यह है कि ॥ १ ॥

विरक्तस्य तत्सिद्धेः ॥ २ ॥

एकही बार सृष्टिमें मुक्त नहीं होता है किन्तु बहुतसे जन्म मरणादि दुःखसे सन्तप्त हो कर प्रकृति पुरुषका ज्ञान होजाने से जब वैराग्य उत्पन्न होता है तब मोक्ष होता है । वह वैराग्य एक बारकी सृष्टिमें किसी पुरुषको नहीं हुआ इसमें प्रमाण यह है कि ॥ २ ॥

न श्रवणमावात् तत्सिद्धिर्नादिवामनाया बलवत्त्वात् ३

केवल श्रवणमावसे मुक्तिकी सिद्धि नहीं हो सकती है । और श्रवण भी बहुत जन्ममें किये हुए पुण्यसे प्राप्त होता है तथापि केवल श्रवण से मुक्ति नहीं है किन्तु विवेक साक्षात्कार होनेसे मुक्ति होती है और साक्षात्कार शीघ्र ही नहीं सकता क्योंकि अनादि दुर्वामना बलवती है उसके रहते पुरुष मुक्त नहीं हो सकता किन्तु योग से विवेक साक्षात्कार होकर मुक्त होता है इस योगमें नाना विघ्न होनेसे बहुत जन्मोंके उपरान्त योग सिद्ध होता । एवं जन्मान्तरमें वैराग्यको प्राप्त होके किसी समयमें कोई ही पुरुष मोक्षको प्राप्त होजाता है सब नहीं होते । अब सृष्टिप्रवाह (जन्ममरण) में हेतु कहते हैं ॥ ३ ॥

बहुभृत्यवद्वा प्रत्येकम् ॥ ४ ॥

अब इसमें यह सन्देह होता कि सृष्टिका प्रवाह किस तरह चलता है, इस सन्देहको दूर करनेके लिये कपिलाचार्यने यह

सूत्र दृष्टान्तमें लिखा है कि जैसे एक घरके बहुतसे नीकरोका भरणपोषण स्त्री, पुरुष, बालक आदि क्रमसे करते हैं इसी भांति प्रकृतिके सत्त्वादि गुण प्रत्येक असंख्य पुरुषोंको क्रमसे मुक्त करते हैं इस लिये कितने ही पुरुषोंका मोक्ष हो भी जाता है परन्तु अन्य पुरुषोंकी मुक्तिके लिये सृष्टिप्रवाहकी आवश्यकता है क्योंकि पुरुष अनन्त है। अब यह शङ्का होती है कि प्रकृति ही सृष्टिको करनेवाली क्यों है? क्योंकि पुरुषको सृष्टिका कर्त्ता सब मानते हैं इसका उत्तर यह है कि ॥ ४ ॥

प्रकृतिवास्तवे च पुरुषस्याध्यामासिद्धिः ॥ ५ ॥

यद्यपि प्रकृति वास्तवमें सृष्टिकर्त्री है तथापि सृष्टि करनेमें पुरुष की अध्यामसिद्धि है इनमें लिये वह सृष्टिकर्त्ता कहाता है, जैसे—संयाममें योद्धा अपनी शक्तिसे जय वा पराजय करते हैं, वह सब राजा का समझा जाता है एव प्रकृतिहीसे सृष्टि है तथापि उसका कर्त्ता पुरुषको जानना चाहिये। अब यहां यह मन्देह होता है कि प्रकृति ही वास्तवमें सृष्टिकर्त्री कैसे है क्योंकि सृष्टि अनित्य सुनी जाती है तो उसका कारण प्रकृति भी अनित्य होगी इसका उत्तर यह है कि ॥ ५ ॥

कार्यतस्मात्सिद्धिः ॥ ६ ॥

प्रकृतिके वास्तव कर्त्तृत्वकी सिद्धि कार्योंके देखनेहीसे हो सकती है क्योंकि यह सृष्टि रूपी कार्य सिवाय प्रकृतिके और किसका कहा जासकता है यदि पुरुष का कहै तो पुरुषमें

अध्याम उमं कर्तते है कि काम दूसरा करे नाम दूसरका ही जमा दृष्टान्तसे स्पष्ट है।

परिणामित्व आता है और यदि प्रकृति का न कहें तो किमका हैं यह प्रश्न होसकता है, अतएव प्रकृतिहीको वास्तवमें कर्त्तृत्व है और जो सृष्टिके अनित्यत्वमें स्वप्नका दृष्टान्त दिया जाता है सो भी ठीक है क्योंकि स्वप्न भी अपनी अवस्थामें मत्त होता है अतएव सृष्टि नित्य है और उसका कारण भी नित्य है । यहां यह मन्देह होता है कि प्रकृति अपने मोक्षके लिये सृष्टि करने में क्यों प्रवृत्त होती है इसका उत्तर यह है कि ॥ ६ ॥

चेतनोद्दिशाद्भियमः कण्टकमोक्षवत् ॥ ७ ॥

विवेकी पुरुषके प्रति प्रकृतिका यह ही नियम है कि वह विवेकीके द्वारा अपनी मोक्ष करे जैसे ज्ञानवान् पुरुष अति-बुद्धिमत्ताके साथ कांटेसे काटेकी निकालता है उमीका सहारा अन्य अन्नमनुष्य भी लेते है, इसी तरह प्रकृति भी जानी । अब यहां यह शङ्का होती है कि पुरुषमें स्रष्टृत्व (बनानेवालापन) कल्पना मात्र ही कहा सो ठीक नहीं क्योंकि प्रकृतिके संयोगसे पुरुष भी सहदादिकीके परिणामको धारण करलेता है, जैसे—काष्ठादिक पृथिवामें बहुत समय तक पड़े रहनेसे पृथिवीके समान हो जाते हैं वैसे पुरुष भी होना चाहिये इसका उत्तर यह है कि ॥ ७ ॥

अन्ययोगेऽपि तस्मिदिनाञ्जस्येनायोदाहवत् ॥ ८ ॥

प्रकृतिके साध पुरुषका योग होनेसे भी पुरुष वास्तवमें सृष्टिकर्त्ता नहीं यह प्रत्यक्ष ही है जैसे लोह और अग्निके संयोग होने पर लोह अग्नि नहीं हो सकता ॥ यद्यपि इस दृष्टान्तसे दोनोंमें परिणामित्व हो सकता है क्योंकि अग्नि और लोहने

अपनी पूर्वावस्थाको छोड़ दिया तथापि एकही परिणामी होना चाहिये क्योंकि दोनो परिणामी होनेसे गौरव होता है, जो दोनोहीको परिणामी कहै तो स्फटिकमणिमें लाल या पीले रगकी भांई पडनेसे जो उसमें ललाई वा पिलाई आती है वह भी वास्तविक माननी पडेगी परन्तु वैसा नहीं माना जाता । अब सृष्टिका मुख्य निमित्त कारण कहते है ॥ ८ ॥

रागविरागयोरीगः सृष्टिः ॥ ९ ॥

राग और विरागके योगको सृष्टि कहते है अर्थात् जिसमें राग और विराग दोनोंका योग हो उसे सृष्टि कहते हैं इन दोनोंका योग होना ही सृष्टि करनेका निमित्त कारण है अब सृष्टि प्रक्रिया करते है ॥ ९ ॥

महदादिक्रमेण पञ्चभूतानाम् ॥ १० ॥

महत्तत्त्वादिकोंसे आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथिवी इन पञ्चभूतोंको उत्पत्ति हुई ॥ यद्यपि प्रकृतिका सृष्टृत्व अपनी मुक्तिके लिये हो क्योंकि वह प्रकृति नित्य है किन्तु महदादिकोंका अपने अपने विकारका सृष्टृत्व अपनी मुक्तिके लिये नहीं हो सकता क्योंकि वह अनित्य हैं अतएव महदादिकोंका सृष्टृत्व परार्थ है इस आशयसे कहते है ॥ १० ॥

आत्मार्थत्वात् सृष्टेर्नेषामात्मार्थ आरम्भः ॥ ११ ॥

महदादिकोंका सृष्टृत्व पुरुषके मोक्षके लिये है किन्तु अपने लिये नहीं क्योंकि महदादि विनाशी है यदि कोई यह सन्देह करे कि महदादिकोंका सृष्टृत्व (बनानेवालापना) परार्थ है तो प्रकृतिके लिये ही किन्तु पुरुषके लिये क्यों है इसका उत्तर यह

है कि महदादिक प्रकृतिके ही कार्य्य है अतएव परशब्दसे पुरुषहीका ग्रहण होगा । अब दिशा और कालकी सृष्टिको कहते है ॥ ११ ॥

दिक्कालावाकाशादिभ्यः ॥ १२ ॥

आकाशसे दिशा और काल हुए यह दोनों आकाशकी भांति नित्य है अर्थात् आकाशमें जो विभुत्व ( व्यापकता ) है वह इन दोनोंमें भी है अतएव यह दोनों नित्य है । और जो खण्ड दिक्काल हैं सो तो उपाधिसयोगसे आकाशसे उत्पन्न होते हैं वह अनित्य हैं । इस सूत्रमें आदि शब्दसे उपाधिका ग्रहण होता है । अब महदादिकोका स्वरूप और धर्म वर्णन करते है ॥ १२ ॥

अध्यवसायो बुद्धिः ॥ १३ ॥

अध्यवसाय ( निश्चय ) ही बुद्धि है वह बुद्धि महत्त्वका दूसरा नाम है । महत्त्वके कार्य्य कहते है ॥ १३ ॥

तत्कार्यं धर्मादि ॥ १४ ॥

उस बुद्धिके कार्य्य धर्मादिक है अर्थात् धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य्य इनका उपादान कारण बुद्धि है । अब यहा यह शङ्का होती है कि यदि बुद्धिके कार्य्य धर्मादिक है तो मूर्खजनीकी बुद्धि ऐसी क्यों हो जो उनमें अधर्म प्रबल है ? इस का उत्तर यह है कि ॥ १४ ॥

महदुपरागाद्विपरीतम् ॥ १५ ॥

रज और तमोगुणके उपराग (अधिकता)से महत्त्वके कार्य्य

धर्मादिक विपरीत होजाते है अर्थात् अधर्म अवैराग्य, अज्ञान, अनैश्वर्य, यह विपरीत कार्य हो जाते है । अब महत्त्वके कार्य अहङ्कारको कहते है ॥ १५ ॥

अभिमानोऽहङ्कारः ॥ १६ ॥

अहं करनेवालेको अहङ्कार कहते है जैसे कुम्भ करनेवालेको कुम्भकार । यह अहङ्कार अन्त करणका द्रव्य है अहङ्कार और अभिमान एकही वस्तुके नाम है । अब अहङ्कारका कार्य कहते है ॥ १६ ॥

एकादशपञ्चतन्मात्रं यत्कार्यम् ॥ १७ ॥

एकादश इन्द्रिय चक्षुश्रोत्रादि पञ्चतन्मात्रा यह सब अहङ्कार के कार्य है ॥ १७ ॥

सात्त्विकमेकादशकं प्रवर्तते वैकृताहङ्कारात् ॥ १८ ॥

वैकृत ( विकारकं प्राप्तं हृण ) अहङ्कारसे सात्त्विक (ग्यारवां) मन पवर्त होता है । और यह भी समझना चाहिये कि राजस ( रजोगुणवाले ) अहङ्कारसे केवल दश इन्द्रिय—और तामस (तमोगुणवाले) अहङ्कारसे पञ्चतन्मात्रा होती है और मन सती-गुणसे होता है अतएव उसे अब एकादश इन्द्रिय बताते हैं ॥ १८ ॥

कर्मेन्द्रियबुद्धीन्द्रियैरान्तरमेकादशकम् ॥ १९ ॥

कर्मेन्द्रिय बाणी, हाथ, पांव, गुदा, उपस्थ, ज्ञानेन्द्रिय—श्रोत्र, (कान) त्वक्, (खाल) चक्षु, (आंख) रमना, (जिह्वा) प्राण, कर्मेन्द्रिय और ज्ञानेन्द्रिय इनका आन्तर ११ वां मन है । कोई ऐसा कहते हैं कि इन्द्रियोंकी उत्पत्ति पञ्चभूतोंसे है उस भौतिकत्व मतको दूर करते हैं ॥ १९ ॥

### आहङ्कारिकत्वश्रुतेर्न भौतिकानि ॥ २० ॥

“एकोऽह बहु स्या” ( एकमें बहुत हो जाता ह ) इत्यादि बहुतसी श्रुतिया अहकारसेही इन्द्रियोंकी उत्पत्तिका प्रतिपादन करती है इस लिये आकाशादि पञ्चभूतोंसे इन्द्रियोंकी उत्पत्ति नहीं कह सकते ॥ “अग्नि वागप्येति वातं प्राण.” (अग्निमें वाणी लय होती है पवनमें प्राण लय होता है) इत्यादि श्रुतियों पर कोई सन्देह करते हैं कि जब इनमें इन्द्रियोंका लय है तो उत्पत्ति भी इन्हींमें होगी इसका उत्तर यह है कि ॥ २० ॥

### देवतालयश्रुतिर्नाग्निभक्तस्य ॥ २१ ॥

अग्नि आदि दिव्य गुणविशिष्ट पदार्थोंमें लय सुना जाता है किन्तु उत्पत्ति नहीं सुनी जाती और यह भी कोई नियम नहीं कि जिसमें जिसका लय हो उससे उसकी उत्पत्ति भी अवश्य ही हो जैसे कि जलविन्दु भूमिमें लय होजाता है परन्तु वह उससे उत्पन्न नहीं हुआ अतएव इन्द्रियोंकी उत्पत्ति अहकारसे ही सकती किन्तु भौतिक नहीं है यह सूत्र पूर्व सूत्रके भी पुष्टि—पक्षमें है कोई ऐसा कहते हैं कि इन्द्रियान्तर्गत मन नित्य है इसका उत्तर यह है कि ॥ २१ ॥

### तदुत्पत्तिश्रुतेर्विनाशदर्शनाच्च ॥ २२ ॥

मन की उत्पत्ति “एतस्माज्जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च” (इससे प्राण, मन और सब इन्द्रियां उत्पन्न होती हैं) इत्यादि श्रुतियोंसे सिद्ध है, और मनका विनाश भी देखा जाता है क्योंकि बृहदादि अवस्थाओंमें चक्षु आदि इन्द्रियोंकी तरह मन भी क्षय होता है इससे मन नित्य नहीं है । नास्तिक लोग



कहते हैं कि चक्षु प्राण आदि इन्द्रियोंका गोलक (चिह्न) को ही इन्द्रिय कहते हैं इसका उत्तर यह है कि ॥ २२ ॥

अतीन्द्रियमिन्द्रियं भ्रान्तानामधिष्ठाने ॥ २३ ॥

भ्रान्तीकी वृद्धिमें गोलक का नाम इन्द्रिय है वस्तु इन्द्रिया अतीन्द्रिय है अर्थात् इन्द्रियोमें इन्द्रियोंका ज्ञान नहीं होता। अब यहाँ यह शङ्का होती है कि इन्द्रिय एकही है उसही की अनेक शक्ति अनेक विलक्षण कार्य करती रहती है इसका उत्तर यह है कि ॥ २३ ॥

शक्तिभेदेऽपि भेदमिदं नैकत्वम् ॥ २४ ॥

एक इन्द्रियकी भी अनेक शक्ति माननेसे इन्द्रियोंका भेद मित्र होगया क्योंकि उन शक्तियोंमें ही इन्द्रियत्व स्थापन किया जा सकता है। अब यहाँ यह सङ्ग होता है कि एक अहंकार में अनेक तरहकी इन्द्रियोंकी उत्पत्ति होना यह न्याय विरुद्ध है क्योंकि एकसे एकही वस्तु उत्पन्न होनी चाहिये इसका उत्तर यह है कि ॥ २४ ॥

न कल्पनाविरोधः प्रमाणदृष्टस्य ॥ २५ ॥

जो वस्तु प्रमाणमें सिद्ध है उस वस्तुका कल्पना करना न्याय विरुद्ध है नहीं हो सकता, क्योंकि महदादिकोंमें जो गुण है वह महदादिकोंके कार्योंमें भी दिखाई पड़ते हैं तब प्रत्यक्षादि प्रमाणोंमें जो सिद्ध है वह न्यायविरुद्ध नहीं। वास्तव में मन एक है उसहीकी शक्ति भेदमें दृश्य इन्द्रिया अपन अपन कार्यरूपमें प्रवृत्त होती है यह बात अगले सूत्रमें कहते हैं ॥ २५ ॥

### उभयात्मकं मनः ॥ २६ ॥

ज्ञान इन्द्रिय और कर्म इन्द्रिय इन दोनों प्रकारके इन्द्रियोंसे मनका सम्बन्ध है अर्थात् मनके बिना कोई इन्द्रिय अपने कार्य में प्रवृत्त नहीं हो सकती । अब उक्त सूत्रका अर्थ इस सूत्रसे विस्तरसे कहते हैं ॥ २६ ॥

### गुणपरिणामभेदान्नानात्वसवस्थावत् ॥ २७ ॥

गुणोंके परिणाम भेदमें एक मनकी अनेक शक्ति इस प्रकार होती है जैसे एकही मनुष्य जैसे मनुष्यके माथ रहने उसमें वैसेही गुण आजाते हैं यथा कामिनीके मङ्गमें कामी, विरक्तके मङ्गसे विरक्त होता है एव मनभी चक्षु, आदि जिस जिस इन्द्रियसे मग करता है उस इन्द्रियसे एकीभाव (मेल) हो जाता है— अब ज्ञान इन्द्रिय और कर्मन्द्रिय इन दोनोंका विषय कहते हैं ॥ २७ ॥

### रूपादिरसमलान्त उभयोः ॥ २८ ॥

रूपमें आदि लेकर और मलत्याग पर्यन्त ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रियोंके विषय है : जिसके आश्रयसे यह इन्द्रिय कहे जाते हैं उस हेतुको कहते हैं ॥ २८ ॥

### द्रष्टृत्वादिग्रात्मनः करणत्वमिन्द्रियाणाम् ॥ २९ ॥

इन्द्रियाका करणत्व आत्माको है अर्थात् जो इन्द्रियां अपने अपने कार्यमें प्रवृत्त होती हैं वह केवल आत्माको समीपतासे

\*चक्षुका रूप, जिह्वाका रस, घ्राणका गन्ध, त्वचाका स्पर्श, श्रवणों का शब्द, मुखका बचन, हाथका पकडना, चरणोंका गमन, लिङ्गका सूत्रत्यागादि गुदाका पुरीषत्याग, यह दशा इन्द्रियोंके दश विषय हैं ।

होती हैं और आत्माके मानिध्यसे ( समीपतासे ) देखना आदि कार्य इन्द्रियां कर सकती है इससे आत्माकी परिणामित्व नहीं आसकता क्योंकि जैसे चुम्बककी समीपतासे लोहा खिच आता है इसी भांत आत्माकी समीपतासे इन्द्रियोंमें देखना आदि उत्पन्न होता है । अब अन्तःकरणकी वृत्तियोंको कहते हैं ॥२८॥

त्रयाणां स्वान् लक्षणम् ॥ ३० ॥

महत्त्व अहङ्कार और मन यह तीनों अपनी अपनी असाधारणी वृत्तिवाले हैं क्योंकि अन्तःकरणमें महत्त्वके लक्षण ( निश्चय आदि ) और अहङ्कारके लक्षण आत्मानं ( अविदमान गुणोंका आरोप ) और मनका लक्षण ( सङ्कल्प विकल्प ) यह तीनों अन्तःकरणके असाधारण धर्म हैं यही बात पूर्वभी कह आये हैं कि निश्चयका नाम बुद्धि अभिमानका नाम अहङ्कार, सङ्कल्प विकल्पका नाम मन है, अब उक्त तीनोंकी साधारणी वृत्ति कहेंगे ॥ ३० ॥

सामान्यकरणवृत्तिः प्राणाद्या वायवः पञ्च ॥ ३१ ॥

प्राणादि रूप पांच वायु अन्तःकरणकी साधारणी वृत्ति है अर्थात् प्राण ( जो हृदयमें रहता है ) अपान ( जो गदामें रहता है ) उदान जो ( कण्ठमें रहता है ) समान ( जो नाभिमें रहता है ) व्यान ( जो सर्वशरीरमें रहता है ) यह अन्तःकरणके परिणाम भेद है और जो बहुतसे प्राण और वायुको एक समझते हैं उनका मिथ्यान्त इस कारण अयुक्त है कि “एतस्माज्जायते प्राणः मनः सर्वेन्द्रियाणि च, खम्बायुर्ज्योतिरापञ्च पृथ्वी विश्वस्य धारिणी” इसमें प्राण और वायुको जुटा जुटा कहा है अब

आचार्य अपने सिद्धान्तकी प्रकट करते हैं कि जैसे वैशेषिकवाले इन्द्रियोंकी वृत्ति क्रमसे ( एककालमें एक ही इन्द्रिय कार्य करेगा ) मानते हैं उसे अयुक्त सिद्ध करते हैं ॥ ३१ ॥

क्रमशोऽक्रमशश्चेन्द्रियवृत्तिः ॥ ३२ ॥

इन्द्रियोंकी वृत्तिक्रमसे भी होती है और अक्रमसे भी होती है क्योंकि लोकमें देखा जाता है कि “एक आटमी पानी पीता हुआ देखता भी है” । बुद्धिकी वृत्तियांही मसारका निदान है अर्थात् जन्ममरणादिक बुद्धिकी वृत्तिरामे ही होता है यही कहते हैं ॥ ३२ ॥

वृत्तयः पञ्चतथ्यः क्लिष्टाक्लिष्टाः ॥३३॥

प्रमाण ( प्रत्यक्षादि ) विपर्यय ( मिथ्याज्ञान ) विकल्प ( मन्देह ) निद्रा ( सोना ) स्मृति ( यादकरना ) यह बुद्धिकी पाच वृत्ति सुख और दुःखकी देनेवाली है । जब बुद्धिकी वृत्तियां निवृत्त होती हैं तब पुरुषकी स्वरूपमें स्थिति होती है इसे अगले सूत्रमें कहते हैं ॥ ३३ ॥

तन्निवृत्तावृषणान्तोपरागः स्वस्थः ॥३४॥

बुद्धिवृत्तियां निवृत्त हो जाने पर पुरुषका उपराग शान्त हो जाता है और पुरुष स्वस्थ होता है ऐसी योग सूत्रमें भी कहा है जब चित्तकी वृत्तियोंका निरोध होता है तब दृष्टा ( पुरुष ) अपने स्वरूपमें स्थित होता है ॥ पुरुषका स्वस्थ होना यही है कि उसके उपाधि रूप प्रतिबिम्बका निवृत्त हो जाना, यही दृष्टान्तसे प्रकट करते हैं ॥ ३४ ॥

कुमुभवञ्चमणिः ॥ ३५ ॥

जैसे स्फटिकमणिमें रक्तादि पृष्ठीका प्रतिबिम्ब पडनेसे रक्तादि रंग होते हैं और पृष्णआदि अलग करनेसे स्वच्छस्फटिक रह जाता है वैसेही बुद्धिकी वृत्तियोंके निवृत्त होनेमें पुरुषराग रहित और स्वस्थ होता है—अब यहां यह शङ्का होती है कि यह इन्द्रियां किसके प्रयत्नसे स्व, स्व, कार्य्योंमें प्रवृत्त होती हैं ? क्योंकि पुरुषतो कूटस्थ (निर्विकार) है, और ईश्वरमें इन्द्रियोंका कुछ सम्बन्धही नहीं है, इसका उत्तर यह है कि । ३५ ॥

पुरुषायं करणोद्भवोऽप्यदृष्टोक्त्वामात् ॥ ३६ ॥

पुरुषके लिये इन्द्रियोंकी प्रवृत्ति भी उसी कर्मके वशसे है जो कि पूर्व प्रकृतिकी प्रतिपादन कर चुके हैं और इसका दृष्टान्त ऊपरके सूत्रमें दे चुके हैं कि सयोगमें जैसे एकका गुण दूसरेमें प्रतीत होता है उसी भांति प्रकृतिका कर्म पुरुष संयोग से है वही इन्द्रियोंकी प्रवृत्तिमें हेतु है, इस सूत्रमें 'अपि'शब्दसे पूर्वोक्त प्रकृतिका स्मरण टिन्नाकर पुरुषकी कर्ममें कुछ अंशमें सूक्त किया है, और फिरभी इसी पक्षको पुष्टकरनेके निमित्त दृष्टान्त देंगे । दूसरेके लिये भी अपने आप प्रवृत्ति होती है इसमें दृष्टान्त कहते हैं ॥ ३६ ॥

धनुवद्वत्माय ॥ ३७ ॥

जैसे बरूडके लिये गौ अपने आप दुग्ध उत्तार देती है । दूसरेके प्रयत्नकी अपेक्षा नहीं करती, इसी भांति अपने स्वामी (पुरुष) के लिये इन्द्रियों कि प्रवृत्ति अपने आप होती है ।

अब यह प्रश्न होता है कि इन्द्रिय वाह्य (बाहरके) और आन्तरिक (भीतरके) कितने हैं इसका उत्तर यह है कि ॥ ३७ ॥

करणं त्रयोदशविधमवान्तरभेदात् ॥ ३८ ॥

अवान्तरभेदसे इन्द्रिय तेरह प्रकारके हैं अर्थात् पांचकमेंन्द्रिय, पांच ज्ञानेन्द्रिय, मन, बुद्धि, और अहकार, अवान्तर कहनेसे यह प्रयोजन है कि बुद्धिही सर्व इन्द्रियोंमें मुख्य है—अब यहाँ यह शङ्का होती है कि पुरुषके लिये इन्द्रियोंकी प्रवृत्तिमें बुद्धिही मुख्य इन्द्रिय है अन्य इन्द्रिय गौण है तो बुद्धिमें वह मुख्यत्व कौनसा है इसका उत्तर यह है कि ॥ ३८ ॥

इन्द्रियेषु साधकतमत्वगुणयोगात् कुठारवत् ॥ २६ ॥

जैसे लकड़ीके काटनेमें प्रहार ( मारना ) मुख्य कारण है और कुठार उसका (काटनेका) मुख्य साधन है इसी भाँति इन्द्रियोंमें करणत्व और बुद्धिमें साधकतमत्व ( जिसके बिना कदापि कार्यसिद्ध न हो ) का योग है—अब रहा यह सन्देह कि अहङ्कारको भी जब इन्द्रियोंका अन्वयी (मिलनेवाला) कहा तो बुद्धिको मुख्य कारण नहीं कह सकते, इसका उत्तर यह है कि ॥ ३९ ॥

द्वयोः प्रधानं मनो लोकवहृत्यवर्गेषु ॥ ४० ॥

दोनोंमें बुद्धिही प्रधान है क्योंकि लोकमें भी यही देखा जाता है कि जैसे राजाके बहुतसे नोकरोंमें से मन्त्री एकही होता है, और छोटे छोटे ग्रामाध्यक्ष ( जमीदार ) अनेक होते

हैं इसी भांति बुद्धि प्रधान और अन्य गौण हैं। तीन सूत्रोंसे बुद्धि को प्रधान होनेमें हेतु कहते हैं कि ॥ ४० ॥

अव्यभिचारात् ॥ ४१ ॥

यद्यपि बुद्धि सब इन्द्रियोंमें व्यापक है तो भी अपने कार्यमें उसका अव्यभिचार ( निश्चय ) दिखाई पड़ता है ॥ ४१ ॥

तथा शेषसंस्काराधारत्वात् ॥ ४२ ॥

बुद्धिही मपूर्ण संस्कारों को धारण करती है। यदि चक्षुआदि वा अहङ्कार वा मनको प्रधान ( मुख्य ) कहे तो अन्ध और अधिरेणको स्मरणशक्ति न हानी चाहिये, तत्त्वज्ञानके समयमें अहङ्कार और मनका लयभी होजाता है तो भी स्मरण शक्ति बनी रहती है जो कि बुद्धिका धर्म है ॥ ४२ ॥

स्मृत्यानुमानाच्च ॥ ४३ ॥

स्मृति अर्थात् चिन्तनरूपा वृत्तिका प्रधान अनुमान बुद्धिसे ही होता है क्योंकि चिन्तावृत्ति ( ध्यानकी एक अवस्था ) संपूर्ण अवस्थाओंमें श्रेष्ठ है—इस सूत्रसे विदित होता है कि कपिलाचार्य चिन्त और बुद्धिको एकही मानते हैं और अन्यमतवादियों की भांति मन, बुद्धि, चित्त, अहङ्कार इन चारोंको अन्तःकरण चतुष्टय नहीं मानते—अब यह गड़वा होती है चिन्तावृत्ति पुरुषही की क्यों न मानली जाय ? इसका उत्तर यह है कि ॥ ४३ ॥

सम्भवेन्न स्वतः ॥ ४४ ॥

पुरुषको अपने आप स्मृति नहीं हो सकती क्योंकि पुरुष

कूटस्थ है—इस सूत्रका दूसरा अर्थ यह भी हो सकता है कि [कोई शङ्का करे कि जब बुद्धिको कारण ( मुख्य इन्द्रिय ) कहते हैं तो अन्य इन्द्रियोंसे क्या प्रयोजन इसके उत्तरमें यह सूत्र है कि । ] बिना नेत्रादिके बुद्धि अपना कोई कार्य नहीं कर सकती यदि नेत्रादि बिना भी बुद्धि अन्य इन्द्रियोंका कार्य कर सकती तो अन्य पुरुष भी देख सकता, क्योंकि उसके भी बुद्धि होती है परन्तु ऐसा लोकमें नहीं देखाजाता इससे सिद्ध है कि बुद्धि मुख्य इन्द्रिय और सब गौण इन्द्रिय है । अब यह शङ्का होती है कि जो बुद्धिको ही प्रधानता कहते हैं तो पूर्वसूत्रोंमें मनको उभयात्मक क्या माना इसका उत्तर यह है कि ॥ ४४ ॥

आपेक्षिको गुणप्रधानभावः क्रिया—विशेषात् ॥ ४५ ॥

क्रियाकी न्यूनाधिकता हेतुसे गुणोंका भी प्रधानभाव (बहुपन) एक दूसरेकी अपेक्षा (वनिस्वत) से होता है जैसे चक्षु आदिके व्यापारमें मन प्रधान, मनके व्यापारमें अहङ्कार प्रधान, अहङ्कारके व्यापारमें बुद्धि प्रधान है— यहाँ सन्देह होता है कि पुरुषकी प्रधान इन्द्रिय बुद्धिही है और कई नहीं यह व्यवस्था क्यों है ? इसका उत्तर यह कि ॥ ४५ ॥

तत्कर्मार्जितत्वात् तदर्थमभिचेष्टा लोकावत् ॥ ४६ ॥

जसे लोकमें देखा जाता है कि जो पुरुष कुठार खरी— दता है उस कुठारके व्यापारसे फलभी खरीदनेवाले को होता है इसी भाँति बुद्धिभी पुरुष कर्मार्जित है अतएव बुद्धि आदि का फल पुरुषको मिलता है, अतएव बुद्धिही पुरुषका मुख्य



इन्द्रिय गिना जाता है यह समाधान पूर्वभी कह चुके हैं कि पुरुष कर्म रहित है परन्तु उसमें राजाकी जय पराजय की भांति आरोपित किया जाता है अब बुद्धिकी प्रधानता प्रकट करके अध्यायको समाप्त करते हैं ॥ ४६ ॥

समानकर्मयोगे बुद्धेः प्राधान्य लोकवल्लोकवत् ॥४७॥

यद्यपि पुरुषका सब इन्द्रियोंके साथ समान कर्म योग है तथापि बुद्धिकी प्रधानता है जैसे एक राजाकी सभी प्रजा है किन्तु ग्रामाध्यक्ष (जमींदार) की अपेक्षा मन्त्रीकी प्रधानता है यह लोकके समान दृष्टान्त यहाभी समझना चाहिये, लोक वत्का दो बार कथन अध्याय समाप्तिके निमित्त है। इस अध्यायमें प्रकृतिका कार्य प्रकृतिकी सूक्ष्मता, द्विविध इन्द्रिय, अन्तः-कारण आदिका वर्णन किया गया है ॥ ४७ ॥

इति सांख्यदर्शने द्वितीयोऽध्यायः ।

## अथ-तृतीयोऽध्यायः ।



इस अध्यायमें प्रकृतिका स्थूलकार्य महाभूत (पृथिवीआदि) और दो प्रकारके शरीरका वर्णन करेंगे ।

अविशेषाद्विशेषारम्भः ॥ १ ॥

जिससे छोटी कोई वस्तु न होसके ऐसे भूतसूक्ष्म (पञ्चतन्मात्रा) से विशेष (स्थूल महाभूतों)का आरम्भ है क्योंकि सुखादिकों का अनुभव स्थूलभूताहीमें होता है और सूक्ष्मभूत तो सदैव योगिचित्तमें आभासित होते रहते हैं ॥ १ ॥

तस्माच्छरीरस्य ॥ २ ॥

जिन तेईस तत्वोंका वर्णन पूर्व करचुके है उन्हींसे स्थूल और सूक्ष्म शरीरोंकी उत्पत्ति है । अब तेईसतत्वोंके बिना संसार की उत्पत्ति नहीं हो सकती है इसी आशयसे अगलमें कहते हैं ॥ २ ॥ \*

---

\* पाठकोंको स्मरण रहै कि मनुष्यादिकोंके शरीरको शास्त्रकार स्थूल कहके पुकारते हैं, मन, बुद्ध्यादि और जिसके द्वारा सब इन्द्रिय अपने अपने कार्यमें प्रवृत्त होते है वह लिङ्ग शरीर कह्यता है, अथच सूक्ष्म शरीर इस लिङ्ग शरीरका कारण है यह सब बातें वक्ष्यमाण सूत्रोंमें भली भांति जानी जावेगी ।

उपभोगादितरस्य ॥ ५ ॥

इतर जो अविवेक उसके उपभोगसे अर्थात् जब अविवेक का भोग पूरा होजाता है तब महाप्रलय होता है, जब अविवेकका भोगही शेष न रहा तब सूक्ष्म भूत इस शरीरको उत्पन्न ही क्यों करे'गे ? महाप्रलयावस्थामें कर्मका भोगही नष्ट होजाता है वासना तो बनीही रहेगी क्योंकि कर्मकी वासना प्रवाहसे अनादि है ॥ ५ ॥

तद्बीजात् संसृतिः ॥ ३ ॥

शरीरके कारण जो तर्कमतत्व उन्हींसे मसारकी उत्पत्ति होती है। अब मसारकी अवधि भी कहते हैं ॥ ३ ॥

आविवेकाच्च प्रवर्त्तनमविशेषाणाम् ॥ ४ ॥

अविशेषकी (सूक्ष्म भूताकी सृष्टि) प्रवृत्ति तभी तक रहती है जब तक कि विवेक (ज्ञान) नहीं होता विवेक होतही सूक्ष्म भूतोंकी प्रवृत्ति नहीं रहती। अब यह सदेह होता है कि यदि अविवेकी हीके लिये सृष्टिका आरम्भ हो तो महाप्रलयमें भी सृष्टिका आरम्भ होना चाहिये क्योंकि वहां भी अविवेक बना रहता है। इसका उत्तर यह है कि ॥ ४ ॥

सम्प्रति परिमुक्तो दाभ्याम् ॥ ६ ॥

सृष्टिकालमें पुरुष दोनों (वासना और भोग) से बद्ध होता है। इस सूत्रका अर्थ जो विज्ञान भिन्नुने "पुरुषको देहके होते भी संसारमें भोग नहीं है" ऐसी अवतरणिका करके "संसारकालमें

पुरुष सुख दुःखसे मुक्त है” ऐसा किया है वह इस कारण अयुक्त है कि पूर्वाध्यायके सूत्रोंमें पुरुषको भोक्तृत्वादि विशेषण दे आये हैं तो यहां पर अभोक्ता कहना असङ्गत होगा, दूसरे सप्ताहकालमें ही पुरुषको सुख दुःख न होगा तो क्या मुक्तावस्था में कहा जायगा ? और जो सुखदुःख ही नहीं तो मुक्तिका यत्र ही कौन करेगा ? तीसरे परिमुक्त शब्दका अर्थ मुक्तकरना भी असङ्गत है यहां परिमुक्त शब्दका अर्थ बद्ध करना उचित है । अब स्थूल और सूक्ष्म दोनों शरीरोंके भेद कहते हैं ॥ ६ ॥

मातापितृजं स्थूलं प्रायश इतरन्न तथा ॥ ७ ॥

स्थूल शरीर दो प्रकारके होते हैं एक योनिज दूसरे अयोनिज, बहुतसो जगह स्थूलशरीर माता पितासे ही उत्पन्न होता है, और वर्षा आदि ऋतुओंमें अयोनिजभी स्थूलशरीर होता है जैसे वीरवहूटो दूसरा सूक्ष्म शरीर है वह माता, और पितासे उत्पन्न नहीं होता । पुरुषमें जो सुखदुःखादिक है वह स्वभावसे स्थूल, लिङ्ग, सूक्ष्म शरीरकी उपाधिसे है उसका निर्णय करते हैं ॥ ७ ॥

पूर्वोत्पत्तस्तत्कर्यत्वं भोगादेकस्य नेतरस्य ॥ ८ ॥

लिङ्ग शरीरकी उपाधिसेही पुरुषको सुखदुःखादि है क्योंकि सर्ग (सप्ताह) की आदिमें लिङ्गशरीरकी उत्पत्ति है इससे सुखादिक इसके कार्य है तो एक लिङ्ग शरीरकी उपाधिसे ही पुरुषको सुखादिक हैं और स्थूल शरीरकी उपाधिसे नहीं क्योंकि जब स्थूल शरीर मृत होजाता है तब सुखादिका अभाव होता है—अव्यक्त सूक्ष्मशरीरका स्वरूप कहते हैं ॥ ८ ॥

### सप्तदशैकं लिङ्गम् ॥ ८ ॥

५ ज्ञानेन्द्रिय, ५ कर्मेन्द्रिय, मन १, पञ्चतन्मात्रा—(रूप, रस, गन्ध स्पर्श, शब्द) अहङ्कार और एक बुद्धि यह सूक्ष्म शरीर है ॥ इस सूत्रका अर्थ विज्ञानभिक्षु इमतरह करते हैं कि सप्तदश(बुद्धि आदि सतरह)एक लिङ्ग शरीर है—उन्हींनि अहङ्कारको बुद्धिके अन्तर्गत माना है वह इस कारण अयुक्त है कि अहङ्कार को बुद्धिके अन्तर्गत माना तो मन भी बुद्धिके अन्तर्गत माना जायगा फिर सोलह ही रह जायगे, पर वैसा नहीं ही सकता है—अब यह प्रश्न होती है कि यदि लिङ्ग शरीर एक ही ही तो अनेक शरीरों की आकृतिमें भेद क्या होता है ? इसका उत्तर यह है कि ॥ ८ ॥

### व्यक्तिभेदः कर्म विशेषान् ॥ १० ॥

स्थूलशरीर अनेक तरहके अनेक कर्मोंसे है—इससे यह सिद्ध होता है कि जीवोंके भोगका हेतु कर्मही है। अब यहाँ यह प्रश्न होती है कि भोगोंके स्थान लिङ्ग शरीरको ही शरीरत्व हो तो स्थूलको कैसे शरीर कहते हैं इसका उत्तर यह है कि ॥१०॥

### तदधिष्ठानाश्रये देहे तद्वादात् तद्वादः ॥ ११ ॥

पञ्चभूतात्मक शरीरमें उस लिङ्ग शरीरका अधिष्ठान (रहनेकी जगह) के कारण देहवाद है। अर्थात् लिङ्ग शरीरका आश्रय-स्थूल शरीर होनेसे स्थूल शरीरको भी शरीर कहते हैं, जैसे

प्रेसके रहनेकी जगहकी भी प्रेस कहते हैं । अब यह संदेह हीता है कि स्थूलशरीर लिङ्ग शरीरसे जुदा है इसमें क्या प्रमाण है ? इसका उत्तर यह है कि ॥ ११ ॥

न स्वातन्त्र्यात् तदृते ह्यावावच्चित्रवच्च ॥१२॥

वह लिङ्ग शरीर बिना किसी आश्रय के नहीं रहसकता है, जैसे बिना किसी आश्रयके किसी पदार्थकी छाया नहीं रहती किन्तु उस छायाका आधार अवश्य होना चाहिये, जैसे चित्र (तस्वीर) बिना किसी आधारके नहीं खिंच सकता, इसी भांति स्थूलशरीर के बिना लिङ्ग शरीर नहीं ठहर सकता—अब यहां यह संदेह होता है कि यदि लिङ्गशरीर मूर्त्त द्रव्य है तो पवन आदिकी समान उसका भी आधार आकाश क्यों न मान लिया जाय, अन्यत्र कल्पना करनेसे क्या प्रयोजन है ? इसका उत्तर यह है कि ॥ १२ ॥

मूर्त्तत्वेऽपि न सङ्घातयोगात् तरणिवत् ॥१३॥

लिङ्ग शरीरके मूर्त्तत्व होने पर भी वह बिना किसी अवस्थानके नहीं रह सकता, जैसे सम्पूर्ण तेजोका समुदाय बिना पार्थिव द्रव्य के आधारके नहीं ठहर सकता, इसी भांति लिङ्ग शरीरभी बिना किसी आधारके नहीं रह सकता अब लिङ्ग शरीरका परिमाण बताते हैं ॥ १३ ॥

अणुपरिमाणां तत् कृतिश्रुतेः ॥१४॥

वह लिङ्ग शरीर अणुपरिमाण अर्थात् ठका हुआ है अत्यन्त अणु नहीं है क्योंकि अत्यन्त अणु निरव्यव होता है और लिङ्ग

शरीर सावयव है इसका कारण यह है कि इस लिङ्ग शरीरके कार्य्य सुनाई पडते है। इसी पञ्चको पुष्ट करनेके निमित्त प्रत्युत्तर कहते है ॥ १४ ॥

तदन्नमयत्वश्रुतेश्च ॥१५॥

वह लिङ्ग शरीर अन्नमय है अतएव अनित्य है इसमें यह श्रुति प्रमाण है कि "अन्नमयं हि मोक्ष्य । मन, आपोमयः प्राणस्तेजो-मयी वाक् इत्यादि (हे सौम्य । मन अन्नमय है, प्राण जलमय है, वाणी तेजमयी है) यद्यपि मन आदिक कार्य्य भौतिक नहीं है तोभी अन्यके संगमसे इनमें घटना बढना दिखाने देता है इसी से मन को अन्नमय कहते हैं। अब यह सन्देह होता है कि यदि लिङ्ग शरीर अचेतन है तो उसकी अनेक शरीरों के लिये उत्पत्ति क्या है ?— इसका उत्तर यह है कि ॥ १५ ॥

पुरुषार्थं संसृतिर्लिङ्गानां सूपकारवद्राज्ञः ॥१६॥

लिङ्ग शरीर की उत्पत्ति पुरुष के लिये है जैसे रसोदयाका पाकयान्त्रमें जाना राजाके लिये है। वैसेही लिङ्ग शरीरका होना पुरुषके वास्ते है— लिङ्ग शरीर का सम्पूर्ण विचार कर चुके अब स्थूल शरीर कोभी कहते है ॥ १६ ॥

पाञ्चभौतिको देहः ॥१७॥

यह शरीर पाच भौतिक कहा जाता है \* अन्यमत कहते है ॥ १७ ॥

\* इसका विशेष विचार पञ्चम अध्यायमें करेगे अतएव यहाँ सविस्तर नहीं लिखा ।

### चातुर्भौतिकमित्येके ॥१८॥

और कोई कहते हैं कि चार भूतोंका ही स्थूल शरीर है क्योंकि आकाश निरवयव है अतएव वह किमोके साथ विकाकारको प्राप्त नहीं हो सकता ॥१८॥

### एकभौतिकमित्यपरे ॥१९॥

और कोई कहते हैं कि एक भौतिकही है । अर्थात् शरीर पार्थिव है और भूत सब नाम मात्र है, अथवा यों समझना चाहिये कि एक एक भूतके सब शरीर है अर्थात् मनुष्यादिके शरीरोंमें पार्थिवांश अधिक है अतएव इस शरीरको पार्थिवता और सूर्यलोक वासियोंमें तेज अधिक है इससे उनका शरीर तेजस है । अब इस मन्देहको दूर करते हैं कि देह स्वभावसे चैतन्य नहीं है ॥ १९ ॥

### न सांमिद्धिकं चैतन्य प्रत्यकार्ष्येः ॥२०॥

जब पृथिव्यादि पञ्च भूतोंको पृथक् पृथक् करके देखते हैं तब उनमें चैतन्यता दिखाई नहीं पड़ती इसीसे सिद्ध है कि देह स्वभावसे चैतन्य नहीं है किन्तु किसी दूसरे (चैतन्य) के संसर्गसे चैतन्य है ॥ २० ॥

### प्रपञ्चमरणाद्यभावश्च ॥२१॥

देहका स्वभावसे चैतन्य माननेमें एक दोष यह भी होगा कि प्रपञ्च, मरण, सुषुप्ति, आदि जुदी जुदी अवस्थाएँ नहीं हो सकेंगी, क्योंकि जो देह स्वभावसे चैतन्य है तो अत्युत्कृष्टमें



इसकी चेतनता कहां चला जाती है। पूर्व सूत्रमें जो यह कहा कि प्रत्येक भूतके पृथक् पृथक् करने पर चेतनता नहीं दिग्वाई देती इस पक्षको अगले सूत्रसे पुष्ट करते हैं ॥ २१ ॥

मदशक्तिवच्चेत् प्रत्येकपरिदृष्टे मांहत्ये तदुद्भवः ॥२२॥

यदि मदिराकी शक्तिके समान मानो जैसे कि अनेक पदार्थोंके मिलनेसे मादकता शक्ति उत्पन्न हो जाती है इसी भांति पांच भूतोंके मिलनेसे शरीरमें चैतन्य शक्ति उत्पन्न हो जाती हो तो इसका उत्तर यह है कि मदिरामें जो मादक शक्ति दिग्वाई पडती है वह उन पदार्थोंमेंभी है जिनमें मदिरा बनी है, अतएव यह दृष्टान्त ठीक नहीं हो सकता, यदि यह कहोकि प्रत्येक भूतमें थोड़ी थोड़ी चेतनताथी और सब मिल कर बड़ी चेतनता हो गई तो इससे बहुतभी चैतन्य—शक्ति कल्पना करनेमें गौरव होगा, इस लिये एकही चैतन्यशक्ति माननी चाहिये। पहले जो यह कह आये है कि 'निङ्ग शरीर की संसृति(सृष्टि) पुरुषके लिये है और निङ्ग शरीरका स्थूल शरीरमें सञ्चारभी पुरुषके लिये है' उमका प्रयोजन अब कहते हैं जो कि अत्यन्त पुरुषार्थका हेतु है ॥ २२ ॥

ज्ञानान्मुक्तिः ॥२३॥

निङ्ग शरीर जो बुद्धि आदि उनसे विवेक उत्पन्न होता है और विवेकसे मुक्ति होती है ॥ २३ ॥

वन्धोविपर्ययात् ॥ २४ ॥

विपर्यय अत्रे अबिवेक उससे सुखदुःखात्मक बन्ध होता है।

ज्ञान और अज्ञानसे मुक्ति और बन्ध कह चुके अब मुक्तिका विचार करते हैं ॥ २४ ॥

नियतकारणात्वात् समुच्चयविकल्पौ ॥२५॥

ज्ञानहीसे मुक्ति होती है अतएव मुक्तिका नियत कारण ज्ञान है इससे मुक्तिमें ज्ञान और कर्म दोनों हेतु नहीं होसकते और न मुक्तिमें इसबातका विकल्प है कि 'ज्ञानसे मुक्ति हुई' वा 'कर्मसे' क्योंकि इसका तो ज्ञानही नियत कारण है । अब इसी बातको अगले सूत्रसे पृष्ट करते हैं ॥ २५ ॥

स्वप्नजागराभ्यामिव मायिकामायिकाभ्यां

नोभयोर्मुक्तिः पुरुषस्य ॥२६॥

जैसे स्वप्न और जागृत इन दोनोंमेंसे पहला तो भूँठा है और दूसरा सत्य है अतएव यह दोनों परस्पर विरुद्ध धर्मवाले होनेके कारण एक कालमें नहीं रहसकते इसी प्रकार ज्ञान और कर्मभी एककाल में नहीं रहसकते बस इसीसे सिद्ध होगया कि विरुद्ध धर्मवाले पदार्थ न तो मिल सकते हैं, और न मुक्तिका हेतु होसकते है, और न इस विषय पर विकल्प करना चाहिये कि 'किससे मुक्ति होती है' क्योंकि मुक्तिका नियत कारण ज्ञान है और "न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैकेऽमृतत्वमानशः" (कर्मसे सन्तानसे धनसे त्यागसे किन्हींमें अमृतत्व नहीं पाया है ) इत्यादि श्रुतियां भी कर्मको मुक्तिका अहेतु प्रतिपादन करती है । अब यहां पर यह मन्देह होता है कि यदि कर्मका कुछभी फल नहीं तो उसका

करनाभी व्यर्थ है तब इस पर आचार्य यह सम्मति प्रकाशित करते हैं ॥ २६ ॥

इतरस्यापि नात्यन्तिकम् ॥२७॥

इतर अर्थात् कर्मका विशेष फल नहीं है किन्तु सामान्यही फल है इस सूत्रमें 'इतर' शब्दसे कर्मका ग्रहण इसलिये होसकता है कि इस प्रकरणमें ज्ञानसे मुक्ति होती है कर्मसे नहीं इसीका प्रतिपादन करते चले आते हैं अतएव ज्ञानके अतिरिक्त कर्मही का ग्रहण हो सकता है, यदि यह कहाजावे कि ज्ञानके अतिरिक्त अज्ञानका ग्रहण क्यों न हो सोभी ठीक नहीं क्योंकि इस सूत्रमें आचार्यका "अपि" और "नात्यन्तिक" शब्द कहना कर्मके न्यून फलकाद्योक्त है जब इतरसे अज्ञानका ग्रहण किया जावे तो यह अर्थ होगा कि "अज्ञानका थोड़ा फल है बहुत नहीं" इससे थोड़े फलका आकाङ्क्षी अज्ञानको ही उत्तम समझ सकता है अतएव ऐसा अनर्थ करना ठीक नहीं। इससे आचार्य ने कर्मकी अपेक्षा ज्ञानको उत्तम प्रतिपादन किया है। योगीके सङ्कल्प सिद्ध पदार्थ भी मिथ्या नहीं है यह बात अगले सूत्रसे प्रतिपादन करते हैं ॥ २७ ॥

सङ्कल्पितेष्वप्यवम् ॥ २८ ॥

योगीके सङ्कल्प किये हुए पदार्थ भी इसी प्रकार ( अर्थात् सच्चे) हैं। अब यहां यह सन्देह होता है कि जब योगीके सङ्कल्पित पदार्थों का कोई भी कारण प्रत्यक्ष नहीं दीखता तो वह मिथ्या क्यों नहीं है ? तब इसका उत्तर यह है कि ॥२८॥

## भावनोपचयाच्छुद्धस्य सर्वं प्रकृतिवत् ॥२६॥

प्राणायामादिकीसे योगियोंकी भावना अथात् ध्यान अधिक होता है इसीसे सब पदार्थ सिद्ध हैं उनमें प्रत्यक्ष कारण देखनेकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम लौगिक समान योगियोंके सङ्कल्प मिथ्या नहीं होते, जैसे प्रकृति बिना किसीका सहारा लिये महदादिकों की करती है और उसमें प्रत्यक्ष कारण की आवश्यकता नहीं पड़ती इसी भाँति योगीका ज्ञान भी जानना चाहिये। इन पूर्वोक्त सूत्रोंसे यह बात सिद्ध हो चुकी कि ज्ञान ही मोक्षका साधन है अब ज्ञान किस प्रकार होता है इस बातको अगले सूत्रोंमें प्रतिपादन करते हैं ॥२६॥

### रागोपहृतिध्यानम् ॥३०॥

रजोगुणके कार्य जो विषय वासनादिक ज्ञानके रोकनेवाले हैं उनका जिस हेतुसे नाश होजाय उसे ध्यान कहते हैं, यहां ध्यान शब्दसे धारणा ध्यान और समाधि त्नीनाका ग्रहण समझ लेना चाहिये क्योंकि पातञ्जलमें योगके आठ अङ्गोंकी विवेक साक्षात्में हेतुमाना है इनके अवान्तर भेदभी उसी शास्त्रमें विशेष मिलेगे शेष पांच साधनोंको आचार्य स्वयं कहेंगे। अब ध्यानकी सिद्धिके लक्षणोंको कहते हैं ॥ ३० ॥

### वृत्तिनिरोधात् तत्सिद्धिः ॥३१॥

जिसका ध्यान किया जावे उसके अतिरिक्त वृत्तियोंके निरोधसे, अर्थात् सम्प्रज्ञात \* योगसे उसकी सिद्धि जानीजाती

\* सम्प्रज्ञात योगका लक्षण व्यासजीने इस प्रकार कहा है कि—“साक्षात्कारयुक्तं कायकाले सम्प्रज्ञातयोगः” (साक्षात्कारसे युक्त एकाग्र अवस्थामें सम्प्रज्ञा योग होता है।)

है और ध्यान तबतकही करना चाहिये जबतक कि ध्येय ( जिसका ध्यान किया जाता है ) के सिवाय दूसरेकी, औरको चित्तवृत्ति न जावे । अब ध्यानके साधनको कहते हैं ॥ ३१ ॥

धारणासनस्वकर्मणा तार्त्सिद्धिः ॥ ३२ ॥

धारणा, आसन, और अपने कर्मसे ध्यानकी सिद्धि होती है । प्रथम धारणाका लक्षण करते हैं ॥ ३२ ॥

निरोधश्छर्दिविधारणाभ्याम् ॥ ३३ ॥

छर्दि (वमन) और विधारण (त्याग) अर्थात् प्राणका पूरण, रचन, और कुम्भकसे निरोध (वशमे रस्वने) को धारणा कहते हैं । यद्यपि इस सूत्रमें धारणा शब्दका उच्चारण आचार्योंने नहीं किया तथापि अगले दो सूत्रोंमें आसन और स्वकर्मका लक्षण किया है इसी परिशेषमें इस सूत्रमें धारणा शब्दका अध्याहार कर लिया जाता है जैसे पाणिनिने भी लाघवके लिये 'सूत्रशेषे च' आदि सूत्र कहते हैं । अब आसनका लक्षण करते हैं ॥ ३३ ॥

स्थिरसुखमामनम् ॥ ३४ ॥

जो स्थिर होजाने पर सुखका साधन हों उसे आसन कहते हैं । जैसे स्वस्तिका (पालकी) आदि स्थिर होने पर सुखके साधन होते हैं तो वही आसन कह जासकते हैं किसी विशेष पदार्थका नाम आसन नहीं है । अब स्वकर्मका लक्षण करते हैं ॥ ३४ ॥

### स्वकर्म स्वाश्रमविहित-कर्मानुष्ठानम् ॥ ३५ ॥

जो कर्म अपने आश्रमके लिये विहित हैं उनके अनुष्ठान को स्वकर्म कहते हैं यहां पर कर्मशब्दसे यम, नियम, और प्रत्याहार इन \* तीनोंका ग्रहण करना चाहिये क्योंकि इनका सबवर्णोंके लिये समान सम्बन्ध है और इनको योगशास्त्रमें योगका अङ्ग तथा ज्ञानका साधनभी लिखा है। अब और भी ज्ञान प्राप्तिके उपायोंको कहते हैं ॥ ३५ ॥

### वैराग्यादभ्यासाच्च ॥ ३६ ॥

सांसारिक पदार्थोंके विराग अथवा धारणादि पूर्वोक्त तीन साधनोंके अभ्याससे ज्ञानकी प्राप्ति होती है, यहां चकार का अर्थ पूर्वार्थका समुच्चय, और आरंभित जो “ज्ञानान् मुक्तिः” इस विषयके प्रतिपादनकी समाप्तिके लिये है। इससे आगे “बन्धो विपर्ययात्” इस पर विचार आरम्भ करते हैं ॥ ३६ ॥

\* इन तीनोंका लक्षण पातञ्जलमें इस प्रकार किया है कि—  
 “तत्राहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्या परिग्रहा यमा” २।३० उक्त आठों अङ्गोंमें से अहिंसा, सत्य, अस्तेय अर्थात् चोरी न करना ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह अर्थात् विषयोंका संग्रह न करना यम हैं ॥ “शौच-सन्तोष तपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमाः” २। ३२। शुद्धि, सन्तुष्ट रहना, स्वकर्मानुष्ठान, वेदादिका पठन, ईश्वर भक्ति ये नियम कहते हैं। “स्वविषयासंप्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः” ॥ २। ५३ ॥ जिसमें चित्त इन्द्रियोंके सहित अपने विषयको त्याग कर ध्यानावस्थित होजाय उसे प्रत्याहार कहते हैं।

विपर्ययभेदाः पञ्च ॥ ३७ ॥

अविद्या अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश यह पांच योगशास्त्रमें कहे हुए बन्धके हेतु विपर्यय ( अज्ञान ) के अवा-  
न्तर भेद हैं ; अनित्य, अशुचि, दुःख, और अनात्ममें, नित्य, शुचि  
सुख और आत्म बुद्धि करनेका नाम अविद्या है । जिसमें,  
आत्मा और अनात्माकी एकता मालूम पड़े “जैसे शरीरके अति-  
रिक्त और कोई आत्मा नहीं” यह बुद्धि होना अस्मिता है ।  
राग, और द्वेषके तो लक्षण प्रसिद्ध ही हैं । मृत्युसे डरनेका  
नाम अभिनिवेश है यह पांचों बातें बहजीवमें होती हैं और  
इनका होना ही बन्धका हेतु है । अब बुद्धिको बिगाड़नेवाली  
अशक्तियोंके भेद कहते हैं ॥ ३७ ॥

अशक्तिरष्टाविंशतिधा तु ॥ ३८ ॥

अशक्ति अठारह प्रकारकी है वह इस प्रकार है कि ग्यारह  
इन्द्रियोंके विघात होजानेसे ग्यारह प्रकारकी, और नौ प्रकारकी  
तुष्टि तथा आठ प्रकारकी मिद्धि इनसे बुद्धिका प्रतिकूल होना  
यह सब मिलकर अठारह प्रकारकी अशक्ति बुद्धिमें होती है ।  
इन्द्रियोंका विघात इस भांति होता है कि कानसे सुनाई न  
देना, त्वचामें कोठ होना, आखोंसे अन्धा होना इत्यादि ग्यारह  
इन्द्रियोंको शक्तियोंका विनष्ट होना तथा तुष्टि आदिके जो भेद  
जिस प्रकार कहे हैं उनसे बुद्धिका विपरीत होना अशक्तिका  
लक्षण है । जब तक बुद्धिमें अशक्ति नहीं होती तब तक अज्ञान  
भी नहीं होता । अब तुष्टिके भेद कहते हैं ॥ ३८ ॥

### तुष्टिर्नवधा ॥ ३६ ॥

तुष्टि नौ प्रकारकी है । इसका पृथक् विवरण आचार्य्य आगे चलकर स्वयं करेंगे अतएव यहां व्याख्या करना व्यर्थ है ॥ ३६ ॥

### सिद्धिरष्टधा ॥ ४० ॥

सिद्धि आठ प्रकारकी है । इसका विवरण भी आगे कहेंगे । अब पूर्वोक्त विपर्य्यय, अशक्ति, तुष्टि, और सिद्धिके भेदोंका विवरण अगले चार सूत्रोंमें करेंगे ॥ ४० ॥

### अवान्तरभेदाः पूर्ववत् ॥ ४१ ॥

विपर्य्यय अर्थात् मिथ्याज्ञानके अवान्तर भेद जो सामान्य-रीतिसे पूर्वाचार्यों ने कहे हैं उन्हें उसी प्रकार समझलेना चाहिये यज्ञा विस्तर भयसे नहीं कहे गये । अविद्यादिकोंके जितने भेद हैं उनका विशेष विवरण विस्तर भयसे हमने भी नहीं किया और यदि कहे जावे तो कारिका कारने अविद्याके वासठ भेद माने हैं जिसमें आठ आठ प्रकारका तम और मोह, दश प्रकारका महामोह, अठारह प्रकारका तामिस्र, और इतनेही प्रकारका अन्धतामिस्र, यह सब मिलकर वासठ प्रकार के हुए यदि इतने प्रकारके भेदोंकी जुदी जुदी व्याख्याकी जावे तो एक पोथा प्रसृत होसकता है परन्तु हमारी सभ्यतिसे इतने भेद मानना और उनकी व्याख्या करना व्यर्थका भगड़ा है ॥ ४१ ॥



एवमितरस्याः ॥ ४२ ॥

इसी प्रकार अशक्तिके भी भेद पूर्वाचार्यों ने जैसे कहे हैं वैसे ही विशेष समझना चाहिये ॥ ४२ ॥

आध्यात्मिकादिभेदान्नवधा तुष्टिः ॥ ४३ ॥

प्रकृति, उपादान, काल, और भाग्य यह चार प्रकारकी आध्यात्मिक तुष्टि है और पाच प्रकारका बाह्य विषयोंसे उपराम होनेवाली तुष्टि है। इस प्रकार आध्यात्मिक आदि भेदोंसे तुष्टि नौ प्रकारकी हुई इसका विवरण इस प्रकार है कि “जो कुछ दिखाई पड़ता है वह सब प्रकृतिका ही परिणाम है और उसे प्रकृति ही करती है मैं कूटस्थ हूँ” इस प्रकारकी प्रकृतिके सम्बन्धमें बुद्धि होनेका नाम प्रकृति तुष्टि है। और जो मन्यासी होकर आश्रम ग्रहण रूपी उपादानसे तुष्टि मानते हैं वह उपादान तुष्टि है। जो मन्यासी हो कर भी समाधि आदि अनुष्ठानोंसे बहुत समयमें तुष्टि मानते हैं उसे काल तुष्टि कहते हैं। और उसके उपरान्त धर्म-मेघ समाधिमें जो तुष्टि प्राप्त होती है उसे भाग्य तुष्टि कहते हैं। बाह्य पांच प्रकारकी तुष्टि इस प्रकार है कि भाना, चन्दन, वनिता आदि की प्राप्त करनेमें दुःख होगा अतएव उन्हें त्यागना चाहिये यह एक प्रकारकी तुष्टि हुई, पैदा किया हुआ धन राजा या चोर होनेलगे एवं उसके क्षयमें बहुत दुःख होगा अतएव उसे त्यागना चाहिये यह दूसरी तुष्टि है, जो धनादिक है वह थोड़े ही प्रयत्नसे इकट्ठा किया हुआ वारसा किया हुआ भोग करनेसे नष्ट होजायगा यह विचार कर विषयोसे उपराम होना तीसरी तुष्टि है, भोगके अभ्याससे

कामकी वृद्धि होती है और विषयकी अप्राप्तिमें कामियोंको दुःख होता है यह विचार कर भोगोंसे निवृत्ति होना, यह चौथी तुष्टि है, हिंसा वा दोषदर्शन आदिसे उपराम होजाना पांचवीं तुष्टि है । यह पांच प्रकारकी तुष्टियोंकी व्याख्या केवल उपलक्षण मात्रकी गई है इनकी अवधि यहीं तक न समझ कर इसी प्रकारकी औरभी तुष्टि इन्हीं पांच प्रकारकी तुष्टियोंमें परिगणित करलेना चाहिये । पूर्वोक्त चारप्रकारकी आध्यात्मिक तुष्टियों को व्याख्या किसी किसी कारिकाकी व्याख्या करनेवाले तथा महादेव वेदान्तीने इस प्रकारकी है कि विवेकका साक्षात्कार होना तो प्रकृतिका परिणाम ही है फिर ध्यानके अभ्यासकी क्या आवश्यकता ? इस प्रकारकी तुष्टि प्रकृति तुष्टि है, संन्यास ग्रहण परभी जब मुक्तिका काल आवेगा तभी मुक्ति होगी यह कालतुष्टि है, जब भाग्यमें लिखा होगा तभी मुक्ति होगी इस प्रकारकी तुष्टिका नाम भाग्यतुष्टि है, परन्तु उनलोगोंका यह व्याख्या करना युक्त नहीं है क्योंकि जब पूर्व यह बात कह चुके कि नो प्रकारकी तुष्टियोंके विपरीत ज्ञानका नाम अज्ञान है तब इनकी व्याख्याकी हुई नो प्रकारकी तुष्टियोंके विपरीत जो होगा वह ज्ञानके अनुकूल होगा, अतएव अशक्तिके लक्षणमें जो कुछ आचार्यने कहा है वह व्यर्थ हो जायगा जैसे ध्यान आसनादि द्वारा ज्ञान प्राप्तकरके मोक्ष प्राप्त करना ज्ञानके अनुकूल है और केवल भाग्यसे मुक्ति मानना ज्ञानके विरुद्ध अज्ञान है और उस अज्ञानको महादेव प्रकृति तुष्टिमें गिनाते हैं तथाच “अशक्तिर-ष्टाविंशतिधा” इस सूत्रमें नवप्रकारकी तुष्टियोंसे विपरीत बुद्धि होना अशक्तिका लक्षण माना है और अशक्ति बन्धका हेतु है

अतएव जिस भांतिकी व्याख्या प्रकृति आदिसे महादेव आदिमें की है वह कदापि ठीक नहीं होसकती ॥ ४३ ॥

जहादिभिः सिद्धिः ॥ ४४ ॥

जह, शब्द, अध्ययन, सुहृत्प्राप्ति, दान और तीनों प्रकारके दुःखों (अध्यात्मिक, अधिभौतिक, आधिदैविक) का नाश होना इस भांति आठ प्रकारकी सिद्धि होती है। जह—विना किसीके उपदेशके पूर्वजन्मके सस्कारोंसे तत्वकी अपने आप विचारनेका नाम जह है, दूसरेसे सुनकर वा अपने आप शास्त्रकी विचार कर ज्ञानप्राप्त करलेनेका नाम शब्द है, शिष्य और आचार्यभावसे शास्त्र पढ़कर ज्ञानवान् होनेको अध्ययन कहते हैं, यदि कोई कारुणिक अपने घर परही उपदेश देने आया और उसी उपदेश से ज्ञान होगया यही सुहृत्प्राप्ति है, और धनआदि देकर ज्ञान-लाभ करना दान है। और तीनप्रकारके दुःखोंके विवरणको शास्त्रके आदिहीमें हम निरूपण कर चुके हैं। अब यहां पर यह प्रश्न होसकता है कि जह आदिकीसे ही सिद्धि क्यों मानी जाती है ? क्योंकि बहुतरे लोग तो मन्त्रोंसे अणिमादिक आठ सिद्धि मानते हैं तब क्या उनका सिद्धान्त मिथ्या होसकता है ? इसका उत्तर यह है कि ॥ ४४ ॥

नेतरादितरहानिन विना ॥ ४५ ॥

जहादि पञ्चकके विना मन्त्र आदिकों से सात्विकी सिद्धि प्राप्त नहीं होती, क्योंकि वह सिद्धि इतर अर्थात् विपर्यय ज्ञान के बिना भी प्राप्त होती है अतएव संसारिकी सिद्धि होनेके

कारण वह पारमार्थिकी नहीं कहला सकती ॥ वस यहां तक समष्टि सर्ग और प्रत्यय सर्ग समाप्त होगया इससे आगे “ध्यक्ति-भेदः कर्म विशेषात्” इस संक्षेपसे कह हुए सूत्रको विशेष रूपसे प्रतिपादन करंगे ॥ ४५ ॥

### देवादिप्रभेदा ॥ ४६ ॥

देव आदि सृष्टिके प्रभेद हैं अर्थात् एक दैवी सृष्टि, दूसरी मनुष्योंकी सृष्टि है यहां देव और मनुष्योंके कहनेसे यह न समझ लेना चाहिये कि देवता जैसे इतर जन मानते हैं वही हैं किन्तु विद्वानोंका नाम देव है और जो भ्रम्या भाषण करते हैं वह मनुष्य है। किन्नर, गन्धर्व, पिशाच आदि यह सब मनुष्यों ही के प्रभेद है जैसा ही अतिमें भी लिखा है कि “सत्यं वै देवा अनृतं मनुष्याः” “विद्वान्मोहि देवाः” इत्यादि और महर्षिकपिन्न जी को भी यही अभीष्ट जैसा कि उक्तोने आगे ५३ वें सूत्रमें प्रतिपादन किया है। अब सृष्टिका प्रयोग कहते हैं ॥ ४६ ॥

आब्रह्मस्तम्भपर्यन्तं तत्कृते सृष्टिराविवेकात् ॥ ४७ ॥

ब्राह्मणों (विद्वानों) से लेकर स्यावरादि तक जितनी सृष्टि है वह सब पुरुष ही के लिये है और उसे भी (पुरुषको भी) विवेक होने तकही सृष्टि रहती है (उपरान्त, सुक्ति होनेसे) कूट जाती है। तीन सूत्रों से इस सृष्टिके विभाग कहते हैं ॥ ४७ ॥

### ऊर्ध्वं सत्त्वविशाला ॥ ४८ ॥

जो सृष्टि ऊपर है वह सत्व प्रधान है यहां पर ऊपर कहने से आचार्यका प्रयोजन भारतवर्षसे ऊपरका देश त्रिविष्टपके

कहनेसे प्रयोजन है जिस त्रिविष्टपका अपभ्रंस इन दोना तिव्वत रह गया है वहाँके लोग अब तक भी सात्विकी वृत्तिवाले हैं ॥ ४८ ॥

तमोविशाला मूलतः ॥ ४९ ॥

और जो नीचे के लोक है वह तमः प्रधान है, अर्थात् अमेरिका आदि देशके मनुष्य प्रायः तमोतुण युक्त होते हैं ॥ ४९ ॥

मध्य रजोविशाला ॥ ५० ॥

और बीचमें जो लोक है वह रजो गुण प्रधान है। बीचका लोक यही भारत है, अन्य सब द्वीप इसकी अपेक्षा कोई ऊँच और कोई नीचे हैं इसके वामी रजो गुण युक्त है, यह तो सब पर विदित ही है। अब यहाँपर यह सन्देह होता है कि एक ही प्रकृति को अनेक भाँति की सृष्टि क्यों होती है। इसका कारण यह है कि ॥ ५० ॥

कर्मवैचित्र्यात् प्रधानचेष्टा गर्भदासवत् ॥ ५१ ॥

यह सब प्रधान अर्थात् प्रकृतिकी चेष्टा कर्मोंकी विचित्रता से होती है जैसे कोई मनुष्य गर्भावस्था ही से दासत्व करे (अर्थात् दासीके उदरमें उत्पन्न हो) तो वह उसी भाँतिके कर्म करेगा और अपने स्वामीके लिये उसकी अनेक भाँति की चेष्टाएँ रहेगी अतएव जो जैसा कर्म करेगा उसकी वैसी ही सृष्टि रहेगी ॥ ५१ ॥

### आवृत्तिस्तत्राप्युत्तरोत्तरयोनियोगाद्वियः ॥ ५२ ॥

उस ( उपरके और नीचेके ) देशमें भी आवृत्ति रहती है अर्थात् जब वहां गये तब सान्त्विकी वृत्ति रही, और यहा रहं तब वही रज्जी गुण आगया और वहां भी उत्तर उत्तर छोटी बडी जातियोमें जन्म होनेसे ठीक सत्व नहीं रहता अतएव इस प्रकारका विचार करना सर्वथा त्यागने योग्य है । और भी इसी बातकी पुष्ट करत है ॥५२॥

### समानं जरामरणाद्विजं दुःखम् ॥ ५३ ॥

इस देशमें और वहा अर्थात् त्रिविष्टपमें जरा ( बुढ़ापा ) और मरने आटिका सब दुःख समानही है, यहा और वहां कुछभी विभेद नहीं अतएव उस देशकी प्राप्तिसे मुक्ति प्राप्तिको छोडना यह विचार त्याज्य है । अब यहा पर यह मन्देह होता है कि जिससे यह शरीर उत्पन्न हुआ है यदि उसीमें लय हो जाय तब क्या मुक्ति न हई ? इसका उत्तर यह है कि ॥ ५३ ॥

### न कारणलयात् कृतकृत्यता मग्नवदुत्यानात् ॥ ५४ ॥

कारणमें लय हो जाने पर भी कृत कृत्यता नहीं होती क्योंकि जैसे जन्म डूबा हुआ मनुष्य कभी डूवता है कभी उठता है इसी भांति जो कारणमें लय हो गया है वह कभी जन्म लेता है कभी मरता है एसा कहनेसे आचार्यका यह अभिप्राय नहीं है कि मुक्त जीव कभी जन्म नहीं लेता क्योंकि प्रथमतो आचार्य जीव को नित्य मानत हैं तब उसका कारण

ही नहीं फिर लय किसमें होगा । दूसरे जो डूबेका दृष्टान्त दिया वह अशान्तिका पोषक दिया, तथा इसमें पराधीनता सूचितकी किन्तु मृत जीव न तो अशान्त हैं, न पराधीन है, तीसरे यहां मृष्टिका प्रसङ्ग है न कि जीवका । अब यहाँ पर यह सन्देह होता है कि जब प्रकृति और पुरुष दोनों ही अनादि है तो प्रकृतिहीमें मृष्टिका कर्तृत्व क्या आरोपित किया जाता है ? इसका समाधान यह है कि ॥५४॥

अकार्यत्वेऽपि तद्योगः पारवश्यात् ॥ ५४ ॥

यद्यपि दोनोंही अकार्य अर्थात् नित्य हैं तथापि प्रकृतिको ही इसका (मृष्टिकर्तृत्वका) योग है क्योंकि जो परवश होगा वही कार्य करेगा । तो प्रकृति ही परवश है । अब कोई बाटी इस बातका पूर्वपक्ष करता है कि ॥५५॥

स हि सर्ववित् सर्वकर्ता ॥ ५५ ॥

यदि प्रकृतिरूपी पदार्थ जो का सर्वज्ञ और सर्ववित् (विद् सत्तागम्) सर्वशक्तिमान् मान लिया जावे तब क्या क्षति है ? इसका समाधान इस प्रकार है कि ॥ ५६ ॥

द्वैतशेषद्वयसिद्धिः सिद्धा ॥ ५७ ॥

इस प्रकारको ईश्वरकी सिद्धि वेदक प्रमाणोंसे सिद्ध है । सर्व ज्ञादि गुणवाली प्रकृति कदापि नहीं हो सकती । अब यहाँ पर यह शङ्का होती है कि प्रकृतिमें यह सृष्टि क्योंकी ? इसका उत्तर है कि ॥ ५७ ॥

प्रधान-सृष्टिः परार्थं स्वतोऽप्यभोक्तृत्वादुष्टकुङ्कुम-  
वहनवत् ॥ ५८ ॥

प्रकृतिकी सृष्टि दूमरेके ( पुरुषके ) लिये स्वतः है क्योंकि प्रकृति भोग नहीं कर सकती जैसे जूँटका कुङ्कुमको लाद कर लेजाना दूमरेके लिये है एसे ही प्रधान अर्थात् प्रकृतिकी सृष्टि भी दूमरेके लिये है, इसमें शङ्का यह रहीकि जूँटका जो दृष्टान्त दिया गया वह चेतन है और चेतनकी प्रवृत्ति दूमरेके लिये हो ही सकती है किन्तु जड़की नहीं, इस शङ्काको दूर करनेके निमित्त दूमरा दृष्टान्त कहते हैं कि ॥ ५८ ॥

अचेतनत्वोऽपि क्षीरवञ्चैष्टितं प्रधानस्य ॥५९॥

यद्यपि प्रकृति अचेतन अर्थात् जड़ है तथापि उसकी प्रवृत्ति दूमरेके लिये है जैसे दूध जड़ है परन्तु उसकी प्रवृत्ति चैतन्य बरुडेके लिये है । तीसरा दृष्टान्त और भी कहते है ॥५९॥

कर्मवद्दृष्टेया कालाटिः ॥६०॥

जैसे कृपि कर्ममें जीज बोदिया जाता है और वह अपने कालके अनुसार वृत्त आदि रूप धारण करके दूमरेके निमित्त फलादि देता है एसे ही प्रधानकी सृष्टि भी दूमरे ही के लिये जाननी चाहिये। यदि कोई यह कहे कि जूँटतो मारनेके डरसे कुङ्कुमको लादे कर लेजाता है परन्तु प्रकृतिमें तो यह बात नहीं हो सकती तो इसका उत्तर यह है कि ॥ ६० ॥

स्वाभावाञ्चैष्टितमनभिमन्थानाद् भृत्यवत् ॥६१॥

जैसे चतुर नौकर अपने आपने मालिकका सब काम करता है और उसमें अपने स्वार्थका कुछ भी अभिसन्धान नहीं



करता है इसी भांति प्रकृतिभी अपने आप सृष्टि करती है पुरुषके भय प्रेरणादिकी अपेक्षा नहीं करती ॥६१॥

कर्माकृष्टैर्वानादितः ॥६२॥

अथवा कर्मा के अनादि प्रवाहके वश होकर प्रकृति सृष्टिको करती है। अब इससे आगे सृष्टिकी निवृत्तिके कारणोंको कहेंगे ॥६२॥

विविक्तबोधात् सृष्टिनिवृत्तिः प्रधानस्य सूटवत्

पाके ॥६३॥

जब विवक्त बोध अर्थात् एकान्त ज्ञान हो जाता है तब प्रकृतिकी सृष्टि निवृत्त हो जाती है। जैसे रसोदया पाक करके निवृत्त हो जाता है फिर उसका कुछ काम नहीं रहता इसी भांति प्रकृतिभी विवेक ज्ञान उत्पन्न करके अपनी सृष्टिको निवृत्त कर लेती है। इस सूत्रका आशय यह है कि ज्ञान होनेसे समार कृट जाता है। अब यह मन्टेह होता है कि जब एककी ज्ञान हुआ और उससे सृष्टिकी निवृत्ति हो गयी तो फिर शेष जीव बड़ क्या रहते हैं? क्योंकि सृष्टिकी निवृत्तिमें बन्ध, न रहना चाहिये इसका समाधान इस प्रकार है कि ॥६३॥

दूतर इतरवत् तद्दोषात् ॥ ६४ ॥

जो विवेक ज्ञान रहित है वह बंधके समान ही रहता है क्योंकि अज्ञानके दोषसे बंधा रहना ही पड़ता है। अब सृष्टि निवृत्तिका फल कहते हैं ॥ ६४ ॥

### द्वयोरैकतरस्य वौटासीन्यसपवर्ग' ॥६५॥

दोनों अर्थात् प्रकृति और पुरुष इनकी आपसमें उदासीनता हो जाना ही अपवर्ग अर्थात् मुक्ति है । इस सूत्रका अर्थ इस प्रकारभी हो सकता है कि विवेकवान् और अविवेकी इन दोनोंमें से एकके निमित्त प्रकृतिकी उदासीनता ही को अपवर्ग कहते हैं । यह दोनोंही अर्थ युक्त हैं क्योंकि किसीसे भी सिद्धान्तकी हानि नहीं होती । यहां पर यह मन्टेह होता है कि जब विवेकके कारण प्रकृति पुरुषको मुक्त कर देती है तो और भी पुरुष विवेकसे मुक्त हो जावेग एसा विचार कर प्रकृति विवेकके डरके भार सृष्टि करनेसे विरक्त क्यों नहीं होती ? इसका समाधान यों है कि ॥ ६५ ॥

### अन्यसृष्ट्युपरागेऽपि न विरज्यते प्रबुद्धरज्जुतत्त्व- स्वैवोरगः ॥६६॥

यद्यपि प्रकृति एक पुरुषके ज्ञानयुक्त होनेसे उसके लिये सृष्टिसे विरक्त होजाती है तथापि दूसरे (अविवेकी)के लिये सृष्टि से प्रकृति विरक्त नहीं होती, क्योंकि जैसे किसी मनुष्यको प्रथमतो रज्जुमें सर्पकी भ्रान्ति होनेके कारण भय हो और उपरान्त वह भय यथार्थ ज्ञानसे ( रज्जु जाननेसे ) निवृत्त होजाता है तब वह रज्जु उस ज्ञानवान्को भय नहीं देती किन्तु जो अज्ञानी है उसे तो सर्पभ्रान्तिसे भय उत्पन्न करती ही है इसी भांति प्रकृतिकी भी व्यवस्था है कि जो विवेकी है उसके लिये तो उसकी सृष्टि नहीं है किन्तु दूसरेके लिये है ॥ ६६ ॥

### कर्मनिमित्तयोगाच्च ॥६७॥

सृष्टिके प्रवाहमें जो कर्म हेतु है उनके कारण भी प्रकृति सृष्टि करनेमें विरक्त नहीं होसकती और मृत पुरुषके कर्म कूट जाते है अतएव उसके लिये सृष्टि निवृत्त होजाती है। अब रहा यह सन्देह कि जब सब पुरुष समान और निरपेक्ष है तो किसीके लिये प्रकृति-सृष्टिकी निवृत्ति और किसीके लिये प्रवृत्ति हो, इसमें क्या नियम है यदि यह कहा जावे कि कर्मका प्रवाह ही इसमें नियामक है तोभी युक्त नहीं जाकि किम पुरुषका कौनसा कर्म है यह भी कोई निर्धारित नियम नहीं है इसका समाधान यह है कि ॥ ६७ ॥

### निरपेक्ष्यऽपि प्रकृत्युपकारेऽविवेको निमित्तम् ॥६८॥

यद्यपि सब पुरुष ( जीव ) निरपेक्ष हैं अर्थात् एक दूसरे की अपेक्षा नहीं रखते तथापि 'यह मेरा स्वामी मैं इसका सेवक' इस प्रकार प्रकृतिके उपकारमें ( सृष्टि करनेमें ) अविवेक ही निमित्त है। इस सूत्रका आशय यह है कि जब प्रकृति यह चाहती है कि 'यह पुरुष मृत हो' तभी उसे अपनी सृष्टिके अन्तर्गत रखके अनेक प्रकारके कार्यों में संलग्न करती है और उन्हीं कार्योंको करता हुआ वह पुरुष किसी न किसी जन्ममें ज्ञानी होकर मृत हो ही जाता है इसीसे आचार्यने सूत्रमें उपकार शब्दका प्रयोग किया है। यदि कोई बाटो यह आक्षेप करे कि जब प्रकृतिका स्वभाव प्रवर्तन मान लिया है तो विवेकके उत्पन्न होने पर क्को निवृत्त होजाती है क्योंकि जो जिसका

स्वाभाविक धर्म है वह सब जगह एकसा रहना चाहिये ? तो इसका समाधान इस दृष्टान्तसे होसकता है कि ॥ ६८ ॥

नर्तकीवत् प्रवृत्तस्यापि निवृत्तिश्चारितार्थात् ॥६९॥

जैसे नर्तकी ( नाचकरनेवाली ) का यद्यपि नाचना स्वभाव है और वह मभाकी नृत्य दिखाती है तथापि जब नृत्य करते करते उसका अभिप्राय चरितार्थ (पूरा-होजाता है तब वह नृत्य करनेसे निवृत्त होजाती है, इसी भांति प्रकृतिका यद्यपि सामान्यतः सृष्टि करना स्वभाव है परन्तु उस सृष्टि करनेका जो प्रयोजन है वह विवेकके उत्पन्न होनेसे निवृत्त होजाता है अतएव उससे निवृत्त भी होजाती है । अब मुक्तिसे पुनरागमन होता है, वा नहीं, इस पर यहा इस कारण विचार किया जाता है कि इस ऊपरके सूत्रमें विवेकके उपरान्त सृष्टिकी निवृत्ति प्रतिपादन करचुके, इसपर यह मन्देह होसकता है कि जब प्रकृति यह समझ लेती होगी कि पुरुषको मेरे मसर्गसे अनेक दुःखादि होते हैं अतएव फिर उसका मसर्ग किसी कालमें भी न करना चाहिये तो इसी मत पर आचार्य्य समालोचना करते हैं कि ॥ ६९ ॥

दोषबोधेऽपि नोपसर्पणां ? प्रधानस्य कुलबध्ववत् ॥७०॥

“पुरुषको मेरे साथमें दुःख हीगा” इस बातमें प्रकृति अपना दोष जानती है तोभी क्या फिर उसका संसर्ग नहीं करती ? \* किन्तु अवश्य ही करती है, जैसे कुलबध्वसे यदि कोई दोष हो

\* यहाँ काकुन्याय है ।

जाय और उससे स्वामीको कष्ट पहुँचे तब क्या वह अपने पतिके पास न जावेगी ? किन्तु अवश्य ही जावेगी, क्योंकि जो पतिको त्यागदे वह कुलबधू नहीं होसकती । इस सूत्रका अर्थ विज्ञान भिन्न और महादेव नवीन वेदान्तीने इस प्रकार किया है कि “जब प्रकृति अपना दोष जानलेती तब लज्जाकी मारी फिर कभी पुरुषके समीप नहीं जाती” जैसे कि “कुलबधू नहीं जाती” इस अर्थ करनेसे उनका तात्पर्य यह है कि मुक्तिसे पुनरावृत्ति नहीं होती परन्तु यह अर्थ करना उनका ठीक नहीं है क्योंकि अज्ञानभिन्नजिने ‘अपि’ शब्दका कुछभी आशय नहीं निकालना और न यह समझना कि जो अपने दोषसे पतिको छोड़ बैठे वह कुलबधू क्या कर होसकती है ? कुलबधू बन्नी होती है जो अपने दोषकी क्षमा माग कर पतिको त्याग न करे किन्तु उन दोनों टीकाकारोंने इस दृष्टान्तके गूढ़ अभिप्रायको बिना समझे वैसा लिख मारा वह योग्य नहीं । इसके अतिरिक्त यदि आचार्यको यही अभीष्ट होता कि मुक्तिसे पुनरावृत्ति नहीं होती तो इसमें पूर्व सूत्रमें वह बात एक दृष्टान्त द्वारा प्रतिपादित हो चुकी थी फिर यह सूत्र बनाकर पुनरुक्तिको करते ? इसी ज्ञापकसे मिल्द है कि मुक्तिसे पुनरावृत्ति होती है परन्तु इस पुनरुक्तिको अज्ञानभिन्न और महादेव दोनों ही नहीं समझे । पुरुषका बन्ध वा मोक्ष किससे होता है इसे विचारते हैं ॥ ७० ॥

**नैकान्ततो बन्धमोक्षौ पुरुषस्याविवेकादृते ॥७१॥**

पुरुषका बन्ध अथवा मोक्ष स्वाभाविक नहीं है किन्तु अविवेक हीके कारण है ॥ ७१ ॥

### प्रकृतेराञ्जस्यात् ससङ्गत्वात् पशुवत् ॥७२॥

जब विचार किया जाता है तो विदित होता है कि प्रकृति का संसर्ग पुरुषको रहता है उसीसे पुरुषका बन्ध है, प्रकृतिका संसर्ग कूट जानाही मोक्ष है, जैसे पशुरज्जुके मसर्गसे बंध जाता है और उसका संसर्ग कूट जानाही मुक्त हो जाता है इसी भांति पुरुषको भी जानना चाहिये । अब यह सन्देह होता है कि प्रकृति किन साधनोंसे बन्धन करती है और कैसे मुक्त करती है इसका उत्तर यह है कि ॥ ७२ ॥

**रूपैः सप्तभिर्गात्मानं बध्नाति प्रधानं कौशकार-**

**वद्विमोचयत्येकरूपेण ॥ ७३ ॥**

धर्म, वैराग्य, ऐश्वर्य, अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य और अनैश्वर्य इन सात रूपोंसे प्रकृति पुरुषका बन्धन करती है जैसे तलवार के म्यान बनानेवालेकी कारीगरीसे तलवार ढकी रहती है इसी भांति प्रकृतिसे पुरुषको ममभना चाहिये और वही प्रकृति एक रूपसे अर्थात् ज्ञानसे आत्माकी दुःखसे मुक्त कर देती है । अब यहां पर यह सदेह होता है कि जब मुक्तिमें हेतु ज्ञान कहा और धर्मादिक सब बन्धन के हेतु गिनाये तो धर्म में क्यों किसीकी प्रवृत्ति होगी ? और क्यों ध्यानादिके लिये उपाय किया जावेगा ? तो इसका समाधान इस प्रकार है कि ॥७३॥

**निमित्तत्वमविवेकस्य न दृष्टहानिः ॥७४॥**

मुक्ति न होनेमें अविवेक निमित्त है अतएव उसकी निवृत्ति हीके लिये यत्न करना चाहिये और उस यत्नमें धर्मानुष्ठान

आदि चित्त शोधक कर्मभी परिगणित हैं अतएव उनकी हानि नहीं होसकती क्योंकि बिना धर्म—ध्यान आदि किये कोई ज्ञानवान् ही ही नहीं सकता। विवेक कैसे होता है उसका उपाय कहते हैं ॥ ७४ ॥

तत्त्वाभ्यासान्नं ति नैतीति त्यागाद्विवेकमिद्धिः ॥७५॥

देह आत्मा नहीं है, पुत्र आत्मा नहीं है, इन्द्रिय आत्मा नहीं है, मन आत्मा नहीं है, इस प्रकार नैतिनैति करके त्यागसे और तत्वका अभ्यास करनेसे विवेककी सिद्धि हो जाती है इसी आशयको पुष्ट करनेवाली एक श्रुति भी है “अथात आदेशो-नैतिनैतीति त्यागनैके असृतत्वमानशुः” ॥ ७५ ॥

अधिकारिप्रभेटान्न नियमः ॥ ७६ ॥

कोई मन्द बुद्धि होता है, कोई तीक्ष्ण बुद्धि होता है, अतएव एकही जन्ममें सबको विवेक ज्ञान हो जावे यह नियम नहीं है किन्तु उत्तम अधिकारी एक जन्ममें भी विवेकी होसकता है ॥ ७६ ॥

बाधितानुवृत्त्या मध्यविवेकतोऽप्यपभोगः ॥७७॥

जिसको \* विवेक होगया है उसे भी कर्मों का उपभोग करनाही पड़ता है क्योंकि यद्यपि कर्म एकबार बाधितभी कर

\* मध्येविवेको यस्य स मध्यविवेक पुरुषस्तस्मिन् मध्यविवेकतः 'मार्धविभक्तिकस्तस्मिन्' बाधिता विवेकेन दूरीकृता प्रारब्धादि कर्म-विशेषास्तेषामनुवृत्त्या पुनरावृत्त्येतिभावः ।

दिये जाते हैं तो भी उनकी अमुहति होती है । प्रारब्ध आदि मन्नावाले कर्म सर्वथा बिनष्ट नहीं होते इस सूत्रमें भी आचार्यने मुक्तिसे पुनरावृत्ति मानी है ॥ ७७ ॥

जीवन्मुक्तश्च ॥ ७८ ॥

जो विवेक होजाय तो इस शरीरके रहतेभी मुक्त हो सकता है उसे जीवन्मुक्त \* कहते हैं । उस जीवन्मुक्त होनेका उपाय कहते हैं ॥ ७८ ॥

उपदेश्योपदेष्टृत्वात् तत्त्वद्विः ॥ ७९ ॥

जब शास्त्रोंकी गुरुके समीप शिष्य बनके पढ़ेगा और उसमें विवेक करके पढ़नेसे विवेककी उत्पत्ति हो जावेगी तो जीवन्मुक्त होना सहज है । बिना उपदेशकके जीवन्मुक्त नहीं हो सकता इसे श्रुतिभी प्रतिपादन करती है इस आशयसे कहते हैं कि ॥ ७९ ॥

श्रुतिश्च ॥ ८० ॥

“तद्विज्ञानार्थं सगुरुमेवाभिगच्छेत् समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम् । तस्मै स विद्वानुपमन्नाय सम्यक् प्रशान्तचित्ताय शमान्विताय धेनाक्षरं पुरुष वेदसत्य प्रोवाच तान्तत्वतो- ब्रह्मविद्याम्” ॥ इसका अर्थ यह है कि उससत्य विज्ञानके लिये वह ‘समित्पाणि’ अर्थात् हाथजोड़ अद्विक्तहस्त हीकर वेदवित् ब्रह्मनिष्ठ परमात्माको जाननेवाले गुरुके पास जावे । जब ऐसा जिज्ञासु विद्वान्के पास जाय, शान्तचित्त जितेन्द्रिय समीप प्राप्त

\* जीवन्नपि मुक्तइव इति जीवन्मुक्तः ।



जिज्ञासुको यथार्थ ब्रह्मविद्या परमात्माके गुणकर्म स्वभावका उपदेश करे और जिससे वह श्रोता परमात्माको प्राप्त होसके । इस प्रकार की अनेक श्रुतियां इस विषयको पुष्ट करनेवाली पाई जाती हैं ॥ ८० ॥

### द्वितीयपरम्परा ॥ ८१ ॥

जो ज्ञानवान् गुरुसे उपदेश न लिया जावे किन्तु मूर्खोंसे लिया जावे तो अन्धपरम्परा हो जावेगी । जैसे एक अन्धके पीछे सब अन्धे कुएँ गिरते चले गये इसी भाँति मूर्खके पीछे मूर्ख ही रहते जावेगें । अब यह सदेह होता है कि जब ज्ञानसे कर्म निवृत्त होजाते हैं तो फिर शरीर क्यों रहता है और उसकी जीवन्मुक्त सत्ता किस प्रकार होती है इसका समाधान यह है कि ॥ ८१ ॥

### चक्रभ्रमणवद्भ्रतशरीरः ॥८२॥

जैसे कुलालका चक्र ऊपरसे घट सरावा आदि बनकर उतर आने परभी कुछ देरतक अपने आप पहले वेगसे घूमता रहता है इसी भाँति ज्ञानके उत्पन्न होते ही यद्यपि नये कर्म उत्पन्न नहीं होते तो भी प्रारब्ध कर्मोंके वेगसे शरीरको धारण किये हुए जीवन्मुक्त रहता है । अब यह सदेह होता है कि यद्यपि चक्रके भ्रमणमें दण्डकी क्रियाका, अभाव है तो भी वह पूर्वं संस्कारसे चलता है किन्तु जब जीवन्मुक्तके सब रागादिक नष्ट होजाते हैं तो वह उपभोग किसके सहारेसे करता है इसका समाधान यों है कि ॥ ८२ ॥

### संस्कारलेशतस्त्विसिद्धिः ॥८३॥

राग आदिके संस्कारकाभी लेश रहता है उसीके सहारेसे उपभोगकी सिद्धि जीवन्मुक्तको हो जाती है बास्तविक राग जीवन्मुक्तको नहीं रहते । यह सब जीवन्मुक्तके सम्बन्धमें कहा, अब बिना देहकी मुक्तिके लिये अपना परम सिद्धान्त कह कर अध्याय समाप्त करते हैं ॥ ८३ ॥


### विवेकान्निर्गेषदुःखनिवृत्तौ कृतकृत्यता

नेतगान्न तरात् ॥ ८४ ॥

विवेकही से सब दुःखनिवृत्ति ही जानेसे जीव कृतकृत्य होता है दूसरे से नहीं होता । नहीं होता, पुनरुक्ति पक्षपुष्टि और अध्याय समाप्तिके लिये है ॥ “इतरस्मात्” ऐसा होना चाहिये था परन्तु आचार्यने “इतरात्” ऐसा कहा है उसे यों ठीक समझना चाहिये कि “सज्ञापूर्वको विधिरनित्य.” इस परिभाषासे वा वैदिक प्रयोग मानकर शुद्ध जानना उचित है ।

इति सांख्यदर्शने तृतीयोऽध्यायः ।

## अथ-चथेर्ताऽध्यायः ।



इम अध्यायमें विवेक ज्ञानके माधर्मीका वर्णन किया जावेगा ।

राजपुत्रवत् तत्त्वोपदेशात् ॥ १ ॥

पूर्व सूत्रसे यह विवेककी अनुवृत्ति आती है । जैसे किसी राजाका पुत्र भीलीके साथ रहनेसे अपनेको भीलमानता था, परन्तु जब उसको यह उपदेश दिया गया कि तू राजाका पुत्र है तब उसे अपने कुल और वंशका विवेक होत ही उस भावसे निवृत्त होगया इसी भांति चिरबद्ध जीवभी अपनेकी बद्धमानता है किन्तु जब तत्वोपदेशसे उसे ईश्वर ज्ञान होगा तब विवेकी-त्पत्तिसे मुक्तिकी प्राप्त होगा । इम सूत्रके अर्थसे कोई-कोई टीकाकार “ब्रह्मास्मि” वाला सिद्धान्त निकालते है कि जीव प्रथम ब्रह्म था और अतएव मुक्त था, किन्तु अज्ञानसे बँध गया जब तत्वोपदेश हुआ तो विवेक होकर मुक्ति ही गयी, परन्तु यह उनका मानना ठीक नहीं है क्योंकि प्रथम तो आचार्य ग्रन्थारम्भहीमें इस सिद्धान्तका खण्डन कर चुके हैं, दूसरे जा सूत्रमें राजपुत्र शब्द कहा है उससे जाना जाता है कि आचार्य, जीव और ब्रह्ममें प्रभेद मानते हैं अतएव जीवको छोटा मान कर राजपुत्रवत् कहा है नहीं तो ‘राजवत्’ ही कह देते किन्तु दो अक्षरों का अधिक उच्चारण इसी आशयसे है कि कोई एक ब्रह्मके रूपान्तरका अर्थ न समझ ले ॥ १ ॥

### पिशाचवदन्यार्थोपदेशोऽपि ॥ २ ॥

एकके लिये जो उपदेश किया जाता है उससे दूसरा भी मुक्त हो जाता है जैसे आचार्य्य शिष्यको उपदेश करता था उस समय पिशाच भी सुन रहा था वह उपदेश सुनकर उसे भी विवेक हो गया । इस सूत्रसे सिद्ध होता है कि पिशाच भी मुक्तिका अधिकारी है और उसे भी एक जन्ममें विवेक उत्पन्न हो सकता है तब जो लोग ऐसा नहीं मानते उन्हें आर्य्य सिद्धान्तानभिन्न कहना चाहिये ॥ २ ॥

### आवृत्तिरसकृदुपदेशात् ॥ ३ ॥

यदि एकवारके उपदेशसे विवेककी उत्पत्ति न हो तो उपदेशकी आवृत्ति करनी चाहिये अर्थात् फिर उपदेश सुनना चाहिये क्योंकि छान्दोग्यमें लिखा है कि 'श्वेतकेतुके लिये आरुणि आदि मुनियोंने बार बार उपदेश किया है' ॥ ३ ॥

### पितापुत्रवदुभयोर्दृष्टत्वात् ॥ ४ ॥

विवेकके द्वारा प्रकृति और पुरुष दोनों ही दीखते हैं जैसे "कोई मनुष्य अपनी गर्भिणी स्त्रीको छोड़ कर विदेश चला गया था जब तक वह आया तब तक वह पुत्र जन्म लेकर बड़ा हो गया, किन्तु वह अपने पिताको नहीं पहचानता था और न पिता यह जानता था कि यही मेरा पुत्र है परन्तु बालककी माताने दोनोंको बताया कि यह तेरा पुत्र है और पुत्रकी बताया कि यह तेरा पिता है" इसी भांति विवेक भी प्रकृति और पुरुषका बोधक है ॥ ४ ॥

श्र्येनवत् सुख-दुःखी त्यागवियोगाभ्याम् ॥५॥

सब संसारका नियम है कि द्रव्यकी प्राप्तिसे सुखी और उस  
के चले जानेसे दुःखी होता है जैसे “श्र्येन (बाज) किसी पत्नी  
को मारकर मांस लिये जाता है इसी अवसरमें उसे किसीमांस  
लुब्धकने पकड़ लिया और उससे मांस उीना तो वह दुःखी  
होता है ; और यदि वह स्वयं ही उसे छोड़ देता सुखी रहता  
है” अतएव स्वत ही छोड़ना चाहिए इसी स्वतके आशयको  
समझ कर राजर्षि भट्ट हरिनिम्बी महाराज ने लिखा —

अवश्य धातारश्चिरतरपुप्रित्वापि विषयः, वियोगे को भेद  
स्वजति न जनी यत् स्वयममृन् । ब्रजन्त स्वातन्त्र्यगततुल परि-  
नापाय मनस, स्वयन्त्यक्ताहते शमसुखमनन्त विदधति ॥ ५ ॥

अर्थ ॥ यह सब विषय बहुत दिनों तक रह करभी अवश्य  
विनष्ट होंगे फिर वियोगमें क्या संदेह है ? जो पुरुष इन्हें अपने  
आप नहीं छोड़ता ( अब यह संदेह होना है कि जब उनका  
नष्ट होनेका स्वभाव है तो स्वतः नष्ट होजावेंगे फिर क्यों छोड़े ?  
उसके लिये कहते हैं कि ) यदि अपने आप विषय नष्ट हुए तो  
मनको बहुत कष्टके हेतु होंगे और यदि इनका त्याग अपने  
आप मनुष्य करदे तो शान्ति सुखके देनवाली है ॥ ५ ॥

अहिनिर्ल्वीयिनीवत् ॥६॥

“जैसे मर्प कांचलीको छोड़ देता है” इसी भांति मनुष्यको  
भी विषयोंका त्याग विवेकीटयमें ही जाता है ॥६॥

किन्नहस्तवदा ॥ ७ ॥

अथवा जैसे “किसी मनुष्यका हाथ कटके गिर पड़े और

वह मनुष्य फिर उस कटे हुए हाथको नहीं उठाता” इसी भांति विवेककी प्राप्तिसे जो विषय वासना नष्ट हो गयी है उसे मुमुक्षु ( मोक्षकी इच्छा करनेवाला ) फिर ग्रहण नहीं करना ॥ ७ ॥

असाधनानुचिन्तनं बन्धाय भरतवत् ॥८॥

जो मोक्षका साधन नहीं है और उसे किसीने धर्ममें परिगणित करके साधन बता दिया है तो उसका अनुचिन्तन केवल बन्ध हीका निमित्त होगा न कि मोक्षका ॥ जैसे “राजर्षि भरत यद्यपि मुमुक्षुथे परन्तु उन्हें किसीने हरिणका वच्चा जिसके कि (मातापिता मरगये थे) पालन पोषणके लिये देदिया तो उसका पालन पोषण करनेमें भरतका विवेक प्राप्तिका समय नष्ट हो गया और मुक्ति न हुई ॥ यद्यपि अनाथ दीन हरिण शावकका पोषण राजाका धर्म था तथापि वह विवेकका भुलानेवाला होनेके कारण बन्धका हेतुही रहा” ॥ ८ ॥

बहुभिर्योगि विरोधो रागादिभिः कुमारीशङ्खवत् ॥९॥

विवेकका साधन एकलेही अच्छी भांति होता है और जो बहुतोंके बीचमें किया जावेतो राग द्वेषादिके कारण विरोध उत्पन्न होता ही है । जैसेकि “किसी कुमारीके हाथमें चूड़ी थीं और वह एक दूसरीसे टकरा कर भणत्कार शब्द करती थीं” इसी भांति बहुतोंके सङ्गमें भी विवेकका चिन्तन नहीं होता अतएव अकेले ही करना चाहिये ॥ ९ ॥

दाभ्यामपि तथैव ॥१०॥

दोके साथभी राग द्वेषादिके कारण विरोध होना सम्भव है

अतएव अकेलेही विवेक चिन्तन करना चाहिये एसा ही किसी कविने कहाभी है कि "स्वासे बहना कालहो भवेद्वार्त्ता इयो-रपि । एक एव चरेत् तस्मात् कुमार्या इव कङ्कणः" बहुतेमि लडाई होना सम्भव है दो होने परभी बातचीत ही कर समय नष्ट हो जाता है, अतएव अकेला रहना चाहिये जैसे कुमारीका कङ्कण ॥१०॥

निराशः सुखी पिङ्गलावत् ॥११॥

जो पुरुष आशाका त्याग कर देता है वह मदैव सुखी रहता है जैसे कि "पिङ्गला नामक बेश्या जारपुरुषकी अभिलाषा से बहुत काल तक वाजारमें बैठी रही फिर जाकर मीरही फिरभी इस आशाने कि शायद कोई जार मेरे समीप आवे उसे न सोने दिया और जारकी प्रतीक्षा बहुत रात्रि तक करती रही अन्त्यको उमने जब यह आशा नष्ट करदी अर्थात् यह निश्चय कर लिया कि अबमे आगे कभी जारकी प्रतीक्षा वा आशा न करू गी तभी उमने सुख पूर्वक जाकर गयन किया" इसी भांति यदि पुरुषभी आशाको छोड देतो सन्तोषको पाकर सुखी रहे ॥ ११ ॥

अनारंभेऽपि परगृहे सुखी सर्पवत् ॥१२॥

गृहादिक विना बनाये भी पगाये घरमे सुख पूर्वक रह-सकता है जैसे कि "सर्प कभी विवर नहीं खोदता तोभी वह सुखी रहता है" इस सूत्रका यह आशय कदापि नहीं है कि गृहादिकों को कदापि न बनवाना चाहिये किन्तु 'अपि'शब्द

का प्रयोग इस आशयका द्योतक है गृहादिक बनाने तो चाहिये ही, किन्तु बिना बनाये भी सुखी रह सकता है, जैसे कि सर्प रहता है ॥ १२ ॥

बहुशास्त्रगुरुपामर्गपि मारादानं षट्पदवत् ॥ १३ ॥

बहुतसे शास्त्रों से और गुरुको सेवामे भी जो मारबन्तु है अर्थात् जिसमे विवेक उत्पन्न होता है उसीको ग्रहण करना चाहिये जैसे “षट्पद ( भोरा ) फूलोंमे पराग ग्रहण करलेता है” इसी भाँति मारग्रहण करना उचित है ॥ १३ ॥

इषुकारवर्जकचित्तस्य समार्धं ज्ञानिः ॥ १४ ॥

जिसका चित्त एकाग्र रहता है उसको समार्धमें कदापि ज्ञान नहीं होती जैसे ‘इषुकार ( बाणबनानेवाला ) बाणबनाने समय यदि उसके पास होकर सेना ममेत राजाभी निकल जाय तोभी उसके कार्यमें ज्ञान नहीं होती और कार्यमें चित्त लगा रहनेके कारण उसे राजाका जाना विदित भी नहीं होता” ॥ १४ ॥

कृतनियमलङ्घनादानर्थक्यं लोकवत् ॥ १५ ॥

शौच, आचार आदि जो नियम विवेककी सिद्धिके लिये अङ्गोकार कर लिये हैं उनके लङ्घनसे ( उचित गीति पर पालन न करनेमे ) अनर्थ होता है अर्थात् उन नियमोंका फिर कुछभी फल हाथ नहीं लगता जैसे लोकमें देखा जाता है कि “कोई रोगी वैद्यके बताये हुए खान पानादिके नियमको पालन न करे ता उसके लिये लक्षणके बदलेमें उलटा, अनर्थ ही होता है” ॥ १५ ॥



तद्विस्मरणोऽपि भेकीवत् ॥१६॥

जो तत्वज्ञानको भूल जाय तो उसे दुःख प्राप्त होता है जैसे कि "भेकीके कथनको भूलनेसे राजाको हुआ था, इसका विवरण यों है कि एक राजाने किसी रूप-सम्पन्ना कुमारीको देख कर पूछा कि तू कौन है उसने कहाकि मैं राजकन्या भेकी नाम्नी हूँ तब राजाने उसे अपनी स्त्री होजानेके लिये कहा तो उसने राजामे कहाकि मैं जल देखतेही चली जाऊँगी अतएव मुझे जल कदापि न दिखाना इस नियमसे मैं तंगी पत्नी होंती हूँ यह बात राजाने स्वीकार करली किन्तु कुछ समय उपरान्त उसने राजामे पीनेके निमित्त जल मागा राजाने उस प्रतिज्ञाको भूल कर उसे जल लादिया उसी समय वह राजाको प्रतिज्ञा भङ्गक कह कर चली गई जिसके वियोगसे राजा दुःखी हुआ" यह अन्यान्य टीकाकाराका मत है किन्तु हमारी समझमें इस सूत्रका यह अर्थ आता है कि जैसे "भेकी ( भंडकी ) अपने जलाशयको भूल जाने पर दुःखी होती है " इसी भाँति तत्वज्ञानकी विस्मृतिमें भी दुःख प्राप्त होगा ॥ १६ ॥

नोपदेशश्रवणोऽपि कृतकृत्यता परामर्शादृते

विरोचनवत् ॥ १७ ॥

केवल उपदेशके सुनने हीसे कृतकृत्यता प्राप्त नहीं होती जब तक कि उस सुने हुए उपदेशका भलीभाँति परामर्श ( चिन्तन ) न किया जावे जैसे कि "बृहस्पतिने विरोचन और इन्द्र दोनों हीको उपदेश दिया था, इन्द्रने तो उपदेशको सुनकर

उसका विचार भी किया किन्तु विरोचनने नहीं किया अतएव उसका सुनना निष्फल हुआ" ॥ १७ ॥

### दृष्टस्तयोरिन्द्रस्य ॥१८॥

उन दोनोंमेंसे इन्द्रही को विवेक ज्ञान हुआ क्योंकि उसीने सुने हुए उपदेशका विचार किया था यह देखा गया ॥१८॥

प्रणतिब्रह्मचर्योपसर्पणानि कृत्वा सिद्धिर्बहुकालात्  
तदहत् ॥१९॥

गुरुमें \* प्रणति (नम्रता) रखना, ब्रह्मचर्य पालन करना, और वेद पढ़नेके निमित्त गुरुके समीप जाना, इन्हीं कर्मोंको बहुतकाल तक करनेसे विवेककी सिद्धि होती है जैसे कि "इन्द्र को हुई थी" ॥ १९॥

### न कालनियमो वामदेववत् ॥२०॥

"इतने समयमें विवेककी उत्पत्ति हांगी" यह कोई निर्धारित नियम नहीं है कांकि वामदेव नामक ऋषिको जन्मान्तरीय ज्ञानके संस्कार रहनेके कारण थोड़े ही समयमें विवेक उत्पन्न हो गया था ॥ २० ॥

---

\* इनतीन सूत्रोंके पठनेसे जाना जासकता है कि इन्द्र कौन था और किस प्रकार उसने ज्ञान प्राप्तकी थी तथा वहभी देह धारी था या नहीं ।।

अध्यस्तरूपोपासनात् पारम्पर्येण यज्ञीपासका-  
नामिव ॥२१॥

‘शरीरही आत्मा है’ वा ‘मनही आत्मा है’ इस प्रकार अध्या-  
हार करके जो उपासना की जाती है उसके परम्परा सम्बन्धसे  
विवेक होता है जैसे—पहले पुत्रको आत्मा माना, उपरान्त  
शरीरको, तदुपरान्त इन्द्रियाको, इसी भाँति करते करते आत्म-  
विवेक होजाता है जैसे कि यज्ञ करनेवालोंकी परम्परा सम्बन्ध  
से मुक्ति होती है क्योंकि यज्ञमें चित्तशुद्धि और चित्तशुद्धिसे  
वामनाओंकी न्यूनता आदि परम्परासे मुक्ति होती है” इसी  
भाँति अध्यस्त उपासनासे भी जानो ॥ २१ ॥

इतरलाभेऽप्यावृत्तिः पञ्चाग्नियोगतो जन्मश्रुतः ॥२२॥

यदि पञ्चाग्नि योगसे इतर अर्थात् शान्तिका लाभभी  
करलिया तो भी कर्मोंकी वामना बलवती बनी रहेगी  
अतएव वह कर्म फिरभी उत्तरोत्तर उत्पन्न होते जावेगे और  
उनके उत्पन्न होनेसे जन्मभी होते ही चले जायगे इसी बातको  
श्रुतियां भी पृष्ट करती हैं । वह श्रुतियां क्लान्दाग्निक पञ्चम प्रपा-  
ठकके आदिमें है यहाँ विस्तर भयसे उनका उल्लेख और विवरण  
नहीं किया गया ॥ २२ ॥

विरक्तस्य हेयहानमुपादेयोपादनं हंसचीरवत् ॥२३॥

जो विरक्त है अर्थात् जिसे विवेक हो गया है उसे हेय  
( त्यागने योग्य ) का तो त्याग और उपादेय ( ग्रहण करने

योग्य ) का ग्रहण करना चाहिये । हेय संसार , और (उपादेय मुक्ति है । जैसे “हंस जलकी त्यागकर दूधकी पीलेता है” इसी भाँति विरक्त कीर्त्तनी करना उचित है ॥ २३ ॥

लज्जातिशययोगाद्वा तद्वत् ॥२४॥

अथवा ज्ञानकी पराकाष्ठा की पहुँच गया है उसमें मङ्गलका यदि योग (सौका) लगजाय तोभी पूर्वोक्त (हंसकी भाँति) विवेकी ही मकता है ॥ २४ ॥

न कामचारित्वं रागोपहते शुक्वत् ॥२५॥

रागके नाश हो जाने पर भी काम चारित्व ( मन मी-जीपन ) न करना चाहिये क्योंकि इससे फिर बन्धमें पड जानेका भय है जैसे “कोई शुक ( शुआ ) दानिके लालचमें आकर बन्धनमें पड गया था किन्तु उसे जब वहाँसे अव्या-हति मिल गई तो फिर उसे फन्देमें नहीं फँसना और यदि फसे तो पकड़ लिया जावे” इसीकी आगे पुष्ट करते हे ॥ २५ ॥

गुणयोगाद्बद्धः शुक्वत् ॥ २६ ॥

जब काम चारी रहेगा तो यदि उसके गुणमें किसीकी अनुराग ही जानेसे विवेकी फिरभी बद्ध हो जावेगा जैसे “मधुर भाषण आदि गुणोंसे शुकका बन्धन होता है” इस सूत्रमें श्लेषा लङ्कार है ॥ २६ ॥

न भोगाद्वागशान्तिर्मुनिवत् ॥२७॥

भोगोंका पूरा भोग करलेनेसेभी रागोंकी शान्ति नहीं होती जैसे “सौभरि नामक मुनिने पूर्णतया भोगोंका अनुभव किया

किन्तु उससे कुछभी शान्ति नहीं हुई और उन्होंने अपने अन्तिम समयमें ऐसा कहा भी है कि “आमृत्युतो नैव मनोरथानामन्तोऽस्ति विज्ञातमिदं मयाद्य । मनोरथासक्ति परस्य चित्तं न जायते वै परमार्थं सद्गो” ॥

अर्थ । यह मैंने आज अपनी तरह जान लिया कि मृत्यु तक मनोरथोंका अन्त्य नहीं होता और जो चित्त मनोरथोंमें लगा हुआ है उसमें कभी विज्ञानका उदय नहीं होता किन्तु ॥२७॥

### दोषदर्शनादुभयोः ॥ २८ ॥

दोनां अर्थान् प्रकृति और उनके कार्य के दोषोंको देखने से रागों की शान्ति होती है ॥ त्रिमक्ता चित्र रागादि युक्त है उसके लिये उपदेश फलवान नहीं होता इसी आशयसे कहते हैं कि ॥ २८ ॥

### न मलिनचेतस्युपदेशबीजप्ररोहोऽजवत् ॥२९ ॥

\* मलिन चित्तमें उपदेश रूपी बीजका प्ररोह (उपजना) नहीं होता जैसे कि “स्त्रीशं कातुर राजा अश्वको नहीं हुआ था” ॥ २९ ॥

\* इस सूत्रने विदित होता है कि रामचन्द्रके पितामह राजा अजके उपरान्त महर्षि कपिल हुए और तभी यह सांख्यदर्शन बनाया गया । जो लोग ऐसा माननेमें विवश करे वह इस सूत्रको प्रसिद्धमानें, किन्तु हमारा पूर्वोक्तही मत है ।

नाभासमात्रमपि मलिनदर्पणवत् ॥ ३० ॥

मलिन चित्रमें उपदेशका आभासमात्र भी नहीं पड़ता जैसे कि “मलिन दर्पणमें प्रतिबिम्ब नहीं दीखता” ॥३०॥

न तज्जस्यापि तद्रूपता पङ्कजवत् ॥ ३१ ॥


मोक्षभी प्रकृतिहीके सहारसे होता है, परन्तु जैसे प्रकृतिसे ससार उत्पन्न हुआ है और वह उसी ( प्रकृति ) का रूपममभा जाता है वैसे मोक्षभी प्रकृतिका रूप नहीं होसकती क्योंकि जैसे “पङ्क ( कीच ) से उत्पन्न हुआ कमल कीचके रूपका नहीं होता” वैसे प्रकृतिसे उत्पन्न मोक्ष प्रकृति रूप नहीं हो सकता है ॥ ३१ ॥

न भूतियोगेऽपि कृतकृत्यतोपास्यसिद्धिवटुपास्य-  
सिद्धिवत् ॥३२॥

अणिमा आदिक विभूतियोंकी प्राप्ति होनेपरभी कृतकृत्यता नहीं होती है क्योंकि जैसा “उपास्य ( जिसकी उपासना की जाती है ) होगा वैसीही उपासकको सिद्धि मिलेगी” अर्थात् जो धनवान् की उपासना करो तो धन मिलेगा और दरिद्रसे कुछ भी न मिलेगा इसी भांति अणिमा आदि सिद्धि नाश होनेवाली हैं अतएव उनकी प्राप्तिसे कृतकृत्यता नहीं होसकती । पुनरुक्ति पाद समाप्तिके लिये है ॥ ३२ ॥

इति सांख्ये चतुर्थोऽध्यायः ।

## अथ-पञ्चमोऽध्यायः ।



मङ्गलाचरणं शिष्टाचारात् फलदर्शनात् श्रुति-

तश्चेति ॥ १ ॥

मङ्गलि कपिलने अपनं शास्त्रका मिहान्त मुक्तिके साधनीके सख्यमे पूर्वाध्यायमे सविस्तर वर्णन किया अब इस अध्यायमे वादी प्रतिवादी रूपमे शास्त्रमे सन्नता प्रयुक्त कही हुई बातोंका उद्घाटन करेगं । कोई शंका करना है कि मङ्गलाचरण (अच्छा-बर्ताव) करना व्यर्थ है इसे तबु गर्भित वाक्योंसे प्रमाणित करते है ।

मङ्गल आचरण करनाही आवश्यक है क्योंकि शिष्टजनोंका यही आचार है और प्रत्यक्षमेभी यही फलदिखाई पड़ता है कि जो उत्तम आचरण करता है वह सुखी रहता है “अहरहः सध्या-मुपासीत, अहरहाग्निहोत्र जुहुयात्” इत्यादिक श्रुतिया भी अच्छे आचरणों हीको प्रतिपादन करती है बहुतेरे लोग मङ्गलाचरण का यह अर्थ यह समझते है कि किसी ग्रन्थको बनाते समय उमके आदिमें किसी उत्तम शब्दका प्रयोग करनेना परन्तु उमका नाम मङ्गलाचरण रखना हमारी सम्प्रतिसे ठीक नहीं है क्योंकि प्रथमतो मङ्गलाचरण का वैसा अर्थ नहीं हो सकता, दूसरे यदि ग्रन्थके आदिमें ही मङ्गल किया तो अन्यत्र अमङ्गल होगा, तीसरे कादम्बर्यादि ग्रन्थमें मङ्गल होने परभो उनकी

निर्विन्न समाप्ति नहीं दिखाई पड़ती अतएव ऐसा मानना कदापि युक्त नहीं होसकता । कर्मका फल स्वतः ( अपने आप ) होता है इस पक्षका खण्डन करते हैं ॥ १ ॥

नेग्वराधिष्ठिते फलनिष्पत्तिः कर्मणा तन्निवेः ॥२॥

कर्मसे फलकी निष्पत्ति ( सिद्धि ) नहीं होती क्ये कि उसकी सिद्धिका अधिष्ठान ईश्वर है । इस सूत्रका आशय यह है कि कर्मका फल अपने आप नहीं होता, किन्तु ईश्वर, कार्यीके फलका देनेवाला है इसी पक्षको प्रकारान्तरसे पुष्ट करते हैं ॥ २ ॥

स्वोपकारादधिष्ठानं लोकवत् ॥३॥

• जैसे लोकमें देखा जाता है कि “मनुय अपने उपकारके लिये कर्मोंका फल देनेवाला एक पृथक् नियुक्त करते हैं” इसी भाँति ईश्वर भी सबके कर्मफल देनेके लिये एक अधिष्ठान है ॥ १ ॥

लौकिकेप्रवरवदितरथा ॥४॥

यदि ईश्वरको सब कर्मोंका फल देनेवाला न माना जावे तो “लौकिक ईश्वरोंकी भाँति जुदे कर्मोंके फल देनेवाले जुदे २ ईश्वर मानने पड़ेगे” तथा जो भ्रम, प्रमाद आदि दोष लौकिक ईश्वरोंमें दिखाई पड़ते है वही उसमें भी दिखाई पड़ेगे अतएव यह मानना ठीक नहीं है कि कर्मका फल ईश्वर नहीं देता ॥ ४ ॥



## पारिभाषिकी वा ॥५॥

कर्मका फल अपने आप होता है इस प्रकार माननेमें एक दोष यह भी होगा कि फिर ईश्वर केवल नाम मात्रका रह जायगा और ईश्वरके नाम मात्र रह जानेमें यह दोष होगा कि इस दीखते हुए जगत्की सिद्धि न हो सकेगी क्योंकि ॥ ५ ॥

न रागादृते तस्मिद्धिः प्रतिनियतकारणत्वात् ॥६॥

ईश्वर सृष्टिकी सिद्धिमें प्रतिनियत कारण है उसके बिना केवल रागने अर्थात् प्रकृति महटादिकोंसे जगत्की सिद्धि नहीं हो सकती । कहीं २ 'जगत् सिद्धिः' और कहीं 'तत्सिद्धिः' पाठ पुस्तकमें दिखाई पडता है परन्तु अर्थ दोनोंका एक ही होनेसे सिद्धांत की क्षति नहीं हो सकती , अब यहां पर यह सन्देह होता है कि जैसे कोई ईश्वरको जीव-रूप धारी (अविनायकसे) मान कर प्रकृतिका सङ्गो मानते है और उसमें रागादिक भी प्रकृति योगसे स्वीकार करते है वैसा आप क्या नहीं मानते तो उस मतमें दूषण बताते हैं कि ॥ ६ ॥

तद्योगेऽपि न नित्यमुक्तः ॥७॥

यदि प्रकृतिके साथ ईश्वरका योग मान कर जीव आदि उसीकी अवस्था मानी जावे तो ईश्वर नित्य मुक्त नहीं रहेगा अर्थात् जैसे जीव प्रकृतिके सङ्गो होनेसे अनित्य मुक्त हैं वैसा ईश्वरभी हो जावेगा । और जो लोग उस प्रकार ईश्वरको मानते हैं उनका ईश्वरभी मंसारी जीवांकी भांति अनित्य मुक्त है यदि

यह कहो कि ईश्वरसे जगत् बना है अर्थात् ईश्वर उपादान कारण है सोभी युक्त नहीं है क्योंकि ॥ ७ ॥

### प्रधानशक्तियोगाच्चेत् सङ्गापत्तिः ॥८॥

यदि ईश्वरको प्रधान शक्तिका योग हो तो पुरुषमें सङ्गापत्ति ही जाय अर्थात् जैसे प्रकृति सूक्ष्मसे मिल कर कार्य्य रूपमें सङ्गत हुई है वैसे ईश्वरभी स्थूल ही जाय इस लिये ईश्वर जगत् का उपादान कारण नहीं हो सकता किन्तु निमित्त कारण है ॥ ८ ॥

### सत्तामात्राच्चेत् सर्वेश्वर्यम् ॥९॥

जो चेतनसे जगत्की उत्पत्ति हो तो जैसा परमेश्वर समग्र ऐश्वर्य्य मुक्त है वैसे समारमें भी सर्वेश्वर्य्यका योग होना चाहिये वह नहीं है इस हेतुसे भी परमेश्वर जगत्का उपादान कारण सिद्ध नहीं होता किन्तु निमित्त कारण है । इसी पक्षको श्रीर भी पूर्णतया पुष्ट करते हैं ॥ ९ ॥

### प्रमाणाभावान्न तत्सिद्धिः ॥१०॥

ईश्वर जगत्का उपादान कारणहै इसमें कोई प्रमाण नहीं पाया जाता अतएव उसकी सिद्धि नहीं हो सकती अर्थात् वह पूर्वपक्ष ठीक नहीं है ॥ १० ॥

### सम्बन्धाभावान्नानुमानम् ॥११॥

श्रीर जब ईश्वरका जगत्से उपादान कारण-रूप सम्बन्धही नहीं है तो यह अनुमान भी किसी प्रकार नहीं हो सकता कि शायद ईश्वर ही से जगत् बना है, क्योंकि ॥११॥

### श्रुतिरपि प्रक्षानकार्यत्वस्य ॥१२॥

श्रुतियां तो जगत्का उपादान कारण प्रधान अर्थात् प्रकृति को बताती हैं जैसे “अजामिकां लोहित शुकल कृष्णा वह्नीप्रजा. सृजमानां स्वरूपाः” यह श्रुतिश्रुतिरपर उपनिषद्का वाक्य है इसका अर्थ यह है कि जो जगत् रचित सत्त्व रज तमोगुण रूप प्रकृति है वही स्वरूपाकारसे बहुत प्रजारूप हो जाती है अर्थात् परिणामिनी होनेसे अवस्थाकार हो जाती है और ईश्वर अपरिणामी एवं असङ्गी है । कोई २ णमा मानते है कि ईश्वरकी अविद्याका सङ्ग ज्ञानमि बन्धनमे पडना पडता है और उसीके योगमे यह ससार है उस मतका खण्डन करते है कि ॥ १२ ॥

### नाविद्याशक्तियोगो निःसङ्गस्य ॥१३॥

निःसङ्ग अर्थात् सङ्ग रहित ईश्वरको अविद्या शक्तिका योग कदापि नहीं हो सकता क्योंकि जब अविद्याका योग मान कर उसे सङ्गी मिड करतेतो ईश्वरको उपादान कारण माननेवालीकी भांति दोषापत्ति होगी , यदि यह कहेकि अविद्याके विना ईश्वर सृष्टि नहीं कर सकता तो भी यक्त नहीं है क्योंकि ॥ १३ ॥

### तद्योगे तत्सिद्धावन्योऽन्याश्रयत्वम् ॥१४॥

यदि अविद्याके योगसे संसारकी सिद्धि मानेंतो अन्योऽन्याश्रयत्व दोष आता है क्योंकि अविद्या ईश्वर विना ससार नहीं कर सकती; और ईश्वर अविद्या विना ससार नहीं बना सकता,

यही दोष हुआ । यदि दोनों को ( ईश्वर और अविद्याको ) एक-कानिक अनादि माने जैसे कि बीज और अङ्गुर को मानते हैं वह भी ठीक नहीं क्योंकि ॥ १४ ॥

न बीजाङ्गुरवत् सादिसंसारश्रुतेः ॥१५॥

बीज और अङ्गुरके समान अविद्या और ईश्वरको माननेमें यह दोष होगाकि 'सदेव श्रीम्यदमग्र आसीद्' "एक मेवा द्वितीय ब्रह्म" (हे सौम्य । यह पहले सन् ही था । एकही अद्वितीय ईश्वर है ) इत्यादि श्रुतिया जो एक ईश्वरको प्रतिपादन करके समारको सादि और ईश्वरको अद्वितीय बनाती हैं उसके साथ अविद्याका ज्ञान लगानेमें उक्त श्रुतियोंमें विरोध पड़ेगा । यदि कहो कि हमारी अविद्या योग-शास्त्र कीसी नहीं है किन्तु जैसा आपके मतमें प्रकृति है वैसे ही हमारे मतमें अविद्या है तो इस मतको भी दूषित करते हैं ॥ १५ ॥

विद्यातोऽन्यत्वं ब्रह्मबाध-प्रसङ्गः ॥१६॥

यदि विद्यासे प्रतिरिक्त पदार्थका नाम अविद्या है अर्थात् वह विद्याका नाश करनेवाली अविद्या है तो ब्रह्मका भी अण्ड नाश कर देगी क्योंकि ब्रह्मभी तो विद्यामय है । इस सूत्र का यह भी अर्थ हो सकता है कि यदि अविद्या विद्यारूप ब्रह्म से भिन्न है और उसे विविध परिच्छेद रहित ब्रह्ममें अङ्गीकार किया जाता है तथाच ब्रह्म अविद्यासे अन्य और अविद्या ब्रह्मसे अन्य है तो ब्रह्मके परिच्छेद रहितत्वमें बाधा पड़ेगी अतएव वैसा मानना ठीक नहीं है । अथ यह प्रश्न हो सकता है कि

उस अविद्याका किसीसे बाध हो सकता है वा नहीं, इन्हींका विचार करते हैं कि ॥१६॥

अवधि नैष्कल्यम् ॥ १७ ॥

यदि उसका किसीसे भी बाध नहीं हो सकता तो मुक्ति आदि और विद्या प्राप्तिका प्रयत्न करना निष्फल है ॥१७॥

विद्याबाध्यत्व जगतोऽध्यवम् ॥१८॥

यदि विद्यासे उसका बाध हो जाता है तो उससे बने जगत्कामो बाध होना चाहिये अर्थात् जितने विद्या है उन्हे जगत्की प्रतीति न होना चाहिये ॥१८॥

सिद्धपत्व सादित्वम् ॥१९॥

और यदि अविद्याकी जगद्रूप माना अर्थात् जगत् है यही अविद्या है ऐसा कहा तो अविद्यासे सादित्व आता है क्योंकि समान सादि है। अनर्थ अविद्या कोई पदार्थ नहीं है, उसी बुद्धि हतिका नाम अविद्या है जो कि मन्दाप पातञ्जलने कही है। अब यह मन्देह होता है कि जब कापिलाचार्यके मतमें समस्त कार्य वैचित्र्यका हेतु प्रकृति है और वही सुख दुःखदिका कारण है तो धर्माधर्मकी माननेकी क्या आवश्यकता है ? इस पर विचार करके धर्मकी सिद्धि करते हैं ॥१९॥

न धर्मापलापः प्रकृतिकार्यवैचित्र्यात् ॥२०॥

प्रकृतिके कार्यो की विचित्रता माननेसे धर्मका अपलाप (दूर होना) नहीं हो सकता क्योंकि ॥२०॥

### श्रुतिलिङ्गादिभिस्तत्सिद्धिः ॥२१॥

उसकी सिद्धि श्रुति और योगियोंके प्रत्यक्षसे हो सकती है “पुण्यो वै पुण्येन भवति पापः पापेन” इत्यादि श्रुतियां धर्मके फलको बताती हैं अतएव उसका अपलाप नहीं हो सकता । यदि यह कहा जावे कि धर्ममें प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं अतएव उसकी सिद्धि नहीं हो सकती तो इसका उत्तर यह है कि ॥२१॥

न नियमः प्रमाणान्तरावकाशात् ॥ २२ ॥

प्रत्यक्षही प्रमाणसे धर्मकी सिद्धि हो यह नियम नहीं क्योंकि इसमें अनेक प्रमाण पाये जाते हैं और प्रत्यक्ष प्रमाणके अतिरिक्त प्रमाणों से भी पदार्थकी सिद्धि की जाती है यदि यह कहा जावे कि इस प्रकार धर्मकी सिद्धि करली किन्तु अधर्मकी सिद्धि तो किसी प्रमाणसे नहीं हो सकती, इसका उत्तर यह है कि ॥२२॥

उभयत्राप्येवम् ॥ २३ ॥

जैसे धर्मके सम्बन्धमें प्रमाण पाये जाते हैं वैसे अधर्मके सम्बन्धमें भी प्रमाण पाये जाते हैं ॥२३॥

अर्थात् सिद्धिश्च त् समानमुभयोः ॥ २४ ॥

जिस बातकी विधि वेदादिकोंमें पाई जाती है उसकी अतिरिक्त जो कुछ है वह अधर्म है इस प्रकारकी यदि अर्थापत्ति निकाली तो वह भी युक्त नहीं हो सकता क्योंकि श्रुत्यादिकोंमें जैसे धर्मकी विधि पाई जाती है वैसेही अधर्मका निषेध भी

पाया जाता है यथा "परदारां न गच्छेद्" (पराई स्त्रीका गमन न करे) इस प्रकारके वाक्य दोनोंमें (धर्माधर्ममें) दोनोंही (निषेध और विधि) समान पाये जाते हैं। अब यह सन्देह होता है कि यदि धर्मादि को आप स्वीकार करते हैं तो पुरुष को धर्मवाला मान कर पुरुषमें परिणामित्व आता है इसका उत्तर यह है कि ॥२४॥

अन्तःकारणधर्मत्वं धर्मादीनाम् ॥२५॥

धर्म आदि अन्तःकरणके धर्म हैं अर्थात् इन सबका सम्बन्ध अन्तःकरणमें है न कि जीवसे। इस सूत्रमें आदि शब्दके कथनसे वैशेषिकवालोंने जो आत्माके विशेष गुणमाने हैं उनका दृष्टण होता है यद्यपि यह सन्देह न करना चाहिये कि प्रसङ्गमें जब अन्तःकरण नहीं गूना तब धर्म आदिक कहा रहते हैं। क्योंकि आकाशके समान अन्तःकरण भी विनाश रहित है इससे अन्तःकरणरूप जो प्रकृतिका अणु विशेष है उसमें धर्म और अधर्मके सङ्कार रहते हैं इसी सूत्रके आशयको लेकर किसी कविने कहा है कि "धर्म नित्य है और सुखदुःखादिक अनित्य है।" अब यहाँ पर यह सन्देह होता है कि प्रकृतिके कार्योंकी विचित्रतासे जो धर्म आदिकी सिद्धिकी गई वह अयुक्त है क्योंकि प्रकृति विगुणत्मक है और उसके कार्य है इस बातका बाध "न निरोधो न चोत्पत्तिः" (वाचारम्भणं विकारं नामधेयं सृष्टिकेलेव सत्यम्)" (न नाश है न उत्पत्ति है) (घट पट आदि सब कथन मात्रके हैं सृष्टिकाही सत्य है) इन श्रुतियोंसे होता है अतएव

प्रकृति के गुण मानना ठीक नहीं इस पक्षको खण्डन करनेकी निमित्त कहते हैं कि ॥२५॥

गुणादीनां च नात्यन्तबाधः ॥२६॥

सत्त्व रज आदि, गुण और उनके धर्म जो सुखादिक एवं उन गुणोंके कार्य जो महदादिका उनका अत्यन्त बाध अर्थात् स्वरूपमें नाश नहीं होता किन्तु समर्थमें बाध होता है जैसे अखिरके समर्थ जनकी स्वाभाविक शीतलताका बाध ही जाता है किन्तु उसके स्वरूपका बाध नहीं होता इसी भाँति प्रकृतिके गुणोंकी बाध नहीं होता। अब यहाँ पर यह प्रश्न ही सकता है कि जैसे 'स्वप्नमे मनोरथीका स्वरूपम् बाध ही जाता है इसी भाँति प्रकृतिके गुणोंका बाध क्यों नहीं होता' तो इसका उत्तर यह है कि ॥२६॥

पञ्चदशप्रयोगात् सुखसंविद्धिः ॥२७॥

सुखादिक पदार्थों की सिद्धि पचायवय वाक्यसे ( जैसा कि न्यायमें माना गया है ) होती है अतएव जब सुख आदिकी सिद्धि न्यायके मतानुसार करली जाती है तब उनका स्वरूपसे नाश नहीं माना जा सकता क्योंकि जो पदार्थ सत् है उसका नाश नहीं कह सकते। उस पचायवसे सुखादिकी संविद्धि इस प्रकार होती है कि प्रतिज्ञा, हेतु, उपनय, उदाहरण, निगमन, इन पांचोंको सुखमें इस प्रकार लगाना चाहिये कि 'सुख सत्' ( सत्य ) है (यह प्रतिज्ञा हुई )। क्योंकि प्रयोजनकी क्रिया करता है वह सत् है। यह उपनय है। जैसे चेतन प्रयोजन की क्रिया-



ओंको करता है वैसे यह भी (इसे दृष्टान्त कहते हैं)। पुनर्कित होना आदि प्रयोजनकी क्रिया सुखम है इस लिये वह सच्चा है। यहा केवल सुखका ग्रहण उपलक्ष मातृक लिये है अर्थात् इसी भांति और गुणोंका स्वरूपसे नाश नहीं होता इस स्थान पर न्यायका विषय आचार्यने इस हेतु किया है कि बिना इस पाच वार्ताके किसी मच्च भंडे पदार्थका निर्णय नहीं हो सकता और जो इस पचावयवसे मिद्ध न हों वह अनुमान करने योग्य भी नहीं। अब एक नास्तिक जो कि प्रत्यक्षके अतिरिक्त अन्य प्रमाण ही नहीं मानता इस पचावयवके मुख्य मिद्धान्त याक्तिका खण्डन करनेके अभिप्रायसे इस अगले सूत्रसे उससे दृषण और अनुमान को असंगत कहता है कि ॥ २० ॥

न मज्जदग्रहणात् मस्वन्ध-मिद्धिः ॥२०॥

जहा धूम है वह; अग्नि होगी इस साहचर्यक ग्रहणसे व्याप्तिरूपी मस्वन्धकी मिद्ध नहीं होती क्योंकि अग्निसे धूमसदैव नहीं रहता और जो पाकशालाका दृष्टान्त दिया जाता है वह भी ठीक नहीं होसकता क्योंकि यदि कहीं पर हाथी आर अग्नि दोनोंको एक स्थल पर देखले और फिर कहीं दृमरी जगह दूरसे हाथी दिखाई पड़े तो यह अनुमान नहीं करसकते कि वहा हाथी है तो अग्निभी होगी जैसे कि पहले देख चुके है वम इस पूर्वपक्षसे नैयायिक जैसा अनुमान करते है वह अयुक्त मिद्ध हुआ और प्रत्यक्ष प्रमाण हीको माननेवाले चार्वाक नास्तिकके मतकी पुष्टि हुई इसका उत्तर यह है कि ॥२०॥

नियतधर्मसाहित्यमुभयोरैकतरस्य वा व्याप्तिः ॥२६॥

जिन दो पदार्थों का व्याप्य व्यापकभाव माना जाय उनमेंसे या तो दोनोंका अथवा एकका नियत-धर्म-साहित्य ( साथ रहने का नियम ) होनेको व्याप्ति कहते हैं । इस सूत्रका विशेष विवरण इस प्रकार है कि जैसे 'पर्वत पर अग्नि है' क्योंकि धूम दिखाई पड़ता है, 'जहाँ जहाँ धूम होता है वहाँ वहाँ अग्नि अवश्यही होती है' यही व्याप्ति हुई इसमें यह समझना चाहिये कि धूम अग्निके बिना नहीं रह सकता और अग्नि बिना धूमके भी रह सकती है इसमें भिन्न हुआ कि धूमका अग्निके साथ रहना नियत धर्म साहित्य है परन्तु यह एकका नियत धर्म साहित्य हुआ । चार्वाकने जो हाथी और अग्निका दृष्टान्त देकर व्याप्तिका खण्डन किया था वह ठीक नहीं होसकता क्योंकि हाथीको अनेक स्थानों पर बिना अग्निके भी देखते हैं और अग्निको बिना हाथीके देखते हैं तब साहचर्य ही नहीं रहा अतएव वह पक्षभी अयुक्त भिन्न होगया । अब रहा दोनोका नियत धर्म साहित्य वह गन्ध और पृथ्वीसे पाया जाता है अर्थात् जहाँ पृथ्वी होगी वहाँ गन्ध अवश्य रहेगा और जहाँ गन्ध होगा वहाँ पृथ्वीभी अवश्य ही होगी, यह दोनो परस्पर एक दूसरेके बिना कदापि रह नहीं सकते ॥ २६ ॥

न तत्त्वान्तरं वस्तु-कल्पनाप्रसक्तः ॥३०॥

पूर्व सूत्रमें व्याप्तिका जो लक्षण करचुके हैं उसके सिवाय किसी अन्य पदार्थका नाम व्याप्ति नहीं हो सकता क्योंकि इस

प्रकार अनेक प्रकारकी व्याप्ति माननेमें एक नया पदार्थ कल्पना करना पड़ेगा अतएव व्याप्तिका वही लक्षण ठीक है जो कि पूर्वसूत्रमें हो चुका है ॥ ३० ॥

निजशक्ताङ्गवामित्याचार्याः ॥३१॥

जो व्याप्यकी शक्तिसे उत्पन्न किमी विशेष शक्तिका रूप हो वही व्याप्ति आचार्योंके मतमें माननीय है। इस सूत्रका आशय इस दृष्टान्तसे समझनेना चाहिये कि व्याप्य जो अग्नि है उसकी शक्तिसे ही तो धूम उत्पन्न होता है और वह अग्निकी किमी विशेष शक्तिका रूपभी है वरम इसी प्रकारके पदार्थको व्याप्ति कहते हैं जिसमें यह बात नहा वह व्याप्ति नहीं होसकती। यदि यह कहा जावे कि धूम अग्निकी शक्तिसे उत्पन्न नहीं होता, किन्तु गीले इन्धनकी शक्तिसे उत्पन्न होता है वह कहना युक्त नहीं क्योंकि गीले इन्धनहामें यदि ऐसी शक्ति होती तो वायुके सयोगसे इन्धनमें धूम क्या न उत्पन्न होता, किन्तु जब ऐसा नहीं दीखता तो स्वीकार करना पड़ेगा कि धूम अग्निहीकी शक्ति विशेष है ॥ ३१ ॥

आधेय-शक्तियोग इति पञ्चशिखः ॥३२॥

आधारमें आधेयकी शक्ति रहनेकी पञ्चशिख नामक आचार्य व्याप्तिमानते है। इसका भी भावार्थ इस दृष्टान्तसे समझना चाहिये कि आधार जो अग्नि उसमें आधेय धूम रहनेकी शक्ति रहना इसीकी व्याप्ति कहते हैं इसमें यह सन्देह न करना चाहिये कि जब अग्निमें धूम नहीं दीखता तब उसमें व्याप्ति नष्ट

होगा “ क्योंकि धूमका आविर्भाव तिरोभाव होता रहता है” किन्तु अग्निसे धूम नष्ट नहीं हो सकता अतएव व्याप्तिका नाश नहीं कह सकते इसका वर्णन प्रथमाध्यायमें पूर्णतया हो चुका है। अब यहाँ पर यह सन्देह होता है कि आधारमें आधेय-शक्ति मत्त्व क्यों कल्पना किया जाता है ? आधारकी \* स्वरूप शक्तिहीको व्याप्ति क्यों नहीं मान लिया जाय इस पर विचार करते हैं कि ॥ ३२ ॥

न स्वरूपशक्तिनियमः पुनर्वाटप्रमत्तः ॥३३॥

व्याप्य ( आधार ) की स्वरूप शक्तिको नियम अर्थात् व्याप्ति नहीं मान सकते क्योंकि उसमें फिर भगडा पड़ जायगा। क्या भगडा पड़ेगा उसे स्पष्ट करते हैं कि ॥ ३३ ॥

विशेषणानर्थक्यप्रमत्तः ॥३४॥

विशेषण देना व्यर्थ होगा जैसे कहा गया कि “बहुत धूम वाला अग्नि है” इस वाक्य में बहुत शब्द विशेषण, धूम-

\* यद्यपि इस विषयको पूर्णतया जाननेके लिये न्यायशास्त्रकी बड़ी भारी आवश्यकता है क्योंकि यह उभौका विषय है परन्तु तौभी हमने यथामाध्य जहाँ तक कि इस मातृभाषामें होसकता है इसके प्रत्येक वाक्यको दृष्टान्तमें दिखाकर स्पष्ट करदिया है जिनसे विचारशीलोंको समझनेमें कष्ट न पड़ेगा तथापि अनेक पाणि-भाषिक शब्द ऐसे हैं जिनकी भाषा ही ही नहीं सकती अतएव उन्हें वैमाहो रखकर विशेष विवरण कर दिया है परन्तु पाठकोंको उचित है कि यह प्रकरण यदि एकवारके पढ़नेसे समझमें न आवे तो अनेकवार पढ़कर उत्तमतापूर्वक दत्तचित्त होकर विचारे और सूत्रके अर्थको दृष्टान्तसे मिलाकर समझे ।

विशेष्य एवं आधेय, और अग्नि आधार है, अब यदि धूमको अग्निकी स्वरूप शक्ति मानले तो 'बहुत' इस शब्दको क्या माने क्योंकि उसे (बहुत शब्दको) अग्निकी स्वरूप शक्ति तो मान नहीं सकते और उस वाक्यमें पढ़कर वह अपना कुछ अर्थ अवश्य ही रखता है एवं उस अर्थसे स्वरूप शक्तिसे न्यूनाधिकता भी अवश्यही होजाती है तो उसेभी कुछ न कुछ अवश्य मानना चाहिये और न मानने पर उसका (विशेषणका) उच्चारण करना व्यर्थ होता है। दूसरा भगडा यह पड़ेगा कि ॥ ३४ ॥

पञ्चवादिष्वनुपपत्तेश्च ॥३५॥

जैसे पत्तिका आधार वृक्ष है और व्याप्तिका लक्षण स्वरूप शक्ति मान कर वृक्षकी शक्ति स्वरूप जो पत्र है उन्हींका ग्रहण व्याप्तिपदके कहनेमें हुआ उस प्रकार माननेमें यह दोष होगा कि जैसे वृक्षकी स्वरूप शक्ति पत्तिका मान लिया और वही व्याप्तिभी हाँगा तो पत्रके टूट जाने पर व्याप्तिका भी नाशमानना पड़ेगा और व्याप्तिका नाश मानने पर बड़ा भारी बखड़ा पड़कर प्रत्यक्षवादो चावाकका मत पृष्ट होजायगा अतएव ऐसा कदापि न मानना चाहिये कि आधारकी स्वरूप शक्तिका नाम व्याप्ति है। अब यह निर्णय करते हैं कि आचार्य और पञ्चशिखके मतमें भेद है वा नहीं क्योंकि पञ्चशिख तो आधार (अग्नि)में आधेय(धूम)की शक्ति होनेका व्याप्ति मानता है और आचार्य व्याप्य अग्निकी शक्तिसे उत्पन्न हुए किसी शक्ति विशेषको जुटा पदार्थ मान कर उसे व्याप्ति बताते हैं इन दोनों मेंसे कौन ठीक है ॥ ३५ ॥

## आधेयशक्तिसिद्धौ निजशक्तियोगः

समामन्यायात् ॥३६॥

समान न्याय अर्थात् समान युक्ति हीनसे जैसे आधेय शक्ति की सिद्धि होती है वैसेही “निज-शक्ति योग” यह आचार्योंका मतभी ठीकही है दोनोंमेंसे किसीकाभी मन्तव्य युक्ति हीन नहीं है । यह व्याप्तिका भगडा केवल इसी लिये उठाया गया था कि गुण आदि स्वरूपसे नाशवान् नहीं है इसी पक्षको पुष्ट करनेके लिये आचार्योंको अनुमान प्रमाणकी आवश्यकता हुई और वह अनुमान प्रमाण बिना पञ्चावयवके ही नहीं सकता था अतएव उसका भी उल्लेख करना पडा इसी निर्णयमें पञ्चावयव के अन्तर्गत एक साहचर्य्य नियम जिसका कि नामान्तर व्याप्ति है आपडा उसीको सुलभानिके निमित्त यह कह कर अपने पक्ष को पुष्ट कर लिया । अब इसमें आगे पञ्चावयव रूप शब्दकी ज्ञानकी उत्पत्तिमें हेतु सिद्ध करनेके लिये शब्दकी शक्तियोंको प्रकाशित करके उस शब्द प्रमाणमे बाधा देनेवालीके मतका खण्डन करते हैं ॥ ३६ ॥

वाच्यवाचकभावः सम्बन्धः शब्दार्थयोः ॥३७॥

शब्दके अर्थमें वाच्यता शक्ति रहती है और शब्दमें वाचकता शक्ति रहती है यही शब्द और अर्थका वाच्य-वाचक भाव सम्बन्ध है अर्थात् शब्द, अर्थको कहता है और अर्थ शब्दमें कहा जाता है बस यही इनका सम्बन्ध है । उस वाच्यवाचकता रूप शक्तिकी कहते हैं ॥ ३७ ॥

त्रिभिः सम्बन्धमिद्धि ॥३८॥

उस पूर्व कहे हुए सम्बन्धकी मिद्धि तीन प्रकारसे होती है एक तो आत्म ( पूर्ण-विद्वान् ) के उपदेशसे, दूसरे बड़ोंके चाल-चलनसे, तीसरे लोकके प्रसिद्ध ( जाहिर ) पदोंके देखनेसे , इन्हीं तीन प्रकारोंसे शब्दका वाच्यवाचक भाव जाना जाता है उसे यों समझना चाहिये कि आत्मोंके द्वारा ऐसे शब्दोंका बोध होता है जैसे ईश्वर निराकार मत् चित् आनन्द स्वरूप है जब ईश्वर शब्द कहा जावेगा तब ऊपर कहे हुए विशेषवाली पदार्थका बोध होगा, और बड़ोंके चालचलनसे यह कि बड़े लोम शास्त्रा ( जो खालगोके गलेमें लटकती है ) लांगूल (पूँछ)वाले पदार्थकी गौ कहते चलेआते है तो उसीके अनुसार जब गौ शब्दका उच्चारण होगा तब उसी अर्थको बांध करावेगा, एवं प्रसिद्ध शब्दोंका व्यवहार यह है कि जैसे कपित्थ एक वृक्षका नाम प्रसिद्ध है वह क्या कपित्थ कहाता है,उसे कपिल्ल कहना चाहिये वा नहीं,यह तर्क न करके लौकिक प्रसिद्ध होनेके कारण कपित्थसे उसीका ग्रहण होता है ॥ ३८ ॥

न कार्ये नियम उभयथा दर्शनात् ॥३९॥

वह शब्दकी शक्तिका वाच्यवाचकभाव कार्यहीमें है अन्यत्र नहीं यह नियम नहीं है क्योंकि दोनों (कार्य और विना कार्य) प्रकारसे शब्दकी शक्तियोंका ग्रहण देखा जाता है जैसे "गौको साओ" इस वाक्यमें गौका लाना यह कार्य दिखाई पड़ता है एवं इसके शब्दभी उसी कार्यको जताते है और "तेरं पुत्र उत्पन्न हागया" इसमें कार्यका प्रत्यक्ष भाव दिखाई नहीं पड़ता क्योंकि

पुत्रका उत्पन्न होना यह जो क्रिया है वह पूर्वही हाचुकी और यह वाक्य उस बीती हुई क्रियाको कहता है अतएव यह नियम नहीं कि कार्यहीमे शब्द और अर्थका सम्बन्ध न हो । अब यह मन्वेह होता है कि यह उपरोक्त प्रतीति लौकिक वातीमे हो सकती है क्योंकि लोकमे प्रायः कार्यशब्दोका प्रयोग किया जाता है किन्तु वेदमे जो शब्द है उनके अर्थका ज्ञान कैसे होता है क्योंकि उसके शब्द कार्य नहीं है इसका समाधान इस प्रकार है कि ॥ ३८ ॥

लोको व्युत्पन्नस्य वेदार्थे प्रतीतिः ॥३८॥

जो मनुष्य लौकिक व्यवहारीमे चतुर है उसीको वेदका अर्थ विदित होता है क्योंकि एसा कोई भी लोक हितकारी व्यवहार नहीं है जो वेदमे न हो अतएव वेदमे विदितता प्राप्त करनेके निमित्त लोककी व्युत्पत्ति (वाकफियत) शामिल करनी चाहिये । शब्दोंकी शक्ति लोक और वेद दोनोंमे समान है इस पर नास्तिक यह शंका करता है कि ॥ ४० ॥

न त्रिभिरूपोरूपयत्वाद्दस्य तदर्थस्यातीन्द्रिय-  
त्वात् ॥ ४१ ॥

ऊपर कहे हुए तीन प्रमाणोंमे वेदके अर्थकी प्रतीति नहीं हो सकती क्योंकि मनुष्य मनुष्यकी बातको समझ सकता है किन्तु वेद अपौरुषेय (जो किसी मनुष्यका बनाया हुआ न हो) है अतएव उसका अर्थभी इन्द्रियोंसे नहीं जाना जाता क्योंकि वह इन्द्रियोंकी शक्तिसे बाहर है इसका समाधान करनेके



निमित्त प्रथम यह सिद्ध करती है कि वेदोंका अर्थ प्रत्यक्ष लिखने में आता है अतीन्द्रिय नहीं है ॥ ४१ ॥

न यज्ञादेः स्वरूपतो धर्मत्वं वैशिष्ट्यात् ॥ ४२ ॥

वेदके अर्थको जो अतीन्द्रिय (जो इन्द्रियोंसे न जाना जाय) कहा वह ठीक नहीं वेदसे जो यज्ञ आदि किये जाते हैं और उनमें जो २ कार्य होते हैं वह सब स्वरूप ही से धर्म है क्योंकि उन सबोंका प्रत्यक्ष फल देवर्षिमें आता है जैसा कि “यज्ञाद् भवति पर्जन्य पर्जन्यादन्न मन्भव” (यज्ञमें वादल होता है और वादलमें अन्न होता है) इत्यादि वाक्य गीतामें पाये जाते हैं। अब यह सन्देह होता है कि जब वेद अपारुपय हों तो उनका अर्थ कैसे जाना जाता है इसका उत्तर यह है कि ॥ ४२ ॥

निजशक्त्युत्पत्त्या व्यक्चिदाते ॥ ४३ ॥

शब्दका अर्थ होना यही शब्दकी स्वाभाविकी शक्ति है वही शक्ति वेदोंके अर्थमें भी विद्वानोंकी परम्परासे चली आती है और उसी व्युत्पत्ति (वाकफियत) में वृद्धलोग ‘इस शब्दका यह अर्थ है’ इस प्रकार पृथक् २ करके शिष्योंको पढ़ाते हैं ॥ अब रहा यह कि वेदका अर्थ प्रत्यक्ष नहीं किन्तु अतीन्द्रिय है उसका भी समाधान यह है कि ॥ ४३ ॥

योग्यायोग्येषु प्रतीतिजनकत्वात् तस्मिन्निः ॥ ४४ ॥

ब्रह्मचर्यादि जिन कार्योंको वेदने योग्य कहा है और हिंसादि जिन दुष्ट कर्मोंको बुरा कहा है उनको प्रतीति प्रत्यक्षमें देखी जाती है अर्थात् इन दोनों कार्योंका जैसा फल वेदमें

कहा वैसी दिखाई पड़ता है। इसमें इस बातकी सिद्धि होगई कि वेदका अर्थ अतीन्द्रिय नहीं है किन्तु उसे समझ सकते हैं। अब नास्तिक इस बात पर मन्देह करता है कि ॥४४॥

न नित्यत्वं वेदानां कार्यत्वश्रुतेः ॥४५॥

“तस्माद् यज्ञात्सर्वहुतः ऋचः सामानि जज्ञिरे” (उस यज्ञरूप परमेश्वरसे ऋग्वेद सामवेद उत्पन्न हुआ ) इत्यादि श्रुतियोंसे विदित होता है कि वेदोंकी उत्पत्ति हुई और जिसकी उत्पत्ति है उसका नाशभी अवश्य ही होगा अतएव वेद कार्य होनेसे नित्य नहीं होसकते । इस पूर्व पक्षका समाधान यह है कि ॥४५॥

न अपौरुषेयत्वं तत्कर्तुः पुरुषस्याभावात् ॥४६॥

जब वेद किसी पुरुषके बनाये हुए नहीं है क्योंकि उनके बसानेवाला पुरुष दिखाई नहीं पड़ता तब यह स्वीकार करना पड़ेगा कि वेद अपौरुषेय है जब अपौरुषेयत्व सिद्ध होगया तो वह ( जिसके कि बनाये हुए वेद है ) नित्य है और नित्यके कार्यभी नित्य होतेही है अतएव वेदोंका भी नित्यत्व सिद्ध हो गया यदि कहो कि किसी जीवनेही वेद बनाये हों सोभी ठीक नहीं क्योंकि ॥ ४६ ॥

मुक्तामुक्तयोरयोग्यत्वात् ॥४७॥

जीव दो प्रकारके होते है एक मुक्त और दूसरे अमुक्त, वह दोनोंही वेद बनानेके अयोग्य है क्योंकि मुक्त जीवमें तो उतनी शक्ति नहीं रहती जिससे वेद बन सकें और, बड़जीव अज्ञानी अल्पज्ञ आदि दोषोंसे ग्रसित रहते है किन्तु वेदोंमें ऐसी बातें

पायी जाती हैं जो बिना सर्वज्ञत्वके नहीं जानी जाती और जीव अत्यन्त है अतएव इस प्रमाणसे भी वेदोंकी नित्यता सिद्ध होगई । नित्यताको अगले सूत्रसे और भी प्रतिपादन करते हैं कि ॥४७॥

नापीरुषेयत्वान्नित्यत्वमदुरादिवत् ॥४८॥

वेद अपीरुषेय है अतएव नित्य है किन्तु बीज और अद्भुरमें जैसे कार्यत्व मानकर अनित्यत्व माना जाता है वैसे नहीं है क्योंकि ॥ ४८ ॥

तेषामपि तद्योगे दृष्टबाधादिप्रसक्तिः ॥४९॥

वेदोंको भी यदि बनानेवाले का योग माना जाय अर्थात् वेदोंको भी यदि बनाया हुआ माना जाय तो, जो प्रत्यक्ष दिखाई पडता है उसमें दोष आवेगा जैसे अद्भुरका एक लगाने-गाना दिखाई पडता है और उपादान कारण बीज दिखाई पडता है इस भांति वेदोंका बनानेवाला और उपादान कारण दिखाई नहीं पडता अतएव नित्य है नित्य न मानने पर प्रत्यक्ष से विरोध होगा । वेदोंको जो अपीरुषेय कहा है उसमें यह शङ्का होती है कि पीरुषेय किसे कहते हैं और अपीरुषेय किसे कहते है इस मन्दहको दूर करनेके निमित्त पीरुषेयका लक्षण करते है कि ॥ ४९ ॥

यस्मिन्नदृष्टेऽपि कृतबुद्धिरुपजायते तत्पैरुषेयम् ॥५०॥

कि जिसका कर्त्ता चाहे दिखाई न पड़े तोभी पदार्थके देखनेसे यह बुद्धि हो कि यह किसीका बनाया हुआ है बस इसीको पीरुषेय कहते हैं परन्तु वेदोंके देखनेसे यह बुद्धि उत्पन्न नहीं

होतो क्योंकि वेदोंकी ईश्वरसे उत्पत्ति मानी गई है किन्तु उनका बनानेवाला कोई नहीं है और उत्पत्ति एवं बनानेमें इतना अन्तर है कि बीजसे अङ्गुर उत्पन्न हुआ तथा कुलालने घटको बनाया इसी भांति वेदोंकी उत्पत्ति मानी गई है किन्तु वह उत्पत्ति घटादिकी भांति नहीं है अतएव वेद अपौरुपेय है । अब यह सन्देह होता है कि जब वेदोंमें भी वही अर्थ है जो कि लौकिक बातों है तब वेदको क्या प्रमाण माना जाय ? इसका उत्तर यह है कि ॥ ५० ॥

निजगन्तयभिव्यक्तेः स्वतः प्रामाण्यम् ॥५१॥

वेदोंकी जो स्वाभाविकी शक्ति है अर्थात् जिस (वेद) के जाननेमें आयुर्वेद कला-कौशल आदि सब विद्याओंकी प्रकटता होती है वह वेद स्वतः प्रमाण है उसमें दूसरे प्रमाणकी आवश्यकता नहीं क्योंकि जो स्वयं द्रमरंगका प्रमाण है उसका प्रमाण कोन हो सकता है ? जैसे सेर, दुमेरी आदि मापक पदार्थ तोलनेके लिये प्रमाण है परन्तु सेर दुमेरी आदि क्या प्रमाण हैं यह शङ्का नहीं हो सकती किन्तु उनके स्वतः प्रमाण मानना पड़ेगा ; इसी भांति वेदोंकी भी समझना चाहिये ॥ पहले जो 'न त्रिभिः' इस ४१ वे सूत्रमें नास्तिकने यह पूर्वपक्ष किया था कि वेदका अर्थ नहीं हो सकता उसका उत्तर-पक्ष वहाँ भी प्रतिपादन किया और अब फिर उसीकी दृष्टान्त आदिसे प्रतिपादन करते हैं ॥ ५१ ॥

नासतः ख्यानं नृशृङ्गवत् ॥ ५२ ॥

मनुष्यके सींगकी भांति जो पदार्थ नहीं है उसका कथनभी

नहीं बन सकता, इसी भाँति यदि वेदोंका कुछभी अर्थ न होता तो क्यों वृद्धलोग परम्परासे शिष्योंका पटा कर प्रसिद्ध करते ? इस से वेदका अर्थ मानना ही पड़ेगा ॥ ५२ ॥

न मतो बाधदर्शनात् ॥ ५३ ॥

और जो पदार्थ मत् है उसका बाध (नाश) नहीं होता अतएव वेदार्थ नहीं है ऐसा नहीं कह सकते । अब यह मन्देह होता है कि 'वेदार्थ है या नहीं है', इसे भगईंम न पड कर मौधा यही न कह दिया जावे कि वेदका अर्थ है तो सही पर कहनेमें नहीं आता इस शङ्काका उत्तर यह है कि ॥ ५३ ॥

नानिर्वचनीयस्य तदभावात् ॥ ५४ ॥

वेदके अर्थकी अनिर्वचनीय कल्पना करना भी ठीक नहीं होमकता क्योंकि जो कहनेमें न आवे ऐसा कोई पदार्थ लोकमें दिखाई नहीं पडता और कल्पनाभी ऐसीही पदार्थ की कीजाती है जैसा कि लोकमें देखा जाय अतएव अनिर्वचनीय मानना भी ठीक नहीं ॥ ५४ ॥

नान्यथाख्यातिः स्वचोव्याघातात् ॥ ५५ ॥

अन्यथा ख्याति,\* भी नहीं कह सकते क्योंकि उस प्रकार कहने पर अपने ही कहने में दोष आता है । इस सूत्रका

\* अन्यथा ख्याति उसे कहते हैं कि जो पदार्थ दूसरा हो और दूसरी भाँति प्रसिद्ध किया जाय । जैसे मौपमें चादीका प्रसिद्ध करना ।

आशय यह है कि 'वेदका अर्थ दूमरा है किन्तु लोकमें दूसरे प्रकारसे प्रसिद्ध हो रहा है' इस प्रकारकी अन्यथाऽऽख्याति करने पर यह दोष होगा कि जो लोग वेदका अर्थही न मानकर अनिर्वचनीय कहते हैं वह अन्यथा ख्यातिको स्वीकार क्यों कर सकते हैं ? यह कथन उनके वचनही से विरुद्ध होगा ॥ ५५ ॥

### मदसत्ख्यातिबाधावाधात् ॥ ५६ ॥

यदि 'है' और 'नहीं भी है' इस प्रकार वेदका अर्थ माना जाय क्योंकि जो लोकमें चतुर नहीं है उनको वेदके अर्थका बाध (अप्रतीति) होता है और जो लोकमें चतुर है उसे अबाध (प्रतीति) होता है इस भाँति "स्यादस्ति स्याद्वास्ति" इस जैनों के मतानुसारही माना जावे तोभी ठीक नहीं । इस सूत्रमें पूर्व सूत्रसे नकारकी अनुवृत्ति होती है । "नामत.ख्यान नृशृङ्गवत्" इस सूत्रसे लेकर ५६ वे सूत्र तक जो अर्थ विज्ञान-भिन्न किया है और "गुणादीना नात्यन्तबाधः" इस सूत्रवाले आशयसे मिलाया है वह ठीक नहीं क्योंकि वैसा अर्थ करनेसे प्रसङ्गमें विरोध आता है । दूसरे यह कि इस ५६ वे सूत्रको जो कपिल-मुनिके सिद्धान्त पक्षमें रखकर गुणाका बाध और अबाध दोनों ही माने हैं वहभी ठीक नहीं, क्योंकि "न तादृक् पदार्थाप्रतीतेः" इस सूत्रमें आचार्य पूर्वही कह चुके हैं कि असत् और सत् इन दोनों धर्मोंवाला कोई पदार्थ लोकमें प्रतीत नहीं होता, फिर क्या आचार्यभी अज्ञान भिन्नकी भाँति ज्ञान रहित थे जो अपने पूर्वापर कथनको ध्यानमें न रख कर गुणाको सत् और असत् उभयरूप कहते । यहाँ तक वेदोंकी उत्पत्ति और नित्यता

प्रतिपादन कर चुके। अब शब्दके सम्बन्धमें विचार करते हैं ॥५६॥

प्रतीत्यप्रतीतिभ्यां न स्फोटोत्पत्तकः शब्दः ॥ ५७ ॥

जो शब्द मूलसे निकलता है उस शब्दके अतिरिक्त, जो उस शब्द में अर्थका ज्ञान करानेवाली शक्ति है उसे स्फोट कहते हैं इसमें यह न समझ लेना चाहिये कि घट इतना मुखसे निकलने पर कम्बु सीधा वाला जो पदार्थ है उसका नाम घट है किन्तु जिस शक्तिसे उसका बोध होता है वही स्फोट कहाता है किन्तु स्फोटोत्पत्तक शब्द नहीं हो सकता क्योंकि इसमें दो प्रकार के तर्क हैं। एक तर्क है कि शब्दकी प्रतीति होती है वा नहीं ? यदि प्रतीति होती है तब तो जिस अर्थवाले वर्ण समूहसे पूर्वापर मिला कर अर्थकी प्रतीति और वाच्य ( कहने योग्य ) बन्धु का बोध है उसके अतिरिक्त स्फोटको मानना निरर्थक है क्योंकि शब्दसे ही अर्थ ज्ञान हुआ, स्फोटसे नहीं। और यदि यह कही कि शब्दकी प्रतीति नहीं होता तब अर्थही नहीं, फिर स्फोटसे

१ स्फोटवाद एक वैयाकरणों का मत है महाभाष्यकार महर्षि पतञ्जलिने भी पहलका है क्योंकि व्याकरण महाभाष्यमें इसका जिक्र है और इसका विशेष भगडा वैयाकरण-भूषणसे पाया जाता है परन्तु महर्षि कपिल उसे नहीं मानते क्योंकि निरर्थक भगडा है। स्फोटवादके जाननेवाले विद्वानोंकी संख्या भारतमें बहुतही न्यून रह गई है अतएव सम्भव होता है कि यदि एसीही दशा रही तो स्फोटवाद लुप्त होजायगा।

यह शक्ति कहासे आई जो बिना अर्थके अर्थकी प्रतीति करा सके इससे स्फोटकी कल्पना करना व्यर्थ है । अब यह पूर्वपक्ष किया जाता है कि शब्द नित्य नहीं है ॥ ५७ ॥

न शब्दनित्यत्वं कार्य्यताप्रतीतिः ॥ ५८ ॥

शब्द नित्य नहीं है क्योंकि यह गकार उत्पन्न हुआ इत्यादि अनुभवोंसे मालूम पड़ता है कि शब्दभी कार्य्य है । इस पूर्वपक्ष का उत्तर यह है कि ॥ ५८ ॥

पूर्वसिद्धसत्त्वस्याभिव्यक्तिर्दीपेनैव घटस्य ॥ ५९ ॥

जिस शब्दकी सत्ता ( ज्ञाना ) पूर्वहीसे सिद्ध है उसका उच्चारण करके केवल प्रकटता मात्रकी जाती किन्तु उसकी (शब्दकी)उत्पत्ति नहीं ज्ञाती जैसे जो घट अन्धेरमें रखा था उसे दीपकके प्रकाशमें प्रकट कर दिया किन्तु इसमें यह नहीं हो सकता कि दीपकमें घट उत्पन्न हुआ इसी भांति शब्द पूर्वहीसे सिद्ध है कथनमें केवल प्रकटता मात्र हीती है अतएव शब्द नित्य है । इस स्थल परभी अज्ञान भिन्नन खूबही उलटा अर्थ लगाकर अज्ञानता दिखाई है परन्तु विस्तर भयसे हम उसका उल्लेख नहीं करते ॥ ५९ ॥

सत्कार्यसिद्धान्तश्चेत् सिद्धसाधनम् ॥ ६० ॥

यदि यह कहो कि कार्य्य जिस अवस्थामें दिखाई पड़ता है उसी अवस्थामें सत् है और अवस्थाओंमें असत् है इसी भांति शब्दभी कार्य्य है और अपनी अवस्थामें सत् है ऐसा मानेंगे तो



आचार्य कहते हैं कि ऐसा मानने पर हम शब्दके सम्बन्धमें सिद्ध-साधन कहेंगे अर्थात् जो शब्द पूर्व हृदिस्थ था उसीको उच्चारण आदि क्रियाओंसे स्पष्ट किया किन्तु घटादिकी भांति बनाया नहीं। यह शब्दका विचार यहीं तक समाप्त हुआ इससे आगे जीव एक है वा अनेक इस विषय पर विचार आरम्भ करेंगे ॥ ६० ॥

नाद्वैतमात्मनो लिङ्गात् तद्भेदप्रतीतिः ॥ ६१ ॥

जीव एकही नहीं है क्योंकि अनेक व्यक्तियोंमें अनेक जीव है इस चिह्नसे उसकी भेद अर्थात् बहुत होना सिद्ध होता है। इस सूत्रका दूसरा अर्थ यह भी होसकता है कि जीव और ईश्वर इन दोनोंका अभेद मानकर जो अद्वैत माना जाता है वह ठीक नहीं है क्योंकि जीवके जो अल्पज्ञादि चिह्न है और ईश्वरके जो सर्वज्ञादि चिह्न है उनमें दोनोंमें भेद प्रतीत होता है ॥ ६१ ॥

नानात्मनापि प्रत्यक्षबाधात् ॥ ६२ ॥

अनात्म जो सुख दुःखादिकोंके भोग हैं उनसे भी यही सिद्ध होता है कि जीव एक नहीं है क्योंकि एक मानने पर प्रत्यक्षमें विरोध आता है लोकमें देखा जाता है कि सुख दुःख अनेक व्यक्ति एक कालही में भोग करते हैं। दूसरे पक्षमें ऐसा अर्थ इस प्रकार लगाना चाहिये कि जो लोग एकही आत्माके अतिरिक्त और कुछ नहीं मानते उनके सिद्धान्तमें पूर्वोक्त दोषके अतिरिक्त एक दोष यह भी होगा कि घटादिक कार्थियोंको भी आत्मा मनकर उनके नाश होते ही आत्माका नाश मानना

पडेगा यह प्रत्यक्षमे विरोध होगा अतएव वैसा अद्वैत मानना ठीक नहीं ॥ ६२ ॥

नीभाभ्यां तेनैव ॥ ६३ ॥

उमी, प्रत्यक्ष प्रमाणमे बाधा पहुँचनेके कारण, आत्मा और अनात्मासे एकता कहना ठीक नहीं । इस सूत्रका आशय यह हुआ कि जब पूर्वोक्त रीति पर एक आत्मा ही माननेपर प्रत्यक्ष प्रमाणमे बाधा पहुँचतीहै और देखा जाता है कि लोकमे आत्म और अनात्म दो पदार्थ भिन्न दिखाई पड़ते हैं तब “एक आत्मा के अतिरिक्त और कुछ नहीं” यह कथन ठीक नहीं हो सकता । अब यह सन्देह होता है कि जब एमा माना जाता है तब “एकमेवाद्वितीय ब्रह्म” “आत्मैवदं सर्वम्” ( एक ही ब्रह्म अद्वितीय है ) ( यह सब आत्मा ही है ) इत्यादि श्रुतिया एक ही आत्मा बताती है तब बहुतमे आत्मा वा जीव ब्रह्म पृथक् पृथक् क्यों माने जाय ? इसका समाधान यह है कि ॥६३॥

अन्यपरत्वमविवेकानां तत्र ॥ ६४ ॥

उन श्रुतियोंमे अन्य-परत्व अर्थात् अद्वैत है एसा सूखोंकी प्रतीत होता है जो विद्वान् है वह उन श्रुतियोंका वैसा अर्थ नहीं लगाते क्योंकि वहाँ अद्वितीय शब्दसे यह अभिप्राय है कि ईश्वरके सदृश कोई दूसरा नहीं । जो एक आत्मा ही मानते हैं उनके मतमें जगत्का उपादान कारणही ठीक नहीं हो सकता क्योंकि ॥ ६४ ॥

## नात्माविद्या नोभयं जगदुपादानकारण

निःसङ्गत्वात् ॥ ६५ ॥

आत्मा तो जगत्का उपादान कारण यों नहीं हो सकता कि वह कूटस्थ (निर्विकार) है और अविद्या यो नहीं हो सकती कि उसे सत् माननेमें ही तापति और असत् मानने पर वक्ष्या पुत्रक समान अभाववती हो जायगी अतएव उसे भी नहीं मान सकते। और आत्मा तथा अविद्या दोनों मिल कर जगत्का उपादान कारणयों नहीं हो सकते कि आत्मा संग-रहित है इसी लिये जो एक आत्माके अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं मानते उनके मतमें जगत्का उपादान कारण सिद्ध नहीं होता है ॥६५॥

नैकस्यानन्दचिद्रूपत्वं हयोर्भेदात् ॥ ६६ ॥

ईश्वरको वेदादिकीमें सच्चिदानन्द स्वरूप कहा है और जीवमें आनन्द आर चिद्रूप नहीं है इसीसे दोनोंका भेद सिद्ध है ॥ अब इसमें यह मन्देह होता है कि जब जीवमें आनन्द नहीं मानते तो मुक्तिका उपदेश क्यों दिया ? क्योंकि मुक्ति अवस्थामें दुःख निवृत्त हो जाने पर आनन्द होता ही है इसका समाधान यह है कि ॥ ६६ ॥

दुःखनिवृत्तगौणः ॥ ६७ ॥

मुक्ति अवस्थामें जो दुःख निवृत्तका सिद्धान्त कहा वह गौण है अर्थात् यद्यपि मुक्ति अवस्थामें दुःखकी निवृत्ति होती है

परन्तु उस समय भी जीवमें कर्मोंकी वासना बनी रहनेके कारण फिरभी दुःख उत्पन्न होनेकी सम्भावना रहती है अतएव जीवको सदैव आनन्द नहीं रहता इसीसे उसे आनन्द स्वरूप नहीं कह सकते । आनन्द स्वरूप तो ईश्वर ही है । अब यदि कोई यह कहें कि जब आपकी एमी मुक्ति है जिसके होने पर फिर भी कालान्तरमें दुःख उत्पन्न होनेकी सम्भावना रहती है तो उसको अपेक्षा बड़ रहना ही अच्छा, इस पर कहते हैं कि ॥६७॥

### विमुक्तिप्रशंसा मन्दानाम् ॥ ६८ ॥

विमुक्ति अर्थात् बड़ रहनेकी ही प्रशंसा करना मूर्खोंका काम है क्योंकि जैसे कोई मनुष्य किसी भारी रोगमें ग्रसित हो उससे वैद्य कहेंकि “मेरी दवा तेरे रोगको दूर तो कर देगी और तू नीरोग भी हो जायगा परन्तु सदैवके लिये रोग न जायगा” तब क्या रोगीको उचित है कि एसी औषधको न खाय ? अवश्यखानी चाहिये क्योंकि जितने दिवसको रोग दूर हुआ उतने दिनतो आनन्द रहेगा इसी भाँति मुक्ति भी जानो ; जो एसा नहीं मानते वह मूर्ख है । कोई २ मनको नित्य मानते है उनके मतका खण्डन करते है ॥ ६८॥

न व्यापकत्वं मनसः करणत्वादिन्द्रियत्वाद्वा ॥ ६९ ॥

मनको भी इन्द्रिय ही माना है अथवा इन्द्रियोंकी प्रवृत्ति में करण(जिससे इन्द्रियों प्रवृत्त हों) माना है इसीसे मन व्यापक नहीं है ॥६९॥

सक्रियत्वाद् गतिश्रुतेः ॥ ७० ॥

मन सक्रिय ( जिममें क्रिया ही ) है इसी से वह प्रत्येक इन्द्रियके व्यापार और प्रवृत्तिका हेतु भी है अतएव उसकी गति सुनी जाती है । अब यह सन्देह होता है कि यदि मन नित्य नहीं मानते तो नमही किन्तु उसे निर्विभाग, कारण रहित तो मानना चाहिये तब इसका उत्तर यह है कि ॥७०॥

न जिर्भागत्वं तद्योगाद्भूतम् ॥ ७१ ॥

जैसे घट आदि सृत्तिकारके कार्य से इसी भाँति मन भी क्रियाका कार्य है और जब कार्य है तब उसे कारणका योग अवश्य ही होगा । इस सत्के अर्थमें विज्ञान भिन्नमें निर्विभागका अर्थ निरवयवत्व करके यह आशय निकाला है कि "मन अनेक इन्द्रियोंके साथ एक ही समयमें योग रचना के अतएव निर्विभाग नहीं है" परन्तु यह अर्थ निकाल ही अज्ञता पुरित है क्यों कि यदि अनेक पदार्थोंके साथ योग रखनेसे ही निर्विभागत्व असिद्ध होता है तो ईश्वर भी जगत्के सब पदार्थोंसे व्यापकताका योग रखता है अतएव उसे भी निर्विभाग कहना नहीं बनेगा इसीसे विज्ञान-भिन्नका अर्थ ठोक नहीं जा सकता । अब यह सन्देह होता है कि मन नित्य है वा अनित्य ? इसके उत्तरमें महर्षि कपिल अपना मिथान्त कहते हैं कि ॥ ७१ ॥

प्रकृतिपुरुषयोरन्यत् सर्वमनित्यम् ॥ ७२ ॥

\* प्रकृति और पुरुषके सिवाय जो कुछ इनके कार्य (मन

\* पुरुषश्च पुरुषश्च पुरुषो "स्वरूपाणामेक-शेष एकविभक्तौ"

आदिक हैं) वह सब अनित्य है । इस सूत्रसे यह न समझ लेना चाहिये कि कपिलमुनि ईश्वरको नहीं मानते थे अतएव उसे नित्यमें परिगणित नहीं किया क्योंकि प्रथमतो जब संसारके पदार्थोंकी नित्यता और अनित्यता पर विचार करते है तब ईश्वरकी नित्यता अनित्यताका यहां प्रसङ्ग ही क्या है ? और यदि हठात् कोई इस प्रकार सन्तुष्ट न हो तो पुरुष शब्दके कथन से ईश्वरका भी ग्रहण होता है क्योंकि सर्वत्र पूर्ण होनेसे ईश्वर का नाम पुरुष और शरीरमें शयन करने से जीवका भी नाम पुरुष है । अब यह सन्देह होता है कि प्रकृति और पुरुषही नित्य क्यों है ? इसका उत्तर यह है कि ॥ ७२ ॥

न भागलाभो भोगिनो निर्भागत्वश्रुतेः ॥ ७३ ॥

जो स्वयं कारण रूप है उसका ( कारणका ) और कोई कारण नहीं बनसकता एवं उसे सब, कारण रहित मानते चाये हैं अतएव प्रकृति और पुरुष नित्य है । इस सूत्रका आशय यह हुआ कि जब प्रकृति और पुरुष स्वय ही जगत्का कारण कहे जाते है तब उनका कारण और कोई नहीं हो सकता जैसा कि “मूले मूलाभावादमूलं मूलम्” इस सूत्रसे बता चुके हैं जब प्रकृति और पुरुष कारण रहित है तब नित्य

इस पाणिनीय सूत्रसे एक शेष समास करके ईश्वर और जीव दोनों को पुरुष शब्दसे बोधित किया है ईश्वरका पृथक् नाम इस लिये नहीं लिया कि जब एक शब्द दोनों अर्थोंका बोधक है तो पृथक् नाम लेकर क्या अच्छर बढ़ाये जावे ?

भी अवश्य ही हैं। अब यह सन्देह होता है कि पुरुषकी मुक्ति क्यों मानी जाती है ? इस शङ्काका समाधान अगले सूत्रसे करते हैं ॥७३॥

नानन्दाभिव्यक्तिर्मुक्तिर्निर्धर्मत्वात् ॥ ७४ ॥

प्रधानकी आनन्दकी अभिव्यक्ति नहीं ही सकती अतएव उसकी मुक्तिभी नहीं कह सकते क्योंकि आनन्द प्रधानका धर्म नहीं है ॥ ७४ ॥

न विशेषगुणोच्छित्तिस्तद्वत् ॥ ७५ ॥

सत्व, रज, तम, इनका नाश हो जाना भी मुक्ति नहीं हो सकती क्योंकि उपरोक्त तीन गुण प्रधानके स्वाभाविक धर्म हैं उनका नाश होना प्रधानका धर्म नहीं है इसीसे उसकी मुक्ति नहीं मानी जाती ॥ ७५ ॥

न विशषगतिर्निष्क्रियस्य ॥ ७६ ॥

किसी प्रकारकी विशेष गति अर्थात् ऊपर नीचे जाना जाना यह भी भुक्ति नहीं हो सकती क्योंकि प्रधान निष्क्रिय है जितनी क्रिया है वह पुरुषके संसर्गसे होती है प्रधान स्वयं नहीं कर सकता ॥ ७६ ॥

नाकारोपरागोच्छित्तिः क्षणिकत्वादिदोषात् ॥ ७७ ॥

आकारके सम्बन्धको छोड़ देनेका नाम भी मुक्ति नहीं हो सकती क्योंकि उसमें क्षणिकत्व आदि दोष आते हैं। इस सूत्रका आशय यह है कि जैसे प्रकृतिका आकार घट है उसका फूट

जाना यही प्रकृतिको मुक्तिमानली जाय वह ठीक नहीं हो सकता क्योंकि उसमें क्षणिकत्व आदि अनेक दोष आवेंगे । अर्थात् अभी एक घट फूटा तब तक दूसरा बनकर तयार हो गया इत्यादि कारणोंसे प्रधानकी मुक्ति नहीं मानी जा सकती ॥ ७७ ॥

न सर्वोच्छित्तिरपुरुषार्थत्वादिदोषात् ॥ ७८ ॥

सबका छोड़ देनाभी सोच नहीं हो सकती यदि प्रधान सबको (सृष्टि रचना आदि) छोड़देतांभी उसकी मुक्ति कहना नहीं बनसकता क्योंकि प्रधानके सब कार्य पुरुषके लिये है जैसा कि 'विमुक्तमोक्षार्थं स्वार्थं वा प्रधानस्य' इस सूत्रमें कह आये है फिर अपुरुषार्थत्व हो जावेगा ॥ ७८ ॥

एव ग्रन्थमपि ॥ ७९ ॥

और ( पुरुषके लिये न होना ) उपरोक्त प्रकारसे यदि सब को छोड़ देनाही प्रधानकी मुक्तिका लक्षण मानभी लिया जावे तो वह मुक्ति शून्य रहेगी अर्थात् आनन्द न होनेसे किसी काम की नहीं है अतएव वह पक्ष ठीक नहीं ॥ ७९ ॥

संयोगाश्च वियोगान्ता इति न देशादिलाभोऽपि ॥८०॥

यदि कहे कि पुरुषके साथ रहनेवाली प्रकृति किसी विशेष देशमें पुरुषको छोड़दे वही मुक्ति क्यों न मानली जावे ? तो उसके उत्तर पक्षमें यह सूत्र है । कि जो संयोग है वह तो वियोगान्त होता ही है फिर किसी देशमें जाकर वियोग हुआ तब क्या



मुक्ति हो सकती है ? कदापि नहीं इसी भांति जब प्रकृति और पुरुषका संयोग है तो वियोग भी अवश्य होगा उसमें फिर देश-लाभ होने हीसे क्या मुक्ति हो सकती है ? ॥ ८० ॥

न भागि-योगो भागस्य ॥ ८१ ॥

महत्त्व आदिक जो प्रधानके भाग (अश) हैं उनका अपने भागी अर्थात् प्रधानमें मिलजाना यह भी मुक्तिका लक्षण नहीं हो सकता क्योंकि वह तो उसमें मिलते ही है ॥ ८१ ॥

नाग्निमादियोगोऽप्यवश्यं भावित्वात् तर्दाच्छत-  
गितरयोगवत् ॥ ८२ ॥

पुरुषके योगमें अग्निमादि ऐश्वर्यका योग होनाभी प्रधानकी मुक्तिका लक्षण नहीं है क्योंकि जो योग है उसका तो वियोग अवश्यही होगा जैसा कि दृश्य पदार्थोंमें प्रतीत होता है ॥ ८२ ॥

नेन्द्रादिपदयोगोऽपि तद्वत् ॥ ८३ ॥

पुरुषके योगमें इन्द्रादि पद तक पहुँच जानाभी प्रधानकी मुक्तिका लक्षण नहीं हो सकता क्योंकि यह सबभो पूर्वोक्त दोषोंसे दूषित है अर्थात् नाशवान् है ॥ प्रधानकी मुक्ति क्यों नहीं होती यह जो पूर्वपक्ष किया था उसका उत्तर पक्ष यहाँ तक समाप्त हो गया । इससे आगे "अहङ्कारिकत्व-श्रुतेर्नभौतिकानि" इस सूत्रमें जो बात सूक्ष्मरीतिसे कही है उसीको कहते हैं ॥ ८३ ॥

न भूताप्रकृतित्वमिन्द्रियाणामाहङ्कारिकत्वश्रुतेः ॥८४॥

इन्द्रियोंकी भौतिक प्रकृति नहीं है अर्थात् जो बात पृथिव्यादि भूतोंमें पाई जाती है वह इन्द्रियों में नहीं है अतएव इन्द्रिय भौतिक नहीं है किन्तु अहङ्कारसे उत्पन्न हुई हैं। अब यह सन्देह होता है कि सांख्यके मतानुसार प्रकृति और पुरुषका ज्ञान होना ही मुक्ति का हेतु है किन्तु वैशेषिकादिकोंने जो छः पदार्थ माने उनके ज्ञानसे मुक्ति क्यों नहीं हो सकती इसका उत्तर यह है कि ॥ ८४ ॥

न षट्पदार्थनियमस्तद्बोधान्मुक्तिः ॥ ८५ ॥

‘पदार्थ छः से अधिक नहीं है’ यह नियम नहीं किन्तु असंख्य पदार्थ है अतएव जब असंख्य पदार्थ जाननेको है तो छः पदार्थोंके जानलेने से ही मुक्ति नहीं हो सकती ॥ ८५ ॥

षोडशादिष्वप्यवम् ॥ ८६ ॥

गौतमादिक जो कोई सोलह पदार्थ मानते हैं किम्बा इनसे अधिक कोई पञ्चीश पदार्थ मानते हैं उनके ज्ञानसे भी मुक्ति नहीं हो सकती क्योंकि असंख्य पदार्थ हैं। अब यह सन्देह होता है कि वैशेषिकादिकोंका मत दूषित क्यों किया जाता है क्योंकि वह तो पृथिवी आदिके अणुओंको नित्य मानते हैं इसका उत्तर यह है कि ॥ ८६ ॥

नाणुनित्यता तत्कार्यत्वश्रुतेः ॥ ८७ ॥

पृथिवी आदिके अणुओंको नित्य नहीं कह सकते क्योंकि उन्हें श्रुतियोंमें कार्यरूप कहा है। किस श्रुतिमें अणुओंको कार्य-

रूप कहा है वह श्रुति तो आचार्योंने ही कहीं पर देखी होगी किन्तु हमारी दृष्टिमें नहीं आती परन्तु अणुओंको कार्यरूप बनानेवाली श्रुति होगी अवश्य, क्योंकि मनुने भी पृथिवी आदि के अणुओंको विनाशो माना है यथा—

अण्वोमात्रा विनाशिन्यो दशार्दानी तु याः स्मृताः ।

ताभिः सार्द्धमिदं सर्वं सम्भवत्यनुपूर्वश ॥ अ० १ श्लो० २७ ॥

इसका अर्थ यह है कि विनाश होनेवाली जो पञ्चभूत ( पृथिवी आदि ) की अणुमात्रा ( छोटीमात्रा ) है उनके साथ यह जगत् उत्पन्न होता है । इससे विदित होता है कि आचार्यने अवश्य कोई श्रुति एसी देखी होगी जिसमें अणुओंकी कार्यरूप निरखा ही नहीं तो मनुभी विनाशो क्या कहते ? अणुओंके कार्यरूप होनेमें तो यही युक्ति उत्तम है कि जब पृथिवी आदि साकार हैं तो उनके अणु भी साकार ही होंगे जब साकार हुए तो किसीका कार्यभी अवश्य हुए इससे पृथिवी आदिके अणुओंको नित्य नहीं कह सकते । अब रहा यह सन्देह कि यदि अणु नित्य नहीं तो न सही किन्तु उनका कोई कारण नहीं दीखपड़ता इससे उन्हें कारण रहित तो मानना चाहिये ? इसका उत्तर यह है कि ॥ ८७ ॥

न निर्भागत्वं कार्यत्वात् ॥ ८८ ॥

जब अणुकार्य है तब उन्हें कारण रहित नहीं कह सकते क्यों कि जो कार्य है उसका कोई कारण भी अवश्य ही होगा । अब यह सन्देह होता है कि जब प्रकृति और पुरुष दोनों ही आकार रहित है तो उनका प्रत्यक्ष किसप्रकार हो सकता है ?

क्योंकि जब तक रूप न होगा तब तक प्रत्यक्ष ही ही नहीं सकता \* इसका उत्तर यह है कि ॥ ८८ ॥

न रूपनिवन्धनात् प्रत्यक्षनियमः ॥ ८९ ॥

बिना रूपके प्रत्यक्ष न ही यह कोई नियम नहीं है । क्यों कि जो बाहरकी चीज है उसके देखनेके लिये अवश्यमेव इन्द्रिय से योगकी अवश्यकता रहती है, किन्तु जो ज्ञानसे जाना जाता है उसके मरूपवान् होनेकी कोई आवश्यकता नहीं रहती और नास्तिक लोग जो यह कहते हैं कि साकार पदार्थही प्रत्यक्ष होते हैं निराकार नहीं होते यह भी नियम ठीक नहीं क्योंकि जब नेत्र आदि इन्द्रियोंमें दोष होता है तब सम्मुख रखे हुए घटका भी प्रत्यक्ष नहीं होता इसीसे सिद्ध हुआ कि पदार्थका मरूपत्व होना प्रत्यक्ष होनेमें नियम नहीं किन्तु इन्द्रियकी स्वच्छता हेतु है । अब यहाँ पर यह प्रश्न हो सकता है कि आपने जो अणुश्रीको कार्यरूप कह कर अनित्य सिद्ध कर दिया तो क्या अणु कोई ब्रह्म आपके मतमें है या नहीं ? इस पर आचार्य अपना मत कहते हैं ॥ ८९ ॥

न पारमाण्वात्तुर्विध्यं द्वाभ्यां तद्योगात् ॥ ९० ॥

जो लोग अणु, महद्, दीर्घ, क्लृप्त, यह चार प्रकारके परिमाण मानते हैं वह ठीक नहीं क्योंकि जो बात वह लोग चार विभाग मानकर सिद्ध करते हैं वह बात अणु और महत् इस

\* बिना रूपके प्रत्यक्ष नहीं होता ऐसा नास्तिक लोग मानते हैं अतएव यह पूर्वपक्ष भी नास्तिक हीका है ।

दो प्रकारके परिमाणसे भी सिद्ध हो जाती है दीर्घ और ब्रह्म यह दोनों महत्के अवाप्सर भेद है यदि इसी प्रकार गणना बढ़ानी हो तो एक तिरछा अणु, एक सीधा अणु, ऐसे ही बहुत से भेद कल्पना किये जासकते हैं परन्तु वह कल्पना ठीक नहीं हो सकती और हमने (आचार्योंने) जो अणुओंको अनित्य कहा था वह केवल वैशेषिकादिके मतको दूषित करनेके लिये पृथिवी आदिके अणुओंको अनित्य कहा था किन्तु अणु परिमाण द्रव्योंको अनित्य नहीं किया था क्योंकि हमेंभी तो अणु नित्य मानने पड़ते हैं ॥ अब यह मन्देह होता है कि जब प्रकृति और पुरुषके अतिरिक्त सबको अनित्य कहा तो प्रत्यभिज्ञा \* किस प्रकार हो सकती है क्योंकि जब सब पदार्थोंको नाशवान् माननेगे तब प्रत्यभिज्ञा नहीं हो सकती इसका उत्तर यह है कि ॥ ६० ॥

अनित्यत्वेऽपि स्थिरतायोगात् प्रत्यभिज्ञान

सामान्यस्य ॥ ६१ ॥

यद्यपि प्रकृति और पुरुषके अतिरिक्त जितने सामान्य पदार्थ हैं वह अनित्य हैं तोभी हम उनके स्थिर मानते हैं किन्तु क्षणिक-वादियोंकी भांति प्रतिक्षणमे परिवर्तनशोल नहीं मानते इसीसे प्रत्यभिज्ञा हो सकती है ॥ ६१ ॥

न तदपलापस्तस्मात् ॥ ६२ ॥

अतएव सामान्य कुछ पदार्थ न रहा ऐसा नहीं कह सकते ।

\* प्रत्यभिज्ञाका लक्षण प्रथम पाठमें करचुके हैं ।

परन्तु सामान्य पदार्थ नित्य नहीं है यही कह सकते हैं किन्तु सामान्य कुछ है ही नहीं यह कह सकते ॥ ८२ ॥

नान्यनिवृत्तिरूपत्व' भावप्रतीतिः ॥ ८३ ॥

\* सामान्य पदार्थोंकी अन्य-निवृत्तरूप अर्थात् अनित्य नहीं कह सकते क्योंकि उनकी विद्यमानता दिखाई पड़ती है। इस सूत्रका आशय यह है कि जब आचार्य प्रकृति और पुरुषके अतिरिक्त सबको अनित्य मानते हैं तो प्रत्यभिज्ञा न हो सकेगी उस शब्दाको दूरकरनेके निमित्त यह सूत्र कहा गया है कि सामान्य पदार्थ सर्वथा अनित्य नहीं हो सकते क्योंकि उनकीभी प्रतीति होती है। अब यह सन्देह होता है कि प्रत्यभिज्ञाके लिये सामान्य पदार्थोंकी स्थिर माननेकी क्या आवश्यकता है? क्योंकि जिस पदार्थमें प्रत्यभिज्ञा होती है वैसाही दूसरा पदार्थ हो उसमें भी प्रत्यभिज्ञा हो सकती है जैसे किसी समयमें घट को देखा था कुछ दिनोंके उपरान्त उसी प्रकारका एक घट और देखा उसमें भी यही व्यवहार हो सकता है कि जो पहले घट देखा था वही यह है क्योंकि दोनों घट समान हैं आचार्य इस मन्तव्यको अयुक्त सिद्ध करते हैं कि ॥ ८३ ॥

न तत्त्वान्तरं सादृश्यं प्रत्यक्षोपलब्धः ॥ ८४ ॥

एक घटके समान दूसरा घट प्रत्यभिज्ञाका हेतु नहीं हो सकता क्योंकि यह बात प्रत्यक्षही से देखली जाती है कि जो घट पूर्वकालमें देखा था उसमें और दूसरे घटमें विभेद (फर्क)

३ अन्यशब्देनात्र नित्यस्य ग्रहणं क्रियतेऽनित्यस्य प्रसङ्गत्वात् ।

है अतएव सदृश पदार्थ प्रत्यभिज्ञाका हेतु नहीं है इसीसे सामान्य पदार्थ और उनकी स्थिरता स्वीकार करनी पड़ेगी। अब रहा यह सन्देह कि एक घटमें जो शक्ति है दूसरे घटमें भी वही शक्ति है उसी शक्तिकी अभिव्यक्ति (प्रकटता) से प्रत्यभिज्ञा क्यों न मानी जाय ? अर्थात् सब घट एकही शक्तिवाले हैं इस नियमसे दूसरे घटके देखनेमें प्रत्यभिज्ञा क्यों न मानी जाय इस का समाधान यह है कि ॥ ८४ ॥

निजशक्त्यभिव्यक्तिर्वा वैशिष्ट्यात् तदुपलब्ध्यः ॥८५॥

✽ घटादिकोकी शक्तिकी प्रकटता भी प्रत्यभिज्ञामें हेतु नहीं हो सकती क्योंकि यह बात तो अर्थापत्तिसे सिद्ध है कि यदि सब घटोंमें समान शक्ति न होती तो उनका घट नाम क्यों रखा जाता अतएव समान आकृति और समान शक्ति प्रत्यभिज्ञाका हेतु नहीं हो सकती किन्तु वही पदार्थ जो कि पहले देखा हो दूसरी बार देखने पर प्रत्यभिज्ञाका हेतु होता है इससे सिद्ध हुआ कि सामान्य पदार्थ अनित्य होने परभी स्थिर है। और इसीसे प्रत्यभिज्ञा भी होती है। अब यह सन्देह होता है कि एक घटमें जो संज्ञा ( नाम ) मज्ञी (नामवाला) सम्बन्ध है वही दूसरे घटमें भी है फिर उसमें प्रत्यभिज्ञा क्यों नहीं होती तो इस का समाधान यह है कि ॥ ८५ ॥

न संज्ञामज्ञिसम्बन्धोऽपि ॥ ८६ ॥

मज्ञा और मज्ञीका सम्बन्धभी प्रत्यभिज्ञामें हेतु नहीं हो सकता क्योंकि यह बातभी अर्थापत्तिसे जान लीजाती है कि

✽ इस सूत्रमें न कारकी अनुवृत्ति प्रथमसूत्रसे आती है।

संज्ञा संज्ञी सम्बन्ध सब घटोंमें समान होता है । परन्तु इतने पर भी अनेक घटोंमें अनेक भेद रहते हैं इसीसे प्रत्यभिज्ञा नहीं हो सकती । और मज्ञा मज्ञी सम्बन्ध होने परभी दूसरा पदार्थ प्रत्यभिज्ञाका हेतु नहीं हो सकता क्योंकि ॥ ८६ ॥

न सम्बन्धनित्यतोभयानित्यत्वात् ॥८७॥

उनका (घट आदि पदार्थोंका सम्बन्ध नित्य नहीं है) क्योंकि घट और उसकी मज्ञा टोनीही अनित्य है । इस सूत्रका भावार्थ यह है कि जिस घटको घट नामसे पुकारते थे उस घटके नष्ट होतेही उसकी संज्ञाका भी नाश होगया अब दूसरा घट और उसकी दूसरी घट संज्ञा रही जब दूसरी संज्ञा रही तो समानता न हुई और जब समानता न हुई तो फिर प्रत्यभिज्ञाकी तो बात ही दूर है क्योंकि वह उसी पदार्थमें होता है जिसे पूर्व कभी देखा ही । अब यह मन्देह होता है कि चाहे सम्बन्धो अनित्य हीं परन्तु सम्बन्ध तो नित्यही मानना चाहिये इसका उत्तर यह है कि ॥ ८७ ॥

नातः सम्बन्धो धर्मिग्राहकमान-बाधात् ॥८८॥

संज्ञा † और मज्ञी टोनीही अनित्य सिद्ध होचुके तो उनका सम्बन्ध नित्य कैसे हो सकता है ? क्योंकि सम्बन्ध जिन प्रमाणोंसे

\* संज्ञा नामको कहते हैं और मज्ञी उसे कहते हैं जिस चीजका नाम हो ।

† घट और सृष्टिकाका नैयायिक समवाय सम्बन्ध मानते हैं परन्तु कपिलमुनि उसे समवाय सम्बन्ध कह कर नहीं पुकारते किन्तु उपादान सम्बन्ध वा कार्यकारण सम्बन्ध मानते हैं ।



सिद्ध होता है उनसे उपरोक्त बात सिद्ध नहीं होती। इसका आशय यह है कि यह बात ठीक नहीं हो सकती कि 'सम्बन्धी अनित्य हो और उनका सम्बन्ध नित्य हो' अब रहा यह मन्देह कि गुण और गुणोंका नित्य समवाय संबंध सुना जाता है और वास्तवमें वह दोनोंही अनित्य हैं यह कैसे ठीक होगा इसका उत्तर यह है कि ॥ ६८ ॥

न समवायोऽस्ति प्रमाणाभावात् ॥ ६९ ॥

समवाय कोई सम्बन्ध नहीं है क्योंकि उस प्रकारके सम्बन्ध में कोई प्रमाण नहीं है। इसी सूत्रके आशयको अगले सूत्रसे पूष्ट करते हैं ॥ ६९ ॥

उभयत्राप्यन्यथासिद्धिर्नित्यत्वमलमानं वा ॥ ७० ॥

घट सृत्तिकामें बना है अथवा बना होगा इन दोनों प्रकार के ज्ञानमें अन्यथा सिद्धि है अतएव समवायको माननेकी कोई आवश्यकता नहीं। इससूत्रका भाव यह है कि घटका उपादान कारण सृत्तिका है यह बात प्रत्यक्ष भी देखी जाती है, और अनुमानभी करली जाती है एवं यहभी उक्त प्रमाणोंसे सिद्ध हुआ कि बिना सृत्तिकाके घट बन नहीं सकता अतएव घट और सृत्तिकाका नित्य सम्बन्ध हुआ किन्तु समवाय कोई सम्बन्ध नहीं है अब रहा यह संदेह कि यदि समवाय सम्बन्ध न माना जाय तो दो कपालीका \* संयोग घटकी उत्पत्तिमें हेतु होता है उसे

\* जिन दो अवयवोंसे मिलकर घट बनता है उसे कपाल कहते हैं।

क्या कहकर पुकारिगी किस्वा यह कैसे जानेंगी कि दो कपालीका सयोग घटकी उत्पत्तिमें हेतु है इसका समाधान यह है कि ॥१००॥

नानुमेयत्वमेव क्रियाया नदिष्ठस्य तत्तद्वतीरिवा-

परीक्षप्रतीते. ॥ १०१ ॥

क्रिया और क्रियावान्का सयोग हो कर घट उत्पन्न होता है यह बात अनुमानसे जाननेकी भी कोई आवश्यकता नहीं क्योंकि समीपवर्ती कुलालकी क्रियाको प्रत्यक्ष देख कर ही जानलैते है कि दो कपालीके सयोगसे घट उत्पन्न होता है अतएव जब तक घट रहेगा तब तक वह सम्बन्धभी अवश्यही रहेगा इसके लिये समवायके माननेकी कोई आवश्यकता नहीं ॥ पहले किमीका मत कह चुके है कि शरीर पांच भौतिक है अब उस मतकी मत्यामत्यता दिखते है ॥१०१॥

न पाञ्चभौतिकं शरीरं दहनामुपादानायोगात् ॥१०२॥

\*पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, इन पांच भूतोंसे शरीर की उत्पत्ति नहीं हो सकती क्योंकि बहुतसी चीजें एक पदार्थ का उपादान कारण नहीं हो सकती अतएव शरीर केवल पार्थिव ही कहना चाहिये और जो अग्नि आदि चार भूत इसमें बताये जाते है वह नाम मात्र है ॥ कोई २ स्थूल शरीर ही को मानते है उनका मत अयुक्त सिद्ध करते है कि ॥१०२॥

\* इसका पृग आशय १०८ और ११० वे सूत्रों की पठनेमें मालूम होगा

न स्थूलमिति नियम आतिवाहिकस्यापि  
विद्यमानत्वात् ॥ १०३ ॥

स्थूल ही शरीर है यह नियम नहीं है क्योंकि आतिवाहिक अर्थात् लिङ्ग शरीर भी विद्यमान है और यदि लिङ्ग शरीर न हा तो स्थूल शरीरमें कोई क्रिया नहीं हो सकती यह बात तीसरे अध्याय ही में प्रकाशित कर चुके हैं जैसे तेल और बत्ती-रूपमें उत्पन्न हुई दीप शिखा समस्त घरका प्रकाश कर देती है इसी भाँति लिङ्ग शरीर भी स्थूल शरीरोंको अनेक व्यापारोंमें लगाता है ॥ यह बात पहले ही लिख चुके हैं कि इन्द्रिय, गानकाकि अतिरिक्त है उसीको प्रतिपादन करनेके निमित्त इन्द्रियोंकी शक्ति कहते हैं ॥ १०३ ॥

नाप्राप्तप्रकाशकत्वमिन्द्रियाणामप्राप्तः  
सर्वप्राप्तवर्षा ॥ १०४ ॥

जिस पदार्थका इन्द्रियोंसे सम्बन्ध नहीं उसे इन्द्रिया प्रकाशित नहीं कर सकती क्योंकि अप्राप्त बत्तीकी दीप शिखा भी प्रकाशित नहीं कर सकती और यदि कर सके तो फिर जिस बत्तीके देखनेमें रोक है उस सबको भी प्रकाशित करना पड़े परन्तु ऐसा देखनेमें नहीं आता। इस मतका भावार्थ यह है कि इन्द्रिया उसी बत्तीको प्रकाशित करती है जिनका उनसे सम्बन्ध हो अन्यकी प्रकाशित नहीं कर सकती यदि यह शक्ति इन्द्रियोंमें होकि जिसका उनसे सम्बन्ध नहीं उनके भी वह प्रकाशित कर सके तो देशान्तरके पदार्थोंका भी प्रत्यक्ष होना चाहिये

और जब एक जगहकी बैठे देशान्तरके पदार्थ जान लिये तो इन्द्रियोंमें सर्वज्ञता आकर, ईश्वरमें और इन्द्रियोंमें अभेद ठहरा, अतएव यही मानना चाहियेकि इन्द्रिया प्राप्त बस्तु हीको प्रकाशित करतो है ॥ अब यह सन्देह होता है कि अपसर्पण (फैलना) तेजका धर्म है और तेज बस्तुको प्रकाशित भी करता है इती भक्ति चक्षु (नेत्र) को भी तेज स्वरूप क्यों न माना जाय क्योंकि वह भी बस्तुको प्रकाशित करता है इसका समाधान यह है कि ॥१०४॥

न तेजोऽपसर्पणात् तेजसं चक्षुर्वृत्तितस्तत्-

मिद्विः ॥१०५॥

अपसर्पण (फैलना) की शक्ति तेजमें है इससे चक्षुको तेज स्वरूप नहीं कह सकते क्योंकि जो बात चक्षुको तेज स्वरूपमान कर मिद्वि की जावेगी वह इस प्रकार भी मिद्वि हो सकती है कि चक्षुकी जो वृत्ति है जिनसेकि पदार्थका प्रत्यक्ष होता है उसीसे पदार्थका प्रत्यक्ष माना जाय ॥१०५॥

प्राप्तार्थप्रकाश लिङ्गावृत्तिसिद्धिः ॥१०६॥

जिस पदार्थका चक्षुसे सम्बन्ध होता है उसे चक्षु प्रकाशित कर देता है इसीसे मिद्वि है कि चक्षुकी वृत्ति तेजमें है किन्तु चक्षु तेज स्वरूप नहीं है ॥ अब यह सन्देह होता है कि जब चक्षुका पदार्थमें सम्बन्ध होता है तब चक्षुकी वृत्ति शरीरकी बिना छोड़ कैसे उस पदार्थ पर जा कर पडती है इसका उत्तर यह है कि ॥ १०६ ॥

भागगुणाभ्यां तत्त्वान्तरं वृत्तिः सम्बन्धार्थं  
सर्पतीति ॥१०७॥

चक्षु आदि की वृत्ति पदार्थके सम्बन्धके लिये जाती है इससे चक्षुका भाग ( टुकड़ा ) वा रूप आदि गुण वृत्ति नहीं है किन्तु भाग और गुण इन दोनोंमें पृथक् एक तीसरे पदार्थका नाम वृत्ति है क्योंकि यदि चक्षु आदिके भागका नाम वृत्ति हो तो एक २ पदार्थका एक २ बार चक्षुसे सम्बन्ध होने पर शनैः २ चक्षुके टुकटे हो कर उसका नष्ट हो जाना सम्भवथा और यदि गुणका नाम वृत्ति होता तो गुण जड होते हैं अतएव वृत्तिका पदार्थ के साथ सम्बन्ध होते ही पदार्थमें चनाजाना नहीं बन सकता था, अतएव भाग और गुण दोनोंसे वृत्ति एक भिन्न पदार्थ है। अब रहा यह सन्देह कि इस प्रकारके लक्षण करने से वृत्ति एक द्रव्य सिद्ध हुआ और जब द्रव्य सिद्ध हुआ तो इच्छा आदिक जो बुद्धि के \* गुण है उनका नाम वृत्ति क्यों है ? क्योंकि जो गुण हैं उनका नाम वृत्ति नहीं हो सकता इसका उत्तर यह है कि ॥ १०७ ॥

न द्रव्य-नियमस्तदयोगात् ॥१०८ ॥

वृत्ति द्रव्यही है यह नियम नहीं क्योंकि लोकमें अनेक वाक्योंमें ऐसे स्थल परभी वृत्ति शब्दका व्यवहार देखा जाता

\* हमारी बुद्धिमें यह बात आती है' इस प्रकारके लौकिक व्यवहारसे सिद्ध होता है कि इच्छा हीना बुद्धिकी वृत्ति है।

है जहाँ पर द्रव्यका अर्थ हो ही नहीं सकता । जैसे 'वैश्य-वृत्ति' 'शूद्र-वृत्ति' इत्यादि अतएव हमने जिस रीति पर वृत्ति को कहा है वैसेही स्थान पर वृत्ति द्रव्य है अन्यत्र यथायोग्य अर्थ लगाना चाहिये ॥ यह बात पूर्वप्रतिपादन कर चुके हैं कि शरीर पाच-भौतिक केवल नाम मात्र है किन्तु बास्तवमें पार्थिव है अब इस बात पर विचार करते हैं कि जिन इन्द्रियोंके आय्ययसे शरीर है वह इन्द्रिय जैसे हम लीगोकी अहङ्कारसे उत्पन्न है वैसे ही अन्यान्य देशके लीगोकी भी इन्द्रिय अहङ्कारसे ही उत्पन्न होती है पञ्चभूतीसे नहीं इसीको अग्नि सूत्रसे स्पष्ट करते हैं कि ॥ १०८ ॥

न देशभेदेऽप्यन्यापादानतास्मदादिवन्नियमः ॥ १०९ ॥

देशका भेद हो जाने परभी वस्तुका दूसरा उपादान नहीं हो सकता क्योंकि जैसे हमलोग दूसरे दूसरे देशोंमें चले जाते हैं और वहाँ रहते हैं परन्तु इन्द्रियां नहीं बदलती यदि देश भेद ही इन्द्रियोंके बदलने से वा अन्य उपादान कारण करनेसे हेतु होता तो हम लीगोकी भी इन्द्रियां वहाँ जाकर अवश्य बदल जातीं परन्तु जब ऐसा नहीं दीखता तो सिद्ध है कि इन्द्रिया भी पाच भौतिक नहीं किन्तु अहङ्कारिक हैं । अब रहा यह सदेह कि जब इन्द्रिया अहङ्कारिक हैं तो वह भौतिक क्यों मानी जाती है इसका उत्तर यह है कि ॥ १०९ ॥

निमित्तत्र्यपदेशात् तद्व्यपदेशः ॥ ११० ॥

इन्द्रियोंका निमित्त जो अहङ्कार है उसीके नामसे पञ्चभूतों

में भी इन्द्रियोंका कारणत्व स्थापन किया जाता है जैसे अग्नि यद्यपि काष्ठादि रूप नहीं है परन्तु तो भी उसे वैसेही पुकारा जाता है कि “लकड़ी की अग्नि” इसी तरह इन्द्रिया भौतिक नहीं भी हैं परन्तु उन्हें भौतिक कहा जाता है। अब स्थूलशरीर के भेदोंको कहते हैं ॥ ११० ॥

जषजजजजजजरायुजोद्भिज्जसाङ्गल्यकसांमिदिकं

चित न नियमः ॥ १११ ॥

जषज(जो पसीनेमें उत्पन्न होते हैं जैसे लीक आदि)अण्डज ( जो अण्डमें उत्पन्न होते हैं जैसे वतक आदि ) जरायुज ( जो भ्रूणमें उत्पन्न होते हैं जैसे मनुष्य आदि ) उद्भिज्ज ( जो पृथ्वी से उत्पन्न होते हैं जैसे वृक्ष आदि ) साकल्पिक ( जिन्हें वाजी-गर लोग केवल दिखाने के लिये बनाते हैं ) सांमिदिक ( जो योगकी क्रियाओंमें बनजाते हैं ) यही छ. प्रकारके स्थूलशरीर आचार्योंने निश्चय किये हैं परन्तु इन छ. के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकारका स्थूल शरीर नहीं है यह नियम नहीं है क्योंकि शायद किसी देशान्तरमें इस प्रकारके शरीरके अतिरिक्त भिन्न रीतिका कोई शरीर हो। आचार्योंने जषः तक निश्चय किया वहा तक यही छ. प्रकारके शरीर दिखाने पडे हैं ॥ १११ ॥

सर्वेषु पृथिव्युपादानसमाधारण्यात् तद्वापदेशः

पूर्ववत् ॥ ११२ ॥

इन सब शरीरोंका साधारणतः पृथिवी ही उपादान कारण है अतएव इन्हें पार्थिव कहना चाहिये और जो पाच भूतोंका

व्यपदेश है अर्थात् नाम सुनाजाता है वह पहिले कहे हुए कौ भांति समझना चाहिये अर्थात् मुख्य तो पृथ्वीही उपादान कारण है अन्य सब गौण हैं । अब यह सन्देह होता है कि इस शरीरमें प्राणही प्रधान है अतएव उसीको देहका कर्ता क्यों न माना जाय इसका उत्तर यह है कि ॥ ११२ ॥

न देहारम्भकस्य प्राणत्वमिन्द्रियशक्तितस्तत्भिद्वेः ॥११३॥

प्राण देहका कर्ता नहीं हो सकता क्योंकि प्राण इन्द्रियों की शक्तिसे अपने कार्य करनेमें प्रवृत्त होता है । और इन्द्रियोंके साथ उसका अन्वय व्यतिरेक दृष्टान्तभी हो सकता है कि 'जब तक इन्द्रियां हैं तब तक प्राण है' 'जब इन्द्रिया नहीं तब प्राणभी नहीं' अतएव प्राणको देहका कारण नहीं कह सकते इस पर यह प्रश्न हो सकता है कि जब देहके बननेमें प्राण कारण नहीं है तो बिना प्राणके भी देहकी उत्पत्ति होनी चाहिये इसका उत्तर यह है कि ॥ ११३ ॥

भोक्तुरधिष्ठानाद्भोगायतननिर्माणमन्यथा पूति-भाव-

प्रसङ्गात् ॥११४॥

भोक्ता जो पुरुष उसीके व्यापारसे शरीरका बनना हो सकता है यदि वह प्राणीको अपने अपने स्थानमें नियोजित न करे तो प्राणवायु कदापि ठीक ठीक रसोंको परिपक्व नहीं कर सकता और ठीक ठीक रस परिपक्व न होने पर अनेक प्रकारके रोग होकर शरीरसे पूतिगन्धि ( बदबू ) आनेलगे अतएव यद्यपि प्राण कारण है परन्तु पुरुषहीको मुख्य कारण मानना चाहिये ।



अब रहा वह सन्देह कि जो अधिष्ठानत्व ( बनानेवालापद ) पुरुषमें माना जाता है वह यदि प्राणहीमें मान लिया जावे तो क्या शक्ति है ? इसका उत्तर यह है कि ॥ ११४ ॥

भृत्यद्वारा स्वाम्यधिष्ठितिनैकान्तात् ॥ ११५ ॥

हमभी पुरुषको इस प्रकार अधिष्ठाता मानते हैं जैसे राजा अपने नौकरोंके द्वारा महल बनवाता है और वह महल राजा के बनाये हुए गिनेजाते हैं एवं उनका मालिकभी वही है इसी भांति पुरुषभी प्राण और इन्द्रियोंके द्वारा शरीरको चलाता है किन्तु स्वयं अकेलाही नहीं चलाता और बिना उसके यह शरीर चल नहीं सकता इससे वही अधिष्ठाता समझा जाता है । अब इससे आगे पुरुषका मुक्तिदशामें स्वरूप आदि कहेंगे ॥११५॥

समाधिसुषुप्तिमोक्षेषु ब्रह्मरूपता ॥ ११६ ॥

समाधि सुषुप्ति और मोक्षमें पुरुषको ब्रह्मरूपता ही जाती है अर्थात् ब्रह्म जैसा आनन्द स्वरूप है वैसाही जीवभी हो जाता है । इस सूत्रका अर्थ अग्न्याय्य टीकाकारोंने यह किया है कि उक्त तीनों अवस्थाओंमें जीव ब्रह्म हो जाता है परन्तु वह अर्थ करना ठीक नहीं है क्योंकि रूप शब्दका सादृश्य अर्थ है “जैसे अमुक मनुष्य देव रूप है” इसके कहनेसे यह अभिप्राय निकलता है कि वह देव नहीं है किन्तु उसमें कितनेही गुण देवता केसे हैं इसीसे उसे देव रूप कहा गया यदि उसे सार्वथा देव कहनाही अभीष्ट होता तो ‘अमुक मनुष्य देव है’ इतनाही कहा जाता इसी भांति उक्त सूत्रमें भी ब्रह्म रूप कहनेसे यही अभिप्राय है कि जीवमें ब्रह्मकेसे कतिपय

गुण इन तीन अवस्थाओंमें हो जाते हैं किन्तु जीव ब्रह्म नहीं हो जाता; यदि आचार्य्य को यही अभीष्ट होता कि मुक्त जीव ब्रह्म हो जाते हैं तो “ब्रह्म रूपता” एसा न कह कर “ब्रह्मात्मम्” एसा कहते । इस ज्ञापक से जीव और ब्रह्मको एक माननेवालो का मत अयुक्त मिद्ध होता है । अब रहता यह सन्देह कि जब समाधि और सुषुप्ति भी आनन्द प्राप्त हो जाता है तब मुक्तिके लिये प्रयत्न करने की क्या आवश्यकता है ? और मुक्तिमें विशेषता ही क्या रही ? इसका समाधान यह है कि ॥ ११६ ॥

द्वयोः सर्वाजमन्यत्र तद्धतिः ॥ ११७ ॥

समाधि और सुषुप्ति इन दोनोंमें जो आनन्द प्राप्त होता है वह थोड़ेही कालके लिये होता है और उसमें बन्धभी बना रहता है एवं मोक्षका आनन्द अधिक काल तक रहता है और उसमें बन्धका भी नाश हो जाता है यही उक्त दो प्रकारके आनन्दोंमें और मुक्तिमें भेद है ॥ अब यहां पर यह सन्देह होता है कि समाधि और सुषुप्ति तो प्रत्यक्ष देखी जाती है किन्तु मोक्ष प्रत्यक्ष नहीं है अतएव उसमें आनन्दभी न कहना चाहिये इसका उत्तर यह है कि ॥ ११७ ॥

द्वयोरिव त्रयस्यापि दृष्टत्वान्न तु द्वौ ॥ ११८ ॥

जैसे समाधि और सुषुप्ति दोनों प्रत्यक्ष देखे जाते हैं वैसेही मोक्षभी प्रत्यक्षही है वह प्रत्यक्ष इस प्रकार होता है कि जब तक मनुष्य किसी कर्मको करके उसका फल नहीं भोग लेता है तबतक उसकी उस कर्मका साधन करनेके लिये प्रवृत्ति नहीं

होतो जैसे पहले भोजन कर चुके हैं तो दूसरे दिवसभी भोजन करनेके लिये यत्न करने और भोजन करनेके लिये प्रवृत्ति होती है इसी भाँति जब जीव पहिले कभी मोक्ष सुखका अनुभव कर चुका है अतएव फिरभी मोक्षके लिये यत्न करनेमें प्रवृत्ति होती है यदि यह कहा जावे कि मनुष्यने इस जन्ममें राज्य सुख का भोग कभी नहीं किया तो भी उसकी प्राप्तिकी अभिलाषा रहती है तो इसका उत्तर यह ही सकता है कि राज्यमें जो कुछ सुख होता है उसे आँखोंसे देखते हैं इसी से यह सिद्ध हुआ कि याता मोक्ष सुख कभी स्वयं अनुभव किया है अथवा किमी की मोक्षमें आनन्दित देखा है इसी कारण उसकी प्रवृत्ति मोक्षमें होती है यही प्रत्यक्ष प्रमाण है और अनुमानसे इस भाँति मोक्ष जाना जासकता है कि सुषुप्तिमें जो आनन्द मिलता है उसके नाश करनेवाले चित्तके रागादिक टाँष है और वह रागादिक सिवाय ज्ञानके और किमीसे नष्ट नहीं हो सकते जब ज्ञान हो जावेगा तब सुषुप्ति आदि अवस्थाओंकी अपेक्षा जिसमें अधिक काल तक आनन्द प्राप्ति हो एसी ही अवस्था मोक्ष कहती है । अब इसमें यह मन्देह होता है कि समाधिमें तो वैराग्यके कारण कर्माँकी वामना न्यून हो जाती है अतएव समाधिमें तो आनन्द प्राप्ति होना सम्भव है किन्तु सुषुप्तिमें तो वामनाएँ प्रबल रहने के कारण पदार्थोंका भी बोध \* अवश्यही होगा और जब पदार्थ का ज्ञान रहा तो आनन्द प्राप्ति न रही इसका समाधान यों है कि ॥ ११८ ॥

\* पदार्थोंके बोधमें यहा यह तात्पर्य है कि वामनाएँ अपने विषय की और खींच कर उनमें जीवकी प्रवृत्ति करदेगी

वामनयानर्थं व्यापनं दोषयोगेऽपि न निमित्तस्य  
प्रधान-बाधकत्वम् ॥ ११८ ॥

जैसे वैराग्यमें वासना न्यून होकर अपना प्रभाव नहीं दिखा सकती इसी भांति निद्रादोषके योगसे भी वासना अपने विषय की ओर नहीं खींच सकती क्योंकि वासनाओंका निमित्त जो संस्कार वह निद्राके दोषसे बाधित हो चुका है अतएव सुषुप्तिमें भी समाधिकी भांति आनन्द रहता है। पहले यह कह चुके हैं कि संस्कारके लेशसे जीवन्मुक्तका शरीर बना रहता है उसमें यह संदेह होता है कि जिस संस्कारसे शरीर बना रहता है वह एकही संस्कार उस जीवकी प्राणधारणरूपी क्रियाको निवृत्त कर देता है वा जुदी २ क्रियाओंके लिये जुदे २ संस्कार होते हैं इस पर कहते हैं कि ॥११८॥

एक संस्कारः क्रियानिर्वृत्तौ न तु प्रतिक्रियं संस्कार-  
भेदा बहु-कल्पनाप्रसक्तेः ॥ १२० ॥

एक ही संस्कार क्रियाको निवृत्त कर देता है अर्थात् जिस संस्कारसे शरीरका कार्य चल रहा है वही संस्कार निवृत्त होकर शारीरिक क्रियाओंकी भी निवृत्ति कर देता है जुदी जुदी क्रियाओंके लिये जुटे जुटे संस्कार नहीं मानने चाहिये क्योंकि इस प्रकार बहुतसे संस्कारोंकी व्यर्थमें कल्पना करनी पड़ेगी। इस सूत्रसे भी जो कुलाल चक्रका दृष्टान्त देनाये है वह पोषित होता है। उल्लिख्यको भी शरीरमें परिगणित करचुके हैं उसमें कोई कोई यह संदेह करते हैं कि जब उनमें वाह्य बुद्धि नहीं

है अर्थात् वह बाहरके पदार्थोंको नहीं समझ सकते तब उनका शरीर क्यों माना जाता है इसका उत्तर यह है कि ॥१२०॥

न बाह्यबुद्धिनियमो वृक्षगुल्मलतौषधिवनस्पतितृण-  
वीरुधादीनामपि भोक्तृभोगायतनत्वं पूर्ववत् ॥ १२१ ॥

जिसमें बाह्यबुद्धि ही वही शरीर कहाजावे यह नियम नहीं है क्योंकि मृत शरीरमें भी बाह्यबुद्धि नहीं रहती तब क्या उसे शरीर न कहेंगे ? किन्तु वृक्ष, गुल्म, औषधि, वनस्पति, तृण, वीरुध, आदिकोंके शरीर भी भोगके निमित्त हैं क्योंकि यदि भोगायतन न होते तो सूखना और जग होना आदि उनमें क्यों दिखाई पडता ? जिन किन्हींने “न बाह्य बुद्धि नियमः” इसको पृथक् सूत्र माना है उन्हें भी दोनोंको मिनाकर ही व्याख्या करनी चाहिये वदतसे पुस्तकोंमें दोनोंही प्रकारके पाठ देखनेमें आते हैं ॥ १२१ ॥

स्मृतेश्च ॥ १२२ ॥

“शरीरजैः कर्मदोषैर्याति स्यावरतां नर” ( शरीरसे हुए कर्मदोषोंमें मनुष्य स्यावर ही जाता है ) एसा स्मृतियोंमें देखा जाता है इससे सिद्ध है कि स्यावर भी शरीर ही है ॥ अब इस पर यह सन्देह हो सकता है कि जब वृक्षादिकोंको शरीर-धारी माना गया तो उनमें भी धर्माधर्म मानने चाहिये इसका उत्तर यह है कि ॥१२२॥

न देहमात्रतः कर्माधिकारित्वं वैशिष्ट्याश्रुतेः ॥ १२३ ॥

देहधारी मात्रको श्भाशुभ कर्मोंका अधिकार नहीं दिया

गया है किन्तु श्रुतियोंमें ब्राह्मण क्षत्रिय आदि वर्णों विशिष्ट मनुष्यों ही को धर्माधर्मका अधिकार दिया गया है ॥ देहके भेद हीसे कर्म भेद है यह बात अगले सूत्रसे स्पष्ट करते हैं ॥१२३॥

त्रिधा त्रयाणां व्यवस्था कर्मदेहोपभोगदेहो-

भयदेहाः ॥ १२४ ॥

उत्तम, अधम, और मध्यम, इन तीन प्रकारके देहोंकी तीन प्रकारसे व्यवस्था है और उन्हींके लिये धर्म आदिकके अधिकार है एक कर्म देह (जो केवल कर्म हीके करने २ पूरा हो जाय जैसे कि अनेक महर्षियोंका तप आदि करते ही में जन्मपूर्ण हो जाता है) दूसरा उपभोग देह (जैसे अनेक राजाओंका जन्म विषयोंका उपभोग करने २ ही पूरा हो जाता है) तीसरा उभय देह (जिसमें कर्म भी किये हो और भोग भी किये हो जैसे राजर्षि भरतृ हरिका हृआ था) वम इनहीं देहोंके लिये धर्माधर्मका विधान है। यो तो पद्मपत्नी आदि भी देहदारी है परन्तु उनको धर्मका विधान नहीं है ॥१२४॥

न किञ्चिदप्यनुशयिनः ॥ १२५ ॥

और जो मत्त हो चुका है उनके लिये कुछ भी विधान नहीं और न उसे किमो विधिष नामवाला कह सकते हैं ॥ अब यह सदेह होता है कि जीवकी इस प्राणके नित्य माना है उस नित्य जीवके आश्रयमें रहनेवाली बुद्धि भी नित्य क्यों न भग्न लीजाये इसका उत्तर यह है कि ॥ १२५ ॥

न बुद्ध्यादि-नित्यत्वमाश्रयविशेषोऽपि वर्जिवत् ॥ १२६ ॥

यद्यपि उनका आश्रय जीव नित्य है तो भी बुद्धि आदिक नित्य नहीं हो सकते जैसे चन्दनका काष्ठ यद्यपि शीत प्रकृति-वाला होता है तो भी अग्नि संयोग होने पर उस काष्ठकी शीतलता अग्निमें नहीं आसकती ॥ अथवा ॥१२६॥

आश्रयासिद्धयश्च ॥ १२७ ॥

जीव, बुद्धिका आश्रय तो ही नहींसकता । किन्तु इस प्रकार इनका सम्बन्ध है जैसे म्फटिक और फूलका अतएव प्रतिबिम्ब कहना चाहिये आश्रय नहीं हो सकता । इस सब कथन पर यह आक्षेप हो सकता है कि आचार्य योगकी सिद्धियोंको सच्ची मानते हैं और उनके द्वारा मुक्ति भी बताते हैं परन्तु योगकी अनेक सिद्धि एसे भी है जो सम्भ्रम नहीं आती इस पर आचार्य कहते हैं कि ॥१२७॥

योगसिद्धयोऽप्युषधादिसिद्धिवन्नापलपनायाः ॥ १२८ ॥

जैसे आपधोंकी सिद्धि होती है अर्थात् एक २ औषधसे अनेक रोगीकी निवृत्ति होती है तथाच भांति २ की रमायने उससे बन सकती हैं इसी भांति योगकी भी सिद्धियोंको जानना चाहिये क्यों कि उनसे भी अनेक प्रकारके प्रत्यक्ष लाभ दिखाई पडते हैं महर्षि कपिल पुरुषको चैतन्य मानते हैं अतएव जो भूतों की ( पृथिवी आदिकी ) चैतन्य मानते हैं उनका मत दूषित कह कर अध्याय समाप्त करते हैं कि ॥१२८॥

न भूतचैतन्यं प्रत्येकादृष्टेः सांहत्येऽपि च सांहत्ये-  
ऽपि च ॥ १२६ ॥

भूत कदापि मिल कर भी चैतन्य नहीं हो सकते क्योंकि यदि उनमें चेतनता होती तो भूतोंके पृथक् होने पर भी दिखाई पड़तो परन्तु जब पृथक्तामें उन्हें जड देखते हैं तो चेतन कैसे माने ? द्विरक्ति अध्याय समाप्तिके निमित्त है ॥

इति पञ्चमाध्यायः ।

---



## अथ-षष्ठोऽध्यायः ।



पूर्वोक्त अध्यायोंमें महर्षि कपिलने अनेक प्रकारके शास्त्रार्थ और युक्तियोंसे अपने मतका स्थापन और दूसरे मतोंका खण्डन किया अब इस अन्तिम अध्यायमें अपना सिद्धान्त सीधे रीतिपर कहेंगे जिससे सब दर्शनका सार सहजही में समझा जाय इसी निमित्त जो पूर्व बात कह चुके हैं उनका इस अध्यायमें पुनर्बार कहना पुनरुक्ति नहीं होगी । इस अध्यायके सूत्र प्रायः सीधे हैं अतएव विशेष टीका करनेकी भी कोई आवश्यकता नहीं देखी गई अतएव साधारणतः लिखा जावेगा ।

अस्त्यात्मा नास्तित्वसाधनाभावात् ॥ १ ॥

आत्मा कोई पदार्थ है क्योंकि न होनेमें कोई प्रमाण नहीं है अर्थात् जो लोग आत्माका खण्डन करते हैं उनके पास कोई प्रमाण नहीं है ॥ १ ॥

देहादिव्यतिरिक्तोऽसौ वैचित्र्यात् ॥ २ ॥

वह आत्मा (पुरुष) देहसे भिन्न कोई पदार्थ है देहका नाम आत्मा नहीं है क्योंकि प्रकृतिमें जो गुण पाये जाते हैं उनसे आत्मामें कुछ विचित्रता है ॥ २ ॥

षष्ठीव्यपदेशादपि ॥ ३ ॥

“मेरा यह शरीर है” इस षष्ठी व्यपदेशसे भी आत्माका

देहसे भिन्न वस्तु होना सिद्ध होता है क्योंकि यदि देहादिकही आत्मा होते तो “मैरा” यह कहना नहीं बनसकता ॥३॥

न शिलापुत्रवद्भिर्मिणाहकमानवाधात् ॥४॥

यदि श्मेट समझ कर यह कहोकि ‘पत्थरका पुत्र’ अर्थात् जो पत्थर है वही पत्थरका पुत्र है इसी भाँति जो आत्मा है वही शरीर है यह षष्ठीका अर्थ करो तो भी ठीक नहीं हो सकता क्योंकि ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जिससे शिलामें पुत्र और पिताका भाव सिद्ध होसके ॥ ४ ॥

अत्यन्तदुःखनिवृत्त्या कृतकृत्यता ॥५॥

उस पुरुषके दुःखोंकी अत्यन्त निवृत्ति हो जानेही से उसे कृतकृत्यता अर्थात् मोक्ष प्राप्त हो जाता है ॥ ५ ॥

यथा दुःखात् क्लेशः पुरुषस्य न तथा  
सुखाद्भिलाषः ॥६॥

जिस प्रकार पुरुषको दुःखसे क्लेश होता है उस प्रकार सुख से उसकी अभिलाषा नहीं अर्थात् सुखसे अभिलाषाओंकी पूर्णता नहीं होती क्योंकि सुख भी प्रायः दुःखसे मिले हुए हैं ॥ ६ ॥

न कुत्रापि कोऽपि सुखीति ॥७॥

संसारमें कोई भी पुरुष कहीं सुखी नहीं रह सकता किन्तु सुख दुःख दोनोंही होते रहते हैं ॥ ७ ॥

तदपि दुःखशबलमिति दुःखयत्तं निःक्षिपन्ते  
विवेचकाः ॥८॥

जो थोड़ा बहुत सुख मिलता भी है वह दुःखोंमें मिला हुआ है अतएव सुख दुःखकी व्यवस्था करनेवाले विद्वान् उसे भी दुःखही में गिनते हैं । जैसे विष और मीठका मिला हुआ अत्रभी विषही की गणनामें आता है अतएव मूर्खोंके सुखके स्थिरे यत्न करना चाहिये ॥ ८ ॥

सुखनाभाभावादपुरुषार्थत्वमिति चेन्न हेतुव्यात् ॥९॥

किमीको भी सुख नहीं मिलता इस कथनसे यह न समझ लेना चाहिये कि मूर्खोंमें भी सुख नहीं मिलता अतएव मूर्ख कुछ भ्रष्टही न रहें । क्योंकि लौकिक सुख अन्य प्रकारका है और पारमाथिक सुख अन्य प्रकारका है अर्थात् लौकिक सुखमें दुःख मिला हुआ है और मोक्ष सुखमें दुःख नहीं मिला ॥ ९ ॥

निर्गुणत्वमात्मनोऽसङ्गत्वादि प्रुते ॥१०॥

मूर्खोंमें आत्मा निर्गुण रहता है सामाजिक दशाही में आत्माकी लौकिक गुण बाधा पहुँचती है मूर्ख दशामें आत्मा को असङ्ग अर्थात् प्रकृतिके सङ्गमें उल्लिखित सुनाजाता है ॥१०॥

परधर्मत्वमपि तस्मिन्निविवेकात् ॥ ११ ॥

यद्यपि सांसारिक दशामें गुणोंका सर्वथा पुरुषमें ही बोध होता है परन्तु उस प्रकारके बोधकी उत्पत्ति अविवेकसे होती है क्योंकि जो अज्ञानी है वही सामाजिक कर्मोंकी पुरुष कृत-

मानते हैं किन्तु वास्तवमें वह प्रकृति और पुरुषके संयोगसे होते हैं अतएव संयोगज हैं ॥ ११ ॥

अनादिरविवेकोऽन्यथा दोषद्वयप्रसक्तः ॥१२॥

अविवेकको प्रवाह रूपसे अनादि मानना चाहिये क्योंकि यदि सादि कहे तो यह प्रश्न हो सकता है कि उसे किसने उत्पन्न किया यदि प्रकृति और पुरुषसे उत्पन्न हुआ तब उन्हींसे उत्पन्न हुआ उन्हींका बन्ध करे यह दोष होगा । दूसरा प्रश्न यह हो सकता है कि यदि कर्मोंसे इसकी उत्पत्ति मानी जाय तो उसमें यह प्रश्न करने को अवकाश रहेगा कि कर्म किससे उत्पन्न हुए हैं ? अतएव इन दोनों दोषोंको दूरकरनेके निमित्त अविवेकको अनादि मानना चाहिये । इस सूत्रका तात्पर्य हमारी समझमें यह आता है कि आचार्यने अविवेक पदसे वासनाका आशय रखा है क्योंकि कर्मोंकी वासनाएं प्रवाहरूप से अनादि हैं और उन्हींसे कर्मोंकी उत्पत्ति भी होती है अथवा उन वासनाओंके प्रबल रहने हीसे बन्ध और न्यून रहने हीसे मोक्ष कहना आचार्यको अभीष्ट है । यद्यपि अन्यान्य स्थानोंमें अविवेक शब्दसे और भी अर्थ कहे हैं परन्तु इस स्थानपर सिवाय वासनाके और कोई अर्थ अविवेकका नहीं हो सकता, यदि ऐसा अर्थ न माना जावे तो अविवेकके अनादि होने पर उस (अविवेक) का किया हुआ बन्धनभी अनादि मानना पड़ेगा और आचार्य बन्धनको पहलेही सादि कह आये हैं इससे पूर्वापर कथनमें विरोध आवेगा अतएव अविवेक कहनेसे वासनाका अभिप्राय जानना चाहिये ॥ १२ ॥

न नित्यः स्यादात्मवदन्यथानुच्छित्तिः ॥१३॥

अविवेकको नित्य नहीं कहसकते क्योंकि यदि नित्यमाने तो जैसे आत्माका नाश नहीं होता वैसे अविवेकका भी नाश नहीं होगा और अविवेकके नाश, न होनेसे मुक्ति भी नहीं हो सकेगी अतएव अविवेकको प्रवाह रूपसे अनादि अनित्य मानना चाहिये ॥ १३ ॥

प्रतिनियतकारणनाशत्वमस्य ध्वान्तवत् ॥१४॥

क्योंकि यह अविवेक भी प्रति नियत कारण \* से नष्ट हो जाता है अतएव अनित्य है जैसे अम्बेरा प्रकाशरूपी प्रतिनियत कारणसे नष्ट हो जाता है अतएव वह नित्य नहीं कहा जाता ॥ १४ ॥

अत्रापि प्रतिनियमोऽन्वयव्यतिरेकात् ॥१५॥

इस अविवेक के नाश करनेमें भी प्रतिनियत (जिसमें अवश्य नष्ट हो जाय) अन्वय व्यतिरेकसे निश्चय करलेना चाहिये वह अन्वय यही है कि 'विवेकके होनेसे इसका नाश' और 'विवेक के न होनेसे अविवेकका होना' प्रतीत होता है यही अन्वय व्यतिरेक कहने का तात्पर्य है ॥ १५ ॥

प्रकारान्तरासम्भवादविवेक एव बन्धः ॥१६॥

जब कोई और प्रकार सिवाय अविवेकके बन्धमं हंतु नहीं

\* प्रतिनियत कारण उसे कहते हैं कि जिसमें उस कार्यकी उत्पत्ति वा नाश अवश्य ही हो जाय जैसा अम्बेरे के दृष्टान्तमें समझ लेना चाहिये ।

दिखाई पड़ता तब यही मानना ठीक है कि अविवेक ही बन्ध है, और विवेक ही मोक्ष है ॥ अब मुक्तिके सम्बन्धमें कोई बादी इन अगले तीन सूत्रोंसे पूर्वपक्ष करता है कि ॥ १६ ॥

न मुक्तस्य पुनर्बन्धयोगोऽप्यनावृत्तिश्रुतेः ॥ १७ ॥

जो मुक्त हो चुका वह फिर कभी बंध नहीं सकता क्योंकि “न स पुनरावर्त्तते” (वह फिर नहीं आता) इस श्रुतिसे मुक्त होनेपर फिर अनेका निषेध सुना जाता है ॥ १७ ॥

अपुरुषार्थत्वमन्यथा ॥ १८ ॥

और जो मुक्तका बन्धयोग मानीं तो अपुरुषार्थत्व ठहरता है ॥ १८ ॥

अविशेषापत्तिरुभयोः ॥ १९ ॥

एवं बहमें और मुक्तमें समानता ठहरती है क्योंकि जो मुक्त नहीं है वह अब बंधा है, एवं जो मुक्त होगा वह फिर बन्ध जायगा ॥ इन तीनों सूत्रोंका उत्तर यह है कि ॥ १९ ॥

मुक्तिरन्तरायध्वस्तेर्न परः ॥ २० ॥

जिस प्रकारकी मुक्तिका पूर्वपक्ष बादीने किया उस प्रकार की मुक्ति आचार्योंको सम्मत नहीं है किन्तु अन्तरायोंके ध्वंस हो जानके सिवाय और किसी प्रकारकी मुक्ति आचार्यों नहीं मानते \* ॥ २० ॥

\* अन्तरायोंका लक्षण महर्षि पतञ्जलिने यह किया है कि “व्याधिस्थान सशयप्रमादालस्याविरति भ्रान्तदर्शनालम्भभूमिकत्वानवस्थितत्वानि चित्तविन्नेपास्तेन्तरायाः” व्याधि (ज्वरादिक)

### तत्राप्यविरोधः ॥२१॥

जो श्रुति आदिकोंका दोष बताया वह भी युक्त नहीं हो सकता क्योंकि वेदीमें अनेक स्थलों पर मुक्तकी भी पुनरावृत्ति लिखी है और वह श्रुतिभी मन्त्रभागकी न होनासे प्रमाणके योग्य नहीं हो सकती अतएव मुक्तसे फिर बंधता नहीं यह कथन ठीक नहीं हो सकता । दूसरा जो दोष यह बतायाकि पुनर्वन्ध होनेसे बड़ मुक्त दोनों समान होंगे सोभी ठीक नहीं क्योंकि जो मनुष्य रोगी है उसकी समता नीरोगके साथ कदापि नहीं करसकते यद्यपि जो निरोग है वह भी समयान्तरमें रोगी हो सकता है परन्तु यह विचार करके “यह भी भविष्यत् में रोगी होगा अतएव रोगीही के समान है” उसके साथ भी रोगीकासा बर्ताव नहीं कर सकते । इस लिये न तो मुक्तकी पुनरावृत्ति मानने में श्रुतिसे विरोध आता है और न युक्तिसे विरोध होता है ॥२१॥

स्थान ( निकम्नापन ) मशय ( दृढता समझ ) प्रमाद ( समाधिमें अनियत रहना ) आलस्य ( शरीर वा बुद्धिका मोटा होना ) अवि-  
रति ( विषय लक्षणा ) भ्रान्तिदर्शन ( मिथ्या ज्ञान ) अनन्ध भूमि-  
कत्व ( समाधिका प्राप्त न होना ) अनवस्थितत्व ( जो समाधि प्राप्त  
को है उसका मनमें न ठहरना ) इन्हीके नाश हो जानेको मुक्ति  
कहते हैं इसके अर्थमें विज्ञान-भिचुने अन्तर्गायका अर्थ “उपाधिसे  
उत्पन्न हुआ” ऐसा किया है वह युक्त नहीं हो सकता क्योंकि  
कपोलकल्पित है एव उसने जो किया है वह इस अभिप्रायसे  
किया है कि ब्रह्मही जीवरूप हो गया है उसके ओपाधिक कार्य-  
नष्ट हो जानाही मुक्ति है परन्तु वह आर्ष प्रमाण और प्रकारण  
दोनोंसे विरुद्ध है अतएव मान्य नहीं ।

### अधिकारिद्वैविध्यान्न नियमः ॥२२॥

उत्तम, मध्यम और अधम, यह तीन प्रकारके अधिकारी है अतएव श्रवण मनन आदि योगांगीसे सबहीको मुक्ति हो यह नियम नहीं है ॥ २२ ॥

### दाढ्यार्थमुत्तरघाम् ॥२३॥

जो मूर्ख है उनकी दृढ़ताके लिये उक्त भी उचित है कि वह श्रवण, मनन, आदि योगाङ्गों का अनुष्ठान करें तो कालांतरमें उनकी भी मुक्ति हाँ सकती है ॥ २३ ॥

### स्थिरसुखमासनमिति न नियमः ॥२४॥

स्थिर सुख जिसमें हो वही आसन है ऐसा पूर्व कह चुके हैं, अतएव पद्मासन, मयूरासन, इत्यादिक भी मोक्षके साधन है, वा योगांगीमें परिगणित है यह नियम नहीं है ॥ २४ ॥

### ध्यानं निर्विषयं मनः ॥२५॥

जिसमें मन निर्विषय हो जाय अर्थात् उसकी कल्पना करनेके लिये कोई वस्तु जब न हो वही ध्यान है यह ध्यानही समाधि का लक्षण है । समाधि और सुषुप्तिमें भेद बताते हैं कि ॥ २५ ॥

### उभयथाप्यविशेषञ्चैवमुपरागनिरोधाद्विशेषः ॥२६॥

समाधि और सुषुप्ति दोनों समान है ऐसा नहीं कहना चाहिये क्योंकि समाधिमें उपराग ( विषय वासना ) का निरोध ( रोकना ) होता है अतएव सुषुप्तिकी अपेक्षा समाधि विशेष है ॥ २६ ॥



निःसंगेषुपरागोऽविवेकात् ॥२७॥

यद्यपि पुरुष निःसंग अर्थात् संग रहित है तोभी \* अविवेक के कारण उसमें विषयोंकी बासनाएं माननी चाहिये ॥२७॥

जवाम्फटिकयोरिव नोपरागः किन्त्वभिमानः ॥२८॥

जैसे जवाका फूल और स्फटिकमणिको समीपस्वने पर उपराग होता है ठीक उसी प्रकारका उपराग पुरुषमें नहीं है किन्तु अविवेकके कारण पुरुषमें विषय बासनाओंका अभिमान कहना चाहिये जहा २ जवा पुष्प स्फटिकका दृष्टान्त दे चुके है वहा और इस कथनमें विरोध न समझना चाहिये क्योंकि वह केवल दृष्टान्त पक्ष था यह सिद्धान्त पक्ष है ॥२८॥

ध्यानधारणाभ्यामवैराग्यादिभिस्तन्निरोधः ॥२९॥

ध्यान, धारणा, अभ्यास वैराग्य आदिकोंसे विषय बासनाओंका निरोध हो सकता है ॥२९॥

लय-विक्षेपयोर्व्यवृत्त्यर्थात् ॥३०॥

लय (सुषुप्ति)विक्षेप( स्वप्न और जागृत् ) इन दोनी अवस्थाओंके निवृत्त हो जानेसे अर्थात् समाधि प्राप्तिहीसे विषय बासनाका निरोध हो जाता है यह आचार्योंका मत है ॥३०॥

\* यहाभी अविवेक के कथनमें कर्मोंकी बासना हीमें तात्पर्य समझना चाहिये ।

† इन सबका वर्णन पूर्वही हा चुका है अतएव फिर लिखना अनावश्यक है । आदि शब्दसे समाधिका ग्रहण करना चाहिये ।

न स्थाननियमश्चित्तप्रसादात् ॥ ३१ ॥

समाधि आदिकी करनेके लिये स्थानका नियम नहीं है किन्तु जहाँ चित्तकी प्रसन्नता हो वहीं समाधि हो सकती है। बहुतेरे लोग कहते हैं कि गुहाहीमे समाधि हाँतो है परन्तु वह साख्यके मतसे विरुद्ध है ॥३१॥

प्रकृतेराद्योपादानतान्येषां कार्यत्व-श्रुतेः ॥३२॥

प्रकृति ही सबका उपादान कारण है और महदादिक प्रकृतिके कार्य है ॥ ३२ ॥

नित्यत्वेऽपि नात्मनो योगत्वाभावात् ॥३३॥

यद्यपि आत्मा नित्य है तथापि उसे उपादान कारण नहीं कह सकते क्योंकि जो बातें उपादान कारणमें होनी चाहिये वह आत्मामें नहीं है अर्थात् यदि आत्माही सबका उपादान कारण हो तो पृथिवी आदिक सब चैतन्य होने चाहिये परन्तु ऐसा नहीं देखनेमें आता ॥३३॥

श्रुतिविरोधान्न कुतर्कापसदस्यात्मलाभः ॥३४॥

जो आत्माके सम्बन्धमें श्रुतियोंका विरोध करके कुतर्क करता है उसे कदापि आत्म-ज्ञान नहीं होता क्योंकि जो जीव अल्पज्ञ है उसे वास्तवमें जो मनुष्य सर्वज्ञ मानेगा वह कदापि नहीं समझ सकेगा कि जीव क्या बस्तु है और उमका क्या स्वरूप है ॥३४॥

परम्पर्येऽपि प्रधानानुवृत्तिरणवत् ॥३५॥

परम्परा सम्बन्धसे भी सबका कारण प्रकृतिही को मानना चाहिये जैसे घट आदिकीं कारण अणु और अणुओंका

कारण परमाणु हैं इसी भांति परस्परसे भी सबका कारण प्रधान ही है ॥३५॥

सर्वत्र कार्यदर्शनाद्विभुत्वम् ॥ ३६ ॥

प्रकृतिके कार्य सर्वत्र दिखाई पड़ते हैं अतएव प्रकृति नित्य है ॥ २६ ॥

गतियोगेऽप्याद्यकारणताहानिरणुवत् ॥३७॥

यद्यपि शरीरमें गमनादि क्रियाओंका योग है तो भी उसका आद्य-कारण ( पहला सबब ) अवश्य मानना पड़ेगा जैसे अणु यद्यपि सूक्ष्म है तथापि उनका कारण अवश्य माना जाना है ॥३७॥

प्रमिद्धाधिक्यं प्रधानस्य न नियमः ॥३८॥

प्रकृतिही की प्रमिद्धता देखी जाती है अतएव वैशेषिका-दिकींके माने हुए द्रव्यों का ठीक नियम नहीं है क्योंकि कोई नव द्रव्य बताता है कोई शोद्ध द्रव्य कहता है इससे वह सब अनियमित है और प्रकृतिहीके सब कार्य दिखाई पड़ते हैं इस लिये उसीको कारण मानना चाहिये ॥ ३८ ॥

\* अहानिरितपिदच्छेद' । अणुवदित्यपूर्णोपमेत्युच्यते । (अहानि ऐसा पदच्छेद करना चाहिये अणुवत् जो उपमा दी वह अपूर्ण उपमा है क्योंकि गति अणुओंमें नहीं होती ) ।

सत्त्वादीनामलडर्मत्व तद्रूपत्वात् ॥३६॥

सत्व रज, तम, यह प्रकृतिके धर्म नहीं है किन्तु यह प्रकृति के रूप है अर्थात् सत्त्वादि रूप ही प्रकृति है ॥३६॥

अनुपभोगेऽपि पुमर्थं सृष्टिः प्रधानस्योष्ट्रकुंकुम-  
वहनवत् ॥४०॥

\*यद्यपि प्रकृति अपनी सृष्टिका आपभोग नहीं करती तथापि उसकी सृष्टि पुरुषके लिये है जैसे ऊठ अपने मालिक के लिये कुड्डुम नेजाता है ऐसे ही प्रकृति भी सृष्टि करती है ॥ ४० ॥

कर्मवैचित्र्यात् सृष्टिवैचित्र्याम् ॥ ४१ ॥

प्रत्येक पुरुषके कर्मोंकी वामनाएँ भांतिर की होती है इसीसे प्रकृतिकी भी सृष्टि भाति भाति की होती है एकमी नहीं होती ॥ ४१ ॥

साम्यवैषम्याभ्यां कार्यद्वयम् ॥ ४२ ॥

समता और विषमताके कारण उत्पत्ति और प्रलय होते हैं । जब प्रकृतिकी समता होती है तब उत्पत्ति होती है और जब विषमता होती है तब प्रलय होता है, यही बात लोकमें भी देखी जाती है कि जिन दो औषधोंके बराबर मिलाकर खानेसे तो फायदा होता है और कम बढ़ मिना कर खानेसे हानि होती है ॥४२॥

\* इस सूत्रकी व्याख्या पहले दूसरे सूत्रमें हो चुकी है इससे फिर लिखना व्यर्थ है ।

विमुक्तस्यबोधान्न सृष्टिः प्रधानस्य लोकवत् ॥४३॥

जब प्रकृति यह जान लेती है कि यह पुरुष मुक्त हो गया तब उसके लिये सृष्टि नहीं करती जैसे लोकमें भी देखा जाता है कि जब कोई मनुष्य किसीको कुड़ानेका यत्न करता है और जब वह कुड़ा देता है तब उस यत्नसे निवृत्त हो जाता है क्योंकि जिसके लिये उद्योग किया था वह कार्य पूरा हो गया ॥४३॥

नान्योपसर्पणेऽपि मुक्तोपभोगो निमित्ताभावात् ॥४४॥

यद्यपि प्रकृति अविवेकियोंको बद्ध करती है परन्तु जो मुक्त है उनको बद्ध नहीं कर सकती क्योंकि जिस निमित्तसे वह अविवेकियोंको बद्ध करती थी वह अविवेक मुक्त जीवोंमें नहीं रहता ॥ ४४ ॥

पुरुषबहुत्व' व्यवस्थातः ॥४५॥

जीव अनेक है क्योंकि प्रति शरीरमें उनकी पृथक् व्यवस्था देखी जाती है ॥४५॥

उपाधिश्चैत् तन्मिद्धौ पुनर्द्वैतम् ॥४६॥

यदि यह कहो कि जैसे सूर्य एक है और उसका प्रतिबिम्ब अनेक स्थलोंमें पड़नेसे अनेकता दिखाई पड़ती है इसी भाँति ईश्वर एक ही है किन्तु शरीररूपी उपाधि होनेसे अनेकता है तो भी ठीक नहीं, क्योंकि जो एक ब्रह्मके सिवाय और किसीका मानते ही नहीं वह यदि ब्रह्म और उपाधि दो मानेंगे तो अद्वैत बाद न रह कर द्वैत वाद ही जावेगा ॥४६॥

### द्वाभ्यामपि प्रमाणविरोधः ॥४७॥

दोनों मानने पर भी प्रमाणसे विरोध होता है, क्योंकि यदि उपाधिको सत्य माने तो जिन प्रमाणोंसे अद्वैत की सिद्धि करते हैं उनसे विरोध होगा, और यदि उपाधि मिथ्या मानें तो जिन प्रमाणोंसे उपाधि सिद्ध करते हैं उससे विरोध होगा ॥ अपना मत कहते हैं कि ॥४७॥

### द्वाभ्यामप्यविरोधान्न पूर्वमुत्तरं च साधकाभावात् ॥४८॥

अद्वैत और द्वैत इन दोनोंके साथ हमारा विरोध नहीं है क्योंकि अद्वैत तो ईश्वर इस लिये है कि उसके समान दूसरा कोई नहीं है और द्वैत इस लिये है कि जीव और प्रकृतिके गुण ईश्वरकी अपेक्षा अन्य प्रकारके प्रतीत होते हैं अतएव पहला पक्ष ठीक है, वा पिछला ठीक है, यह न कहना चाहिये क्योंकि एक ही पक्षका पोषक कोई प्रमाण नहीं पाया जाता किन्तु जीव और ईश्वरकी भिन्नताके साधक प्रमाण पाये जाते हैं ॥४८॥

### प्रकाशतस्त्विद्वौ कर्मकर्तृविरोधः ॥ ४९ ॥

ब्रह्म प्रकाश स्वरूप है अतएव वह जो कुछ चाहे कर सकता है अर्थात् चाहे जीवरूप ही चाहे घटपटादि रूप हो इस प्रमाणसे यदि ब्रह्मको अद्वैत कह कर अद्वैतवादकी सिद्धि करो तो कर्ता और कर्मका विरोध होगा क्योंकि ऐसा कहीं नहीं दिखाई पडना कि कर्ताही कर्म होगया है जैसे घटका कर्ता कुलाल है और उसका कर्म घट है तो दोनोंकी

पृथक् पदार्थ मानना पड़ेगा, किन्तु कुलाल ही घट है ऐसा नहीं कह सकते ॥ ४८ ॥

जडव्यावृत्तो जडं प्रकाशयति चिट्पः ॥५०॥

जीव जडपदार्थों में मिलकर उन पदार्थोंको प्रकाशित करता है अतएव वह प्रकाश स्वरूप है ; क्योंकि यदि प्रकाश करनेकी शक्ति जीवमें न होती तो शरीरमें गमनादिक क्रिया न हो सकती ॥ ५० ॥

न श्रुतिविरोधो रागिणां वैराग्याय तत्किञ्चेः ॥५१॥

जो श्रुतियां केवल अद्वैतही को प्रतिपादन करती है उनसे और द्वैतमाननेवालोंसे कुछ भी विरोध नहीं होगा क्योंकि जो ईश्वरको छोड़कर जीव वा शरीरको ईश्वरमान बैठे है उनके समझानेके लिये वह श्रुतिया है अर्थात् ईश्वरको उन श्रुतियोंने अद्वैत, अद्वितीय, एक, आदि विशेषणोंसे इस कारण कहा है कि उसके समान और दूसरा कोई नहीं है अतएव द्वैतमानने से श्रुतियोंसे विरोध नहीं होता ॥ ५१ ॥

जगत्सत्यत्वमदृष्टकारणजन्यत्वाद्वाधकाभावात् ॥५२॥

\* जगत् सच्चा है क्योंकि इसका कारण नित्य है और किसी कालमें भी इसका बाध ( रोक ) नहीं दिखाई पड़ता ॥ ५२ ॥

प्रकारान्तराम्भवात् सदुत्पत्तिः ॥५३॥

जब सिवाय प्रकृतिके और कोई कारण इसका दिखाई

न इस सूत्रका जो अभिप्राय है वह प्रथम अध्यायमें कहाजा चुका है ।

नहीं पडता तो यही कहना चाहिये कि इसकी उत्पत्ति असत् पदार्थसे नहीं है किन्तु सत्पदार्थसे है ॥ ५३ ॥

**अहङ्कारः कर्ता न पुरुषः ॥ ५४ ॥**

सङ्कल्प विकल्प आदिक कार्यों का कर्ता अहङ्कार अर्थात् अन्तःकरण है किन्तु जीव नहीं है क्योंकि जो विचार बुद्धिमे होता है उसके उपरान्त ही कार्यमें प्रवृत्ति देखी जाती है और वह बुद्धि पुरुषके प्रतिविम्ब हीसे प्रकाशित है ॥ ५४ ॥

**चिद्वसना भुक्तिस्तत्कर्मार्जितत्वात् ॥ ५५ ॥**

जिनका अवसान (अन्त) जीवमें हो उसका नाम भोग है क्योंकि वह भोग जीवहीके कर्मों से होता है अतएव भोगोंका अवसान भी जीवमें मानना चाहिये ॥ ५५ ॥

**चन्द्रादिलोकेऽप्यावृत्तिर्निमित्तमङ्गावात् ॥ ५६ ॥**

चन्द्रलोकके \* जीवोंमें भी आवृत्ति देखी जाती है क्योंकि जिस निमित्तसे मुक्ति और बंध होते है वह वहांके जीवोंमें भी समानही देखे जाते है । इसका आशय यह है कि चन्द्रआदि लोकोंके रहनेवाले जीवभी एकबार मुक्त होकर फिर कभी बन्धनमें न पडते है यह नियमनहीं है किन्तु वहांके मुक्तजीवों की भी आवृत्ति होती है क्योंकि वह लोकभी भूलोकके ही समान है ॥ ५६ ॥

\* चन्द्रलोक भी इसी लोकके समान लोक है और वहां भी इसी भांति वसति देखीजाती है जिसे कि हमारे पूर्व विद्वानोंने निश्चय कर लिया था और वर्तमानमें अग्रजोंने मार्डक्रीम कोष Microscope । नामक सूक्ष्म दर्शक यन्त्रोंसे यह निश्चय कर लिया है कि चन्द्रलोकमें जल मनुष्य आदि कितने ही पदार्थ हैं ।



लोकस्य नोपदेशात् सिद्धिः पूर्ववत् ॥५७॥

जैसे इस लोकके मनुष्योंको केवल श्रवण मात्रसे मुक्तिकी सिद्धि नहीं होती इसी प्रकार चन्द्रलोकके मनुष्योंको भी श्रवण मात्रसे ज्ञानकी प्राप्ति नहीं होती ॥ ५७ ॥

पारम्पर्येण तत्त्वद्वौ विमुक्ति-श्रुतिः ॥५८॥

जो जन्मान्तरोंसे मुक्तिके लिये प्रयत्न करता चला आता है वह केवल श्रवणमात्र ही से मुक्त हो सकता है अतएव "श्रुत्वामुच्यते" सुननेसे मुक्त हो जाता है यह श्रुति भी सार्थक हो सकती है ॥५८॥

गतिश्रुतेश्च व्यापकत्वेऽप्युपाधियोगाङ्गागदेशकाल-

लाभो व्यामवत् ॥५९॥

आत्मामे जो गति (गमन) सुना जाता है वह इस प्रकार समझना चाहिये कि यद्यपि आत्मा शरीरमें व्यापक है तभी उस शरीररूपो उपाधिके योगसे अनेक प्रकारके भोग, देश, और समयोंका योग उसमें माना जाता है। अर्थात् भोगोंकी प्राप्ति, देशान्तर गमन और प्रातःमन्थ्या आदिका अतिक्रम आत्माहीमें प्रतीत होता है किन्तु वास्तवमें आत्मा इनसे पृथक् है जैसे घटका आकाश घड़ेको उठा लेजानेसे वही आकाश भी चला जाता है ॥ प्रथम कह चुके हैं कि बिना जीवके केवल वायुहीसे शरीरका कार्य नहीं चल सकता उस पर अपना सिद्धान्त कहते हैं ॥५९॥

अनधिष्ठितस्य पूर्तिभावप्रसङ्गान्न तत्सिद्धिः ॥६०॥

यदि आत्मा इस शरीरका अधिष्ठाता नहीं तो शरीरमें

दुर्गन्धि आनि लग्न अतएव प्राणको शरीरका अधिष्ठाता नहीं कह सकते ॥ ६० ॥

अदृष्टद्वारा तदसम्बद्धस्य तदसम्भवाज्जलादि-  
वदङ्कुरे ॥ ६१ ॥

यदि अदृष्ट ( प्रारब्ध ) से प्राणको शरीरका अधिष्ठाता कहें तो भी ठीक नहीं ही सकता क्योंकि प्राणका जब अदृष्टके साथ कोई सम्बन्ध ही नहीं है तब उसे अधिष्ठाता कैसे कह सकते है ? जैसे अङ्कुर उत्पन्न होनेमें यद्यपि जल भी हेतु है परन्तु बिना बीजके जलसे अङ्कुर उत्पन्न नहीं हो सकता इसी भाति यद्यपि शरीरकी अनेक क्रियाएं प्राणसे होती है परन्तु वह प्राण बिना आत्माके कोई क्रिया नहीं कर सकता ॥६१॥

निर्गुणात्वात् तदसम्भवादहङ्कारधर्मा च्यते ॥६२॥

\* ईश्वर निर्गुण है अतएव उसीके बुद्धि आदिक होना असम्भव है इस लिये यह सब अहङ्कारके धर्म, बुद्धिआदि जीव ही को मानने चाहिये ॥६२॥

विशिष्टस्य जीवत्वमन्वयव्यतिरेकात् ॥६३॥

जो ईश्वरके गुणोंसे पृथक् शरीरादि युक्त है उसका नाम जीव है यह बात अन्वय व्यतिरेकसे जाननी चाहिये अर्थात् जीवके होनेसे शरीरमें बुद्धि आदिका प्रकाश और न होनेसे अप्रकाश दिखाई पडता है ॥६३॥

• अत्र जीवस्येति शेषः ।

अहङ्कारकर्तृधीना कार्यमिद्विर्नेश्वराधीना  
प्रमाणाभावात् ॥ ६४ ॥

बुद्धिआदि कार्योकारनेवाला अहङ्कार ही है किन्तु बुद्धिको ईश्वर नहीं बनाता क्योंकि बुद्धि आदि अनित्य है और ईश्वर नित्य है अतएव उसके कार्यभी नित्य होने चाहिये ॥६४॥

अदृष्टोद्भवत् समानत्वम् ॥ ६५ ॥

जिस पदार्थका कर्त्ता प्रत्यक्ष दिखाई नहीं पड़ता उसका अनुमान कर लिया जाता है जैसे कि "घटका कर्त्ता कुलाल यद्यपि प्रत्यक्ष नहीं देखते तोभी उसका अनुमानमें निश्चयकिया जाता है" इस भांति पृथिवी और अद्भुरादिकोका कर्त्ताभी किसी न किसीको अवश्य मानना चाहिये ॥६५॥

महतीऽन्यत् ॥ ६६ ॥

इस भांति इन्द्रियोंकी तन्मात्राधीका कर्त्ता भी महत्त्वकी अपतिरिक्त किसीको मानना चाहिये, वह कर्त्ता अहङ्कार ही है ॥६६॥

कर्म-निमित्तः प्रकृतेः स्वस्वामिभावोऽप्यनादि-  
वीजांकुरवत् ॥ ६७ ॥

पुरुषके कर्मोंकी वासनासे प्रकृति और पुरुषका स्व-स्वामि भाव सम्बन्ध भी अनादि ही मानना चाहिये। जैसे कि बीज और अद्भुरके सम्बन्धको अनादि मानते हैं ॥६७॥

अविवेकनिमित्तो वा पञ्चशिखः ॥६८॥

पञ्चशिख आचार्य कहते हैं कि प्रकृति और पुरुषका स्व-स्वामि भाव सम्बन्ध कर्मकी वासनाओंसे नहीं है किन्तु अविवेकसे है ॥६८॥

लिङ्गशरीरनिमित्तक इति सनन्दनाचार्य्य ॥६९॥

लिङ्ग शरीरके कारण प्रकृति और पुरुषका स्व-स्वामि भाव सम्बन्ध है एसा सनन्दनाचार्य मानते हैं ॥ ६९ ॥

यद्वा तद्वा तदुच्छ्रित्तिः पुरुषार्थस्तदुच्छ्रित्तिः

पुरुषार्थः ॥ ७० ॥

प्रकृति और पुरुषका चाहे जो सम्बन्ध क्यों न हो किन्तु किसी न किसी प्रकारसे उस सम्बन्धका नाश कर देनेका ही नाम मोक्ष है यही सांख्याचार्य्यका मत है यह वीष्णुमें पुनरुक्ति है ॥ ७० ॥

इति षष्ठाध्यायः समाप्तो ग्रन्थश्च ।



